



Annual Report



2018-19

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
उमंग आकाश छूने की



विषय सूची / Contents

विषय सूची	पृष्ठ सं.	Contents	Page No.
मिशन	2	Mission	2
निदेशक मण्डल	3	Board of Directors	3
बैंक के कार्यपालक	4	Bank Executive	4
निदेशक प्रतिवेदन	5-26	Director's Report	5-26
मुख्य वित्तीय सूचक	27-29	Key Financial Indicators	27-29
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	30-34	Important Financial Indicators	30-34
हमारी उपस्थिति	35	Our Presence	35
भौगोलिक परिदृश्य	36	Geographical Spread	36
प्रधान कार्यालय	37	Head Office	37
क्षेत्रीय कार्यालय	38	Regional Office	38
वित्तीय विवरण	39	Financials	39
तुलन पत्र	40	Balance Sheet	40
लाभ हानि लेखा	41	Profit and Loss Account	41
अनुसूचियां	42-57	Schedules	42-57
अतिरिक्त प्रकटीकरण	58-72	Additional Disclosure	58-72
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	73-76	Auditor's Report	73-76
यादगार पल	77-80	Memorable Moments	77-80

मिशन स्टेटमेंट

अपने कार्य क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु राजस्थान राज्य में महत्वपूर्ण वित्तीय उत्प्रेरक के रूप में, ग्राहक केन्द्रित, तकनीक संचालित एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ नये युग का एक प्रमुख ग्रामीण बैंक बनने हेतु प्रतिबद्ध



Mission Statement

To be a customer centric, technology driven major rural bank of new era in the state of Rajasthan with committed approach to act as an important financial catalyst for the economic upliftment in the area of operation.



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK



निदेशक मण्डल

Board of Directors



श्री आर.सी. गग्गड़
अध्यक्ष
Mr. R.C. Gaggar
Chairman



श्री जी.बी. पान्डा
महाप्रबंधक - बैंक ऑफ बड़ौदा
Mr. G.B. Panda
General Manager - Bank of Baroda



श्री प्रकाश वीर राठी
महाप्रबंधक (अंचल प्रमुख) बैंक ऑफ बड़ौदा
Mr. Prakash Virathi
General Manager (Zonal Head) Bank of Baroda



श्री प्रमोद कुमार
उप महाप्रबंधक, नाबार्ड
Mr. Pramod Kumar
Dy. General Manager, NABARD



श्री धर्मन्द्र आजाद
सहायक महाप्रबंधक (आर.बी.आई.)
Mr. Dharmendra Azad
Asstt. General Manager (RBI)



श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता
संयुक्त सचिव, (संस्थागत वित्त)
आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
Mr. S.C. Gupta
Jt. Secretary (Institutional Finance)
Planning Deptt. Govt. of Rajasthan



श्री राजकिशोर मीणा
कोषाधिकारी
राजस्थान सरकार, अजमेर
Mr. Rajkishor Meena
Treasury Officer
Govt. of Rajasthan, Ajmer



श्री योगेश बिहारी माथुर
महाप्रबंधक
Mr. Yogesh Bihari Mathur
General Manager

बैंक के कार्यपालक
Bank's Executive



श्री ए.के. मिश्रा
महाप्रबंधक
Mr. A.K. Mishra
General Manager



श्री राजेन्द्र सिंघल
क्षेत्रीय प्रबंधक, अलवर
Mr. Rajendra Singhal
Regional Manager, Alwar



श्री वी.सी. व्यास
क्षेत्रीय प्रबंधक, बांसवाड़ा
Mr. V.C. Vyas
Regional Manager, Banswara



श्री डी.एस. मेडतिया
क्षेत्रीय प्रबंधक, बारण
Mr. D.S. Medatiya
Regional Manager, Baran



श्री एम.एल. जाटव
क्षेत्रीय प्रबंधक, भरतपुर
Mr. M.L. Jatav
Regional Manager, Bharatpur



श्री ए.के. गुप्ता
क्षेत्रीय प्रबंधक, भीलवाड़ा
Mr. A.K. Gupta
Regional Manager, Bhilwara



श्री आलोक जैन
क्षेत्रीय प्रबंधक, चित्तौड़गढ़
Mr. Alok Jain
Regional Manager, Chittorgarh



श्री जी.एल. मीणा
क्षेत्रीय प्रबंधक, चूरु
Mr. G.L. Meena
Regional Manager, Churu



श्री के.पी. गुप्ता
क्षेत्रीय प्रबंधक, झुंझुनु
Mr. K.P. Gupta
Regional Manager, Jhunjhunu



श्री आर.के. शर्मा
क्षेत्रीय प्रबंधक, कोटा
Mr. R.K. Sharma
Regional Manager, Kota



श्री एम.पी. शर्मा
क्षेत्रीय प्रबंधक, नीम का थाना
Mr. M.P. Sharma
Regional Manager, Neem Ka Thana



श्री आर.सी. बशेर
क्षेत्रीय प्रबंधक, सवाईमाधोपुर
Mr. R.C. Basher
Regional Manager, Sawai Madhopur



श्री एस.सी. गर्ग
क्षेत्रीय प्रबंधक, सीकर
Mr. S.C. Garg
Regional Manager, Sikar



निदेशक मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, अजमेर का निदेशक मण्डल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 20 की अनुपालना में बैंक के कार्य परिणामों एवं गतिविधियों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित लेखा विवरणियाँ एवं अंकेक्षकों के प्रतिवेदन को सहर्ष प्रस्तुत करता है।

1. पृष्ठभूमि

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, (बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित) की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21वां) की धारा 23ए की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत गजट नोटिफिकेशन सं.एफ नं.7/9/2011-आरआरबी दिनांक 01 जनवरी, 2013 जारी कर बैंक ऑफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों क्रमशः बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राजस्थान ग्रामीण बैंक को समामेलित कर की गई।

बैंक का प्रधान कार्यालय, अजमेर में स्थित है एवं इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः अलवर, बाँसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, झुंझुनू, कोटा, नीम का थाना, सवाईमाधोपुर एवं सीकर में स्थित हैं।

बैंक राजस्थान राज्य के 21 जिलों, क्रमशः अजमेर, अलवर, बाँसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर एवं टोंक में कार्यरत है।

बैंक का, राजस्थान राज्य के ग्रामीण बैंकों में सबसे बड़ा शाखा तंत्र एवं परिचालन क्षेत्र है।

क्षेत्रवार जिलों की स्थिति:

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	जिले
1	अलवर	अलवर
2	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़
3	बारां	बारां एवं झालावाड़
4	भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर एवं करौली
5	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा एवं अजमेर
6	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़ एवं बून्दी
7	चूरू	चूरू एवं बीकानेर
8	झुंझुनू	झुंझुनू
9	कोटा	कोटा एवं बून्दी
10	नीम का थाना	झुंझुनू एवं सीकर
11	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर, दौसा एवं टोंक
12	सीकर	सीकर

2. शाखा तंत्र

बैंक राजस्थान राज्य के 21 जिलों में 845 शाखाओं, एक विस्तार पटल व 3985 बैंक मित्र (बी.सी.) के माध्यम से अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है।

'सेवा से वंचित समाज की सेवा' नीति का अनुसरण करते हुए आलोच्य अवधि के दौरान निम्नलिखित 15 नई शाखाएँ खोली गयी, जिन में से 2 शाखाएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित, 'Unbanked' केन्द्रों पर खोली गईं-

क्र. सं.	शाखा	जिला	क्षेत्र	शाखा खुलने की तिथि
1.	माचाड़ी	अलवर	अलवर	24-04-2018
2.	लुहारू रोड़, पिलानी	झुंझुनू	झुंझुनू	06-06-2018
3.	उमैण	अलवर	अलवर	25-07-2018
4.	झिलाई	टोंक	सवाईमाधोपुर	09-08-2018
5.	बहादुरपुर पट्टी मीरान	अलवर	अलवर	01-09-2018
6.	सरवड़ी	सीकर	सीकर	19-09-2018
7.	गारिन्डा	सीकर	सीकर	26-09-2018
8.	नौगामा	बाँसवाड़ा	बाँसवाड़ा	13-12-2018
9.	इशरोदा	अलवर	अलवर	15-12-2018
10.	ततारपुर	अलवर	अलवर	15-12-2018
11.	बसई नवाब	धौलपुर	भरतपुर	24-12-2018
12.	पीपल्दा कलां	कोटा	कोटा	20-02-2019
13.	सौरिया जी, मंडफिया	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	25-03-2019
14.	श्रीनगर	अजमेर	भीलवाड़ा	25-03-2019
15.	खेतड़ी मोड़, नीम का थाना	सीकर	सीकर	27-03-2019

विद्यमान शाखाओं/कार्यालयों की क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है -

क्र. सं.	क्षेत्र	जिलों की संख्या	शाखाओं की संख्या	केन्द्रों पर स्थित शाखाएं			
				ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	मैट्रो
1.	अलवर	1	81	60	16	5	-
2.	बाँसवाड़ा	3	68	55	10	3	-
3.	बारां	2	64	43	16	5	-
4.	भरतपुर	3	77	50	19	8	-
5.	भीलवाड़ा	2	83	55	13	15	-
6.	चित्तौड़गढ़ *	2	64	50	9	5	-
7.	चूरू	2	82	61	17	4	-
8.	झुंझुनू	1	73	54	17	2	-
9.	कोटा *	2	60	38	9	-	13
10.	नीम का थाना *	2	64	48	16	-	-
11.	सवाईमाधोपुर	3	68	49	13	6	-
12.	सीकर	1	61	51	7	3	-
	कुल	21	845	614	162	56	13

*कुछ जिले एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन कार्यरत है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के बाँसवाड़ा क्षेत्र की प्रारंभ से हानि



दर्शानि वाली दो शाखाओं जगपुरा एवं कुवानिया का निकटवर्ती हानिगत शाखाओं क्रमशः देलवाड़ा लोकिया एवं सेनावासा में विलय कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "Full Fledged Banking Outlet" हेतु प्रदत्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में दोनों विलय की जाने वाली शाखाओं जगपुरा एवं कुवानिया केन्द्रों पर बीसी द्वारा संचालित "Full Fledged Banking Outlet" की स्थापना कर दी गयी है।

3. अंश पूँजी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 14वां) की उप धारा (2) के द्वारा हमें अधिकृत किया गया है कि बैंक की अधिकृत अंश पूँजी ₹ 2000 करोड़ की जा सकती है, जिसे ₹ 10 प्रति शेयर के अनुसार 200 करोड़ अंशों में विभाजित किया जा सकता है।

बैंक की निर्गमित एवं प्रदत्त पूँजी ₹309.34 करोड़ हो गई है जो ₹10 प्रति अंश के अनुसार 30,93,37,980 अंशों में विभाजित है।

बैंक की अंश पूँजी भारत सरकार, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त स्वामित्व में 50 : 35 : 15 के अनुपात में है। इस प्रकार भारत सरकार के पास अंश पूँजी ₹154.67 करोड़, प्रायोजक बैंक के पास ₹108.27 एवं राजस्थान सरकार के पास ₹46.40 करोड़ है।

4. लाभ

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा ₹ 213.23 करोड़ का सकल लाभ एवं ₹106.07 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंक द्वारा ₹102.77 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया था। बैंक के शुद्ध लाभ में 3.21% की वृद्धि हुई है।

5. व्यवसाय स्तर

दिनांक 31.03.2019 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹27170.62 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है, जो गत वर्ष की तुलना में ₹ 3658.51 करोड़ की सकल वृद्धि के साथ 15.56 प्रतिशत की प्रगति दर्शाता है।

मानदंड	31.03.2019	31.03.2018
जमाएं	1513438	1322840
अग्रिम	1203624	1028367
कुल व्यवसाय	2717062	2351207

6. जमायें

जमाओं की श्रेणीवार स्थिति निम्नानुसार है-

(रशि लाखों में)

क्र.सं.	श्रेणी	दिनांक 31.03.19 को		जमा मिश्रण %	दिनांक 31.03.18 को		जमा मिश्रण %
		खाता	रशि		खाता	रशि	
1	चालू जमाएं	37670	28546	1.89	48087	27564	2.08
2	बचत जमाएं	8165023	777803	51.39	7269797	691821	52.30
3	आवधिक जमाएं	497379	707089	46.72	464495	603455	45.62
4	कुल	8700072	1513438	100	7782379	1322840	100

7. उधार/पुनर्वित्त

बैंक ने तरलता में वृद्धि व निधियों के पुनर्चक्रण के उद्देश्य से, वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ₹804.90 करोड़ अल्पावधि (SAO) ₹ 175.00 करोड़ अल्पावधि (OSAO) पुनर्वित्त एवं ₹ 10.33 करोड़ मध्यावधि पुनर्वित्त की स्वीकृति एवं राशि प्राप्त की है। बड़ी हुई तरलता का ऋण वितरण में विवेकसंगत उपयोग किया गया है। पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.50% से 10.25% के बीच है। उधार लागत 5.50% है।

बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को पुनर्वित्त के पुनर्भुगतान दायित्वों का बिना चूक निर्वहन किया गया है।

पुनर्वित्त की योजनावार स्थिति इस प्रकार है -

(रशि लाखों में)

क्र. सं.	संस्था/योजना	वर्ष के दौरान स्वीकृत सीमा	वर्ष के दौरान आहरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31.03.19 को बकाया
राष्ट्रीय बैंक					
1	अल्पावधि (सी.कू.प.)	80490	80490	72967	80490
2	अल्पावधि (गैर-सी.कू.प.)	17500	17500	22500	17500
3	मध्यावधि (योजनागत)	1033	1033	19669	45957
4	मध्यावधि (गैर-योजनागत)	-	-	-	-
5	तरलता सहायता	-	-	-	-
6	अन्य	0	0	0	0
योग (क)		99023	99023	115136	143947
प्रायोजक बैंक					
1	अल्पावधि (सी.कू.प.)	-	-	-	-
2	लाइन ऑफ क्रेडिट	-	-	-	-
3	अल्पावधि (गैर-सी.कू.प.)	-	-	-	-
4	मध्यावधि (योजनागत)	-	-	-	-
5	मध्यावधि (गैर-योजनागत)	-	-	-	-
6	अन्य	-	-	-	-
योग (ख)		-	-	-	-
महायोग (क + ख)		99023	99023	115136	143947

8. नकदी एवं बैंकों के पास अधिशेष

औसत नकद शेष की स्थिति निम्नानुसार है -

(रशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	औसत नकद शेष	औसत जमाएं	औसत जमाओं के विरुद्ध औसत नकद शेष का प्रतिशत
1.	2017-18	6805	1224181	0.56
2.	2018-19	5739	1383067	0.41

भारतीय रिजर्व बैंक, प्रायोजक बैंक एवं अन्य बैंकों के साथ चालू खातों में शेष एवं उन पर अर्जित ब्याज की स्थिति निम्नानुसार है-

(रशि लाखों में)

क्र.सं.	संस्था	2018-19		2017-18	
		वर्ष के अंत में शेष	अर्जित ब्याज 01.04.18-31.03.19	वर्ष के अंत में शेष	अर्जित ब्याज 01.04.17-31.03.18
1.	भारतीय रिजर्व बैंक	58972	-	50864	-
2.	प्रायोजक बैंक	9933	19	9559	77
3.	अन्य बैंक	1578	-	1323	-
योग		70483	19	81746	77

नकदी एवं चालू खाते में बैंक शेष की सभी स्तर पर सूक्ष्म निगरानी की गयी है एवं संसाधनों का विवेकसंगत विनियोजन किया गया है। बैंक यह सुनिश्चित कर रहा है कि नकदी न्यूनतम स्तर पर रखी जाये।



9. विनियोग

निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित बैंक की विनियोग नीति है। जिसका क्रियान्वयन प्रधान कार्यालय स्तर पर गठित विनियोग समिति द्वारा किया जाता है। यह समिति नियामकों व प्रायोजक बैंक की ट्रेजरी शाखा की सलाह के तहत प्राप्त विनियोग प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु उत्तरदायी है। बैंक ने एस.एल.आर विनियोग, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, आवश्यक सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया है। चालू वित्तीय वर्ष में विनियोग पर औसत आय 7.60% रही जबकि वर्ष 2017-18 में यह 7.62% थी।

एस.एल.आर और नॉन एस.एल.आर विनियोग का विवरण निम्नानुसार है।

(राशि लाखों में)			
क्र.सं.	विवरण	31.03.2019 को बकाया	31.03.2018 को बकाया
1	एस.एल.आर निधियाँ		
	अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	(अ) सरकारी प्रतिभूतियाँ	311775	281801
	योग (1)	311775	281801
2	नॉन एस.एल.आर निधियाँ		
	(ब) बॉण्ड एवं डिबेंचर	1166	10266
	योग (2)	1166	10266
	महायोग (1+2)	312941	292067

एस.एल.आर. बनाये रखने में कोई चूक नहीं की गई है।

10. बैंकों के साथ जमाएं

बैंकों के साथ शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि का विवरण निम्नानुसार है -

(राशि लाखों में)			
क्र.सं.	विवरण	31.03.2019 को बकाया	31.03.2018 को बकाया
1	बैंकों के चालू खाते में जमाएं	11511	10882
	योग(अ)	11511	10882
	बिघादी जमाएं		
	I. प्रायोजक बैंकों के साथ	96173	122225
	II. अन्य बैंकों के साथ	101340	81344
	योग(ब)	197513	203569
	महायोग(अ+ब)	209024	214451

11. बकाया ऋण एवं अग्रिम

बकाया ऋण एवं अग्रिम, 17.04 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए, दिनांक 31.03.18 को ₹ 10283.67 करोड़ से बढ़ कर 31.03.19 को ₹12036.24 करोड़ हो गए हैं।

(अ) बैंक के बकाया ऋण एवं अग्रिम की क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है -

(राशि लाखों में)							
क्र.सं.	क्षेत्र	दिनांक 31.03.19 को बकाया			दिनांक 31.03.18 को बकाया		
		खाता	राशि	कुल अग्रिमों का %	खाता	राशि	कुल अग्रिमों का %
1	कृषि एवं कृषि सहायक गतिविधियाँ*	521419	973587	80.89	495601	852241	82.27
2	अकृषि क्षेत्र	145340	230037	19.11	96407	176126	17.13
	योग	666759	1203624	100.00	592008	1028367	100.00

*पीएसएलसी (SF/MF) में हमारी भागीदारी ₹ 2910 करोड़ है

(ब) कुल बकाया ऋण एवं अग्रिमों में से विशिष्ट श्रेणीवार ऋण

(राशि लाखों में)							
क्र.सं.	क्षेत्र	दिनांक 31.03.19 को बकाया			दिनांक 31.03.18 को बकाया		
		खाता	राशि	कुल अग्रिमों का %	खाता	राशि	कुल अग्रिमों का %
1.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	597637	1066691	88.62	557097	929098	90.35
2.	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	69122	136933	11.38	34911	99269	9.65
3.	अ.बा./अ.ज.जाति को ऋण	135960	207363	17.23	154089	199684	19.45
4.	अल्पसंख्यकों को ऋण	30654	49628	4.12	28839	40973	3.98
5.	लघु/ सीमान्त	332421	524985	43.62	310858	462743	45.00

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक FIDD.CO.Plan.BC.No. 14/04.09.01/2015-16 dt. 03.12.2015 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदत्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया ऋण, गत वर्ष के बकाया अग्रिमों के 75 प्रतिशत से अधिक होने चाहिये। गत वर्ष, 31.03.2018 को बैंक के बकाया अग्रिम ₹1028467 लाख थे, जिसका 75 प्रतिशत ₹775013 लाख होता है। दिनांक 31.03.2019 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिम ₹1066691 लाख थे जो कि अपेक्षित स्तर 75% के विरुद्ध 88.62% हैं। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदण्डों की बैंक द्वारा अनुपालना की गई है।

12. ऋण वितरण

बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण नीति है। जिसमें ऋण उपलब्ध करवाते हुए ग्रामीण क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास और साख जोखिम को कम करने एवं गुणात्मक साख वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु यथोचित ऋण मानदण्डों के उद्देश्यों का समावेश किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा ₹10286 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

ऋण वितरण का क्षेत्रवार एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण इस प्रकार है -

(राशि लाखों में)					
उद्देश्य/क्षेत्र	वर्ष 2018-19 में वितरण		वर्ष 2017-18 में वितरण		
	खाता	राशि	खाता	राशि	
1	कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ	468227	862162	399894	760440
2	अकृषि क्षेत्र	61049	166449	45554	116703
	कुल वितरण	529276	1028611	445448	877143
3	कुल ऋण वितरण में से				
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में	507545	940747	430783	812856
ii)	गैर प्राथमिकता क्षेत्र में	21731	87865	14665	64287
iii)	अनु.जाति/अ.जाति को	152375	173577	98793	142652
iv)	अल्प संख्यकों को	18697	23435	13455	17211
v)	महिलाओं को	52686	71517	40328	65441
vi)	सी.क./ल.क./कृषि मजदूरों को	286695	455901	231197	417491

(अ) वार्षिक साख योजना

बैंक ने सेवा क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु वार्षिक साख योजनान्तर्गत 81.89 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करते हुए ₹12561 करोड़



के लक्ष्य के विरुद्ध ₹10286 करोड़ के ऋण वितरित किये हैं। जिलेवार प्रगति निम्नानुसार है-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	क्षेत्र	लक्ष्य राशि	उपलब्धि	
			राशि	प्रतिशत
1	अजमेर	30412	43183	142
2	अलवर	145392	134946	93
3	बाँसवाड़ा	20504	17966	88
4	बारां	36682	34301	94
5	भरतपुर	50308	58515	116
6	भीलवाड़ा	49117	54822	112
7	बीकानेर	17545	14398	82
8	बूंदी	95189	39744	42
9	चित्तौड़गढ़	39028	34511	88
10	चूरू	126052	98442	78
11	दौसा	3581	2335	65
12	धौलपुर	14040	11863	84
13	डूंगरपुर	15208	17762	117
14	झालावाड़	62459	39139	63
15	झुंझुनू	123440	122708	99
16	करोली	13421	16059	120
17	कोटा	68740	51997	76
18	प्रतापगढ़	19812	16024	81
19	सवाईमाधोपुर	30443	33342	110
20	सीकर	220620	131042	59
21	टीक	74107	55516	75
	योग	1256100	1028611	81.89

(ब) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

• **एन.आर.एल.एम.**

ग्रामीण क्षेत्र में गरीब/वंचित वर्ग की सहायता हेतु, बैंक सदैव प्रतिबद्ध रहा है और बैंक ने एन.आर.एल.एम. के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रयास किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत शाखाओं द्वारा 14192 आवेदनों में ₹70.98 करोड़ स्वीकृत किये गए हैं।

इस संबंध में SHG क्रेडिट लिंकेज में उल्लेखनीय योगदान देने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, RGAVP GOR से हमें प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है।

नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु SHG Credit Linkage एवं Loan Port folio Diversification हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार दिनांक 07.03.2019 को प्रदान किया गया है।

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तरी क्षेत्र के सर्वाधिक SHG Credit Linkage करने पर Secretary MoRD द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

- अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम की योजनाओं में बैंक समाज के निम्न वर्ग को अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत साख-सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। चालू वर्ष में शाखाओं द्वारा 1313 आवेदन पत्रों में ₹ 502.22 लाख स्वीकृत किये गये है।

13. आय निर्धारण एवं आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधान

(अ) आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधान

बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक के आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण के

दिशानिर्देशों का पूर्ण पालन किया है।

गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए वर्गीकरण व प्रावधानीकरण मानदण्डों के अनुरूप प्रावधान किया गया है। बैंक ने मानक आस्तियों के विरुद्ध (कृषि, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए 0.25 प्रतिशत, अन्य के लिए 0.40 प्रतिशत और रियल एस्टेट के लिए 1%) आवश्यक प्रावधान भी किया है।

श्रेणीवार आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधान निम्नानुसार है -

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	श्रेणी	बकाया अग्रिम		प्रावधान राशि	
		31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को	31.03.2018 को
1	मानक आस्तियाँ	1147795	3120	976546	2655
2	उप मानक आस्तियाँ	10884	1374	11538	1471
3	संदिग्ध आस्तियाँ	41842	31612	38107	28143
4	हानिग्रत आस्तियाँ	3104	3104	2178	2178
	योग	1203624	39210	1028367	34445

(ब) एनपीए प्रबन्धन

बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित, वसूली नीति का उद्देश्य बकाया देय राशि (ब्याज व ऋण की किश्त) की वसूली हेतु प्रभावी अनुवर्तन एवं नये एनपीए को रोकने हेतु समुचित प्रयासों द्वारा अधिकाधिक वसूली करना है। यह ऋण हेतु उपलब्ध निधियों का पुनर्चक्रण भी सुनिश्चित करता है।

दिनांक 31.03.2019 को बैंक का सकल एनपीए गत वर्ष के स्तर 5.04% से घट कर 4.64% हो गया है। निवल एनपीए स्तर 2.01% से घट कर 1.69% हो गया है।

बैंक की गैर-निष्पादक आस्तियों का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है -

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	श्रेणी	31.03.19	31.03.18
1	अवमानक आस्तियाँ	10884	11538
2	संदिग्ध आस्तियाँ	41842	38107
3	हानिग्रत आस्तियाँ	3104	2178
4	सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ	55830	51821
5	सकल ऋण के विरुद्ध सकल एन.पी.ए.प्रतिशत	4.84	5.04
6	वर्ष के अन्त में निवल एन.पी.ए.	19740	20031
7	निवल ऋण के विरुद्ध निवल एन.पी.ए.प्रतिशत	1.69	2.01

गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रवाह निम्नानुसार है-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.19	31.03.18
1	वर्ष के प्रारम्भ में शेष	51821	41629
2	वर्ष के दौरान एन.पी.ए. में कमी	14653	8335
3	वर्ष के दौरान एन.पी.ए. में वृद्धि	18662	18527
4	वर्ष के अन्त में शेष	55830	51821

14. वसूली

वर्ष जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप अच्छी वसूली हुई और दिनांक 30 जून 2018 को वसूली 85.59 प्रतिशत रही है।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	श्रेणी	गांव	वसूली	शेष	अवधिवार अतिदेय बकाया			
					1 वर्ष से कम	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
1	कृषि क्षेत्र	940779	805986	134793	94971	10368	10109	19345
2	अकृषि क्षेत्र	57280	48287	8993	7249	516	289	939
	योग	998059	854273	143786	102220	10884	10398	20284



15. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

शाखाओं द्वारा योजना के तहत, सरकारी अधिसूचना के अनुसार ऋणी एवं गैर-ऋणी कृषकों की रबी एवं खरीफ फसलों का बीमा करवाया गया है। शाखाओं से प्राप्त बीमा प्रीमियम राशि सम्बन्धित बीमा कम्पनी को मासिक आधार पर प्रेषित की गयी है।

16. आय

विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	आय का स्रोत	2018-19		2017-18	
		अर्जित आय	कुल आय का %	अर्जित आय	कुल आय का %
1	अग्रिमों पर ब्याज	104348	65.29	90212	65.53
2	निवेश पर ब्याज	39993	25.02	35983	26.14
3	विविध आय	15475	9.68	11452	8.32
	कुल आय	159816	100.00	137647	100.00

17. व्यय

विभिन्न दायित्वों पर देय ब्याज, अन्य व्यय एवं प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	व्यय / प्रावधानों का विवरण	2018-19		2017-18	
		व्यय एवं प्रावधान	कुल व्यय का %	व्यय एवं प्रावधान	कुल व्यय का %
1	निक्षेपों पर ब्याज	71123	47.67	66822	52.46
2	उधार / पुनर्भित्त पर ब्याज	9275	6.21	8725	6.85
3	परिचालनगत व्यय	58096	38.93	37118	29.14
4	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	10716	7.19	14705	11.55
	कुल व्यय	149210	100.00	127370	100.00

18. वित्तीय अनुपात

महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1	औसत कार्यशील निधि; राशि लाखों में	1712782	1546884
2	वित्तीय आय (प्रतिशत)	8.43	8.25
3	वित्तीय लागत (प्रतिशत)	4.69	4.94
4	वित्तीय मार्जिन (प्रतिशत) (2-3)	3.73	3.31
5	परिचालन लागत (प्रतिशत)	3.39	2.43
6	विविध आय (प्रतिशत)	0.90	0.75
7	परिचालन लाभ (प्रतिशत) ((4+6)-5)	1.24	1.83
8	नोखिम लागत (प्रतिशत)	0.25	0.36
9	शुद्ध मार्जिन (प्रतिशत) (7-8)	0.99	1.27

19. मूल्य अन्तरण प्रणाली

शाखाओं की परिचालन लागत एवं लाभप्रदता की सही स्थिति के आकलन के उद्देश्य से बैंक ने मूल्य अन्तरण प्रणाली को अपनाया है। फलस्वरूप प्रधान कार्यालय शाखाओं को उधार दी गई निधियों पर 7.75 प्रतिशत ब्याज वसूल करता है एवं शाखाओं से प्राप्त निधियों पर 7.25 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करता है।

20. तकनीकी पहल

भारतीय बैंक संघ द्वारा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व सहकारी बैंकों की श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष "टैक्नोलौजी बैंक ऑफ द ईयर" का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

बैंक द्वारा स्वयं के 52 एटीएम स्थापित किये गये हैं, जिनमें से तीन 'मोबाइल एटीएम', वित्तीय साक्षरता वाहन में स्थापित है, जिसे "मुद्रा रथ" के नाम से जाना जाता है।

वर्ष के दौरान 845 माइक्रो एटीएम शाखाओं को जारी किये गये हैं।

खाते के बकाया शेष की जानकारी हेतु, 888 009 4411 के माध्यम से, निःशुल्क 'मिसकॉल' सुविधा जारी की गई है। एसएमएस अलर्ट, ईसीएस नामे/जमा तथा ई-केवाईसी सुविधाएं ग्राहकों को आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस-ऑफ अस) भी प्रदान की जा रही है। ATM Card Blocking सुविधा भी 8425865323 पर SMS द्वारा प्रारम्भ की गई है।

वैकल्पिक भुगतान माध्यमों (ए.डी.सी.) द्वारा निम्न परिमाण अर्जित किया

भुगतान माध्यम	गणना
नये एटीएम कार्ड जारीकरण	5.16 लाख
वर्ष के दौरान एटीएम लेन-देन	55.64 लाख
POS मशीन द्वारा लेन-देन	9.42 लाख
मोबाइल बैंकिंग लेन-देन - कुल	43.19 लाख
मोबाइल बैंकिंग लेन-देन - वित्तीय	16.30 लाख
आधार समर्थित लेन-देन (ए.ई.पी.एस)	402.00 लाख
ई-केवाईसी द्वारा खोले गये खाते	5.20 लाख
तत्काल भुगतान सेवा (आई.एम.पी.एस)	6.81 लाख
यू.पी.आई. लेन-देन	57.19 लाख
लेन-देन हेतु प्रेषित एसएमएस	2.37 करोड़
शोक एसएमएस प्रेषित (विपणन व ग्राहक जागरूकता)	50.00 लाख

हमारी शत- प्रतिशत शाखायें सीबीएस पर क्रियान्वित हैं। बैंक की समस्त शाखाओं में हम अपने ग्राहकों को आरटीजीएस एवं एनईएफटी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आईएमपीएस आवक/जावक की सुविधा बैंक में जारी है। सीटीएस समाशोधन प्रक्रिया बैंक के 21 केन्द्रों पर कार्य कर रही है।

वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल के रूप में 'रूपे डेबिट कार्ड' तथा 'रूपे किसान कार्ड' का सुदृढ़ आधार स्थापित है। बैंक द्वारा जारी रूपे कार्ड के माध्यम से "पॉइंट ऑफ सेल" पर लेनदेन सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग आसानी से किया जा रहा है। रूपे कार्ड की सुविधा का विस्तार करने हेतु वर्ष के दौरान रूपे ई-कॉमर्स लागू किया गया।

बैंक द्वारा 85 शाखाओं में आधार सेवा केन्द्र स्थापित किये गये है तथा इनका दैनिक औसत 21 प्रति शाखा रहा है। UIDAI द्वारा शाखा सुजानगद को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक आधार नामांकन करने हेतु सम्मानित किया गया है।

सीबीएस Accessing के लिए 'जीवमतिक प्रमाण' (BAS) लागू



किया गया है। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 420 शाखाओं के Bandwidth को Upgrade किया गया है। अब बैंक की समस्त लीज लाइन शाखाओं की Bandwidth 512 kbps है।

यू.पी.आई./भीम, ग्रीन पिन सुविधा प्रारंभ की गयी | प्रत्येक शाखा को माइक्रो एटीएम प्रदान किया गया | कैश रिसाइक्लर एवं स्वयम् पासबुक प्रिंटर मशीनें प्रदान किया जाना प्रक्रियाधीन है।

बैंक द्वारा KCC लोन प्रोसेसिंग के लिए स्वनिर्मित सॉफ्टवेयर प्रारंभ किया गया।

बैंक द्वारा "शिकायत प्रबंधन" हेतु पोर्टल प्रारंभ किया गया जो ग्राहकों के बहुमूल्य फीडबैक एवं शिकायतों के लिए बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

21. एम.ओ.यू. में उपलब्धि

प्रायोजक बैंक के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध निम्नानुसार उपलब्धि रही:

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मार्च, 2018	लक्ष्य 2018-19	उपलब्धियां 31.03.19
1	कुल जमाएं	13228.40	15610	15134.38
अ	चालू जमाएं	275.64	325	285.46
ब	बचत जमाएं	6918.21	8165	7778.03
2	आवधिक जमाएं	6034.55	7120	7070.89
3	अल्प लागत जमाएं	7193.85	8490	8063.49
अ	अल्प लागत जमा %	54.38	54.39	53.28
ब	कुल अग्रिम	10283.67	12340	12038.24
4	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	9290.98	11150	10666.91
5	कृषि ऋण	8522.41	10230	9735.87
6	कुल व्यवसाय	23512.07	27960	27170.62
7	साख जमा अनुपात	77.73	79.05	79.53
8	सकल एनपीए	518.21	415	558.30
अ	सकल एनपीए %	5.04	3.36	4.64
ब	शुद्ध एनपीए	200.31	175	197.40
9	शुद्ध एनपीए %	2.01	1.41	1.69
10	लाभ	102.77	150	106.07
11	प्रति स्टॉक लाभ (रु. लाखों में)	2.97	3.85	2.60
12	कुल शाखाएं	832	865	845
13	हानिप्रद शाखाओं की संख्या (दो वर्ष से अधिक पुरानी)	48	20	36
14	अन्य आब (TTP)	1.68	6	2.14

प्रायोजक बैंक के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध औसत उपलब्धियां निम्नानुसार रही:

विवरण	मार्च, 2018	लक्ष्य 2018-19	उपलब्धियां 31.03.19
कुल जमाएं	12242	14025	13737
चालू जमाएं	203	225	224
बचत जमाएं	6382	7325	7152
आवधिक जमाएं	5657	6475	6362
अल्प लागत जमाएं	6585	7550	7376
अल्प लागत जमा %	53.79	53.83	53.69
कुल अग्रिम	9443	11255	10706
कुल व्यवसाय	21685	25280	24443

22. अन्य पहल

(अ) स्वयं सहायता समूह :-

बैंक ने सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के प्रयासों के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 7047 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। साथ ही बैंक ने 4204 स्वयं सहायता समूहों को ऋण सहबद्ध किया है।

स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं ऋण सहबद्धता की क्षेत्रवार प्रगति निम्नानुसार है:

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	क्षेत्र	स्वयं सहायता समूह गठन		
		खाता	खाता	ऋण राशि
1	अलवर	384	231	284
2	बाँसवाड़ा	1742	664	1797
3	बारां	743	556	556
4	भरतपुर	534	234	36
5	भीलवाड़ा	703	318	331
6	चित्तौड़गढ़	467	738	729
7	चुरू	413	193	155
8	झुंझुनूं	355	178	146
9	कोटा	635	750	748
10	नीम का धाना	285	153	155
11	सवाईमाधोपुर	360	174	171
12	सीकर	426	15	10
	कुल	7047	4204	5117

(ब) कृषक क्लब :-

बैंक के कृषक क्लबों की संख्या 1587 है। बैंक ने माननीय वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित प्रति शाखा एक कृषक क्लब का स्तर पहले ही प्राप्त कर लिया है। कृषक क्लब का प्रति शाखा अनुपात 1.90 है।

क्षेत्रवार कृषक क्लबों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	क्षेत्र	31.03.2019 को बकाया
1	अलवर	106
2	बाँसवाड़ा	214
3	बारां	198
4	भरतपुर	87
5	भीलवाड़ा	139
6	चित्तौड़गढ़	158
7	चुरू	208
8	झुंझुनूं	58
9	कोटा	176
10	नीम का धाना	52
11	सवाईमाधोपुर	139
12	सीकर	52
	कुल	1587

(स) किसान क्रेडिट कार्ड योजना

बैंक ने 43996 नये केसीसी कार्ड्स जारी किये है।

क्षेत्रवार प्रगति निम्नानुसार है:-



क्र. सं.	क्षेत्र	जारी किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या
1	अलवर	4439
2	बांसवाड़ा	2237
3	बाग	3358
4	भरतपुर	2649
5	भीलवाड़ा	3658
6	चित्तौड़गढ़	2296
7	चुरू	6650
8	झुंझुनू	5916
9	कोटा	2135
10	नीम का थाना	2933
11	सवाईमाधोपुर	3987
12	सीकर	3738
	कुल	43996

नियमित पुनर्भुगतान करने वाले कृषकों को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है तथा उक्त का दावा भारत सरकार से किया गया है। केसीसी धारकों को ₹ 50000/- तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। बीमा प्रीमियम की पूरी लागत बैंक द्वारा वहन की जा रही है।

(द.) एस.एम.ई/रिटेल लोन फैक्ट्रियां

एस.एम.ई क्षेत्र व बेहतर गुणवत्ता के ऋण प्रवाह, ग्राहकों की आवश्यकताओं की त्वरित पूर्ति, एक समान ऋण प्रणाली के विकास व ऋण उत्पादन हेतु ज्ञानान्तर को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 के दौरान सभी 12 क्षेत्रीय कार्यालयों पर एस.एम.ई/रिटेल लोन फैक्ट्रियों की स्थापना की गई थी, इसी क्रम में अजमेर जिले की वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए दिनांक 03.11.2018 को जिले की आदर्शनगर, अजमेर शाखा में 13वीं एस.एम.ई/रिटेल लोन फैक्ट्री की स्थापना की गयी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रिटेल लोन फैक्ट्री द्वारा मार्च 18 के स्तर रु. 335.94 करोड़ के स्तर के विरुद्ध रु.578.34 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए जिसमें से रु. 545.07 करोड़ का ऋण वितरित किया गया।

बैंक सेवा क्षेत्र के जिला मुख्यालयों पर 652 अधिकारियों को रिटेल/एसएमई से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

(य.) पी.एम.ई.जी.पी.

बैंक द्वारा 160 प्रस्तावों के तहत ₹ 880.34 लाख के ऋण स्वीकृत किये गये।

(र.) मुद्रा

₹ 300 करोड़ के लक्ष्यों के विरुद्ध ₹ 264.31 करोड़ के ऋण वितरित कर लक्ष्यों से 88.10% अधिक उपलब्धि अर्जित की गई।

23. ब्याज दरें

जमाओं एवं अग्रिमों पर ब्याज दरों को, बाजार परिदृश्य एवं क्षेत्र में हमारी प्रतिद्विदिता के अनुरूप तथा निवल ब्याज मार्जिन बनाये रखने हेतु युक्तिसंगत बनाया गया है।

बैंक में दिनांक 31.3.2019 को लागू ब्याज दरें निम्नानुसार हैं-

i. जमाओं पर ब्याज दरें

क. बचत बैंक जमा ब्याज दर दिनांक 01.02.2018 से -

- (i) 2.00 लाख तक बकाया - 3.50 प्रतिशत प्रति वर्ष
- (ii) 2.00 लाख से अधिक बकाया - 4.00 प्रतिशत प्रति वर्ष

ख. आवधिक जमाओं पर ब्याज दर दिनांक 29.03.2019 से -

अवधि (परेलू एवं एनआरओ जमाएँ)	ब्याज दर 29.03.2019 से लागू ₹1.00 करोड़ से कम	ब्याज दर 29.03.2019 से लागू ₹1.00 करोड़ से 10.00 करोड़	ब्याज दर 29.03.2019 से लागू ₹10.00 करोड़ से अधिक
7 दिन से 14 दिन तक	4.50%	4.00%	4.00%
15 दिन से 45 दिन तक	5.80%	6.25%	6.25%
46 दिन से 90 दिन तक	6.40%	6.80%	6.95%
91 दिन से 180 दिन तक	6.50%	7.10%	7.10%
181 दिन से 1 वर्ष से कम	6.50%	7.10%	7.10%
1 वर्ष निश्चित	6.85%	7.25%	7.47%
1 वर्ष से अधिक 399 दिन तक	6.85%	6.80%	6.60%
400 दिन निश्चित (₹10.00 लाख से कम)	6.85%	6.80%	6.60%
योजना 400 दिन निश्चित (₹10.00लाख से अधिक एवं ₹ 1.00 करोड़ से कम)	7.00%	6.80%	6.60%
401 दिन से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	6.85%	6.60%	6.60%
2 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष से कम	6.85%	6.60%	6.60%
3 वर्ष निश्चित	6.85%	6.60%	6.60%
3 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	6.50%	5.00%	5.00%
5 वर्ष एवं अधिक परंतु 8 वर्ष से कम	6.50%	5.00%	5.00%
8 वर्ष एवं अधिक परंतु अधिकतम 10 वर्ष तक	6.50%	5.00%	5.00%
कर बचत योजना		6.50%	
5 वर्ष एवं अधिक परंतु 10 वर्ष तक एनआरई जमाएँ			
अवधि (एनआरई जमाएँ)	ब्याज दर 29.03.2019 से लागू		
1 वर्ष निश्चित	6.85%		
1 वर्ष से अधिक परंतु 15 महीने तक	6.85%		
15 महीने से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	6.85%		
2 वर्ष एवं अधिक परंतु 3 वर्ष से कम	6.85%		
3 वर्ष निश्चित	6.85%		
3 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष तक	6.50%		

वरिष्ठ नागरिकों को 0.55 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिया जा रहा है।

i. अग्रिमों पर ब्याज दरें



क्र.सं.	ऋण का प्रकार	व्याज दर 10.10.2016 से लागू
1	कृषि क्षेत्र	
अ	अल्पकालीन ऋण (केसीसी इत्यादि)	
i	₹ 50,000/- तक	बीपीएलआर-1.50%=11.00%
ii	₹ 50,000 से अधिक एवं ₹ 2.00 लाख तक	बीपीएलआर-0.50%=12.00%
iii	₹ 2.00 लाख से अधिक परंतु ₹ 3.00 लाख तक	बीपीएलआर- = 12.50%
iv	₹ 3.00 लाख से अधिक परंतु ₹ 5.00 लाख तक	बीपीएलआर- = 12.50%
v	₹ 5.00 लाख से अधिक परंतु ₹ 10.00 लाख तक	बीपीएलआर- = 12.50%
vi	₹ 10.00 लाख से अधिक परंतु ₹ 25.00 लाख तक	बीपीएलआर- = 12.50%
vii	₹ 25.00 लाख से अधिक	बीपीएलआर- = 12.50%
ख	माध्यकालीन/ दीर्घकालीन ऋण (सहायक गतिविधियों तथा अप्रत्यक्ष कृषि ऋणों सहित)	
i	₹ 50,000/-तक	बीपीएलआर-1.50=11.00%
ii	₹ 50,000 से अधिक एवं ₹ 2.00 लाख तक	बीपीएलआर-1.50=11.00%
iii	₹ 2.00 लाख से अधिक परंतु ₹ 3.00 लाख तक	बीपीएलआर-0.50=12.00%
iv	₹ 3.00 लाख से अधिक परंतु ₹ 5.00 लाख तक	बीपीएलआर-0.50=12.00%
v	₹ 5.00 लाख से अधिक परंतु ₹ 10.00 लाख तक	बीपीएलआर-0.50=12.00%
vi	₹ 10.00 लाख से अधिक परंतु ₹ 25.00 लाख तक	बीपीएलआर-1.00=11.50%
vii	₹ 25.00 लाख से अधिक	बीपीएलआर-1.00=11.50%
स	फार्म यंत्रीकरण (ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरण)	उपरोक्त 1 ब अनुसार
द	कृषक वाहन	उपरोक्त 1 ब अनुसार
	दुपहिया वाहन	
	चैपहिया /बीपी/ बहुपयोगी वाहन	बीपीएलआर-2.50=10.00%
य	कृषक मित्र योजना (स्वैप ऋण योजना)	बीपीएलआर-0.50=12.00%
र	सरल कृषि	आवधिक ऋण
	अधिविकर्स	बीपीएलआर-0.50=12.00%
2	अकृषि क्षेत्र	
i	₹ 50,000/-तक	बीपीएलआर-1.50%=11.00%
ii	₹ 50,000 से अधिक एवं ₹ 2.00 लाख तक	बीपीएलआर-1.00%=11.50%
iii	₹ 2.00 लाख से अधिक परंतु ₹ 5.00 लाख तक	बीपीएलआर-1.00%=11.50%
iv	₹ 5.00 लाख से अधिक परंतु ₹ 25.00 लाख तक	बीपीएलआर-1.00%=11.50%
v	₹ 25.00 लाख से अधिक	बीपीएलआर-1.50%=11.50%
3	सरल व्यापार	
i	₹ 50,000/-तक	बीपीएलआर-1.50%=11.00%
ii	₹ 50,000 से अधिक एवं ₹ 2.00 लाख तक	बीपीएलआर-1.00%=11.50%
iii	₹ 2.00 लाख से अधिक परंतु ₹ 5.00 लाख तक	बीपीएलआर-1.00%=11.50%
iv	₹ 5.00 लाख से अधिक परंतु ₹ 25.00 लाख तक	बीपीएलआर-1.50%=11.00%
v	₹ 25.00 लाख से अधिक	बीपीएलआर-1.50%=11.00%
4	प्रीमियम सरल व्यापार	बीपीएलआर-2.00%=10.50%
5	गोदाम रसीद (CMA प्रभार के अतिरिक्त) के विरुद्ध ऋण	बीपीएलआर-3.00%=9.50%
6	स्वयं सहायता समूह	
i	₹ 50,000/-तक	बीपीएलआर =12.50%
ii	₹ 50,000 से अधिक एवं ₹ 2.00 लाख तक	बीपीएलआर =12.50%
iii	₹ 2.00 लाख से अधिक	बीपीएलआर =12.50%
7	जनरल क्रेडिट कार्ड	बीपीएलआर+0.50%=13.00%
8	जनता को वाहन ऋण	
i	चौपहिया वाहन	
a	यदि सिबिल अंक 760 और अधिक	बीपीएलआर-3.25%=9.25%
b	यदि सिबिल अंक 725 और अधिक परंतु 760 से कम	बीपीएलआर-2.75%=9.75%

c	यदि सिबिल अंक 675 और अधिक परंतु 725 से कम	बीपीएलआर-1.75%=10.75%
d	यदि सिबिल अंक (-1) या (0) सकल मासिक आय 40000 और अधिक	बीपीएलआर-3.25%=9.25%
e	यदि सिबिल अंक (-1) या (0) सकल मासिक आय 40000 और कम	बीपीएलआर-2.75%=9.75%
ii	पुराना चौपहिया वाहन	बीपीएलआर-1.75%=10.75%
iii	दुपहिया वाहन	बीपीएलआर+0.50%=13.00%
9	आवास	
a	यदि सिबिल अंक 760 और अधिक	बीपीएलआर-3.75%=8.75%
b	यदि सिबिल अंक 725 और अधिक परंतु 760 से कम	बीपीएलआर-3.25%=9.25%
c	यदि सिबिल अंक 675 और अधिक परंतु 725 से कम	बीपीएलआर-3.00%=9.50%
d	यदि सिबिल अंक (-1) या (0) सकल मासिक आय 40000 और अधिक	बीपीएलआर-3.75%=8.75%
e	यदि सिबिल अंक (-1) या (0) सकल मासिक आय 40000 और कम	बीपीएलआर-3.25%=9.25%
10	आवास मरम्मत/नवीनीकरण (बनता)	
i	5 वर्ष तक के पुनर्भुगतान वाले ऋण	बीपीएलआर-2.50%=10.00%
ii	5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष तक के पुनर्भुगतान वाले ऋण	बीपीएलआर-2.50%=10.00%
iii	10 वर्ष से अधिक के पुनर्भुगतान वाले ऋण	बीपीएलआर-2.50%=10.00%
11	शैक्षणिक ऋण	
i	'2.00 लाख तक	बीपीएलआर+0.25%=12.75%
ii	'2.00 लाख से अधिक एवं '4.00 लाख तक	बीपीएलआर+0.25%=12.75%
iii	'4.00 लाख से अधिक एवं '7.50 लाख तक	बीपीएलआर+0.25%=12.75%
iv	'7.50 लाख से अधिक	बीपीएलआर-1.75%=10.75%
12	सम्पत्ति ऋण (आवधिक ऋण / अधिविकर्स)	
i	सम्पत्ति ऋण योजना	
a	यदि सिबिल अंक 760 और अधिक	बीपीएलआर-0.50%=12.00%
b	यदि सिबिल अंक 625 और अधिक परंतु 760 से कम या (-1) या (0)	बीपीएलआर+0.50%=13.00%
ii	प्रीमियम सम्पत्ति ऋण योजना	
a	यदि सिबिल अंक 760 और अधिक	बीपीएलआर-1.50%=11.00%
b	यदि सिबिल अंक 625 और अधिक परंतु 760 से कम या (-1) या (0)	बीपीएलआर-0.50%=12.00%
13	वैयक्तिक ऋण	
i	सुलभ ऋण योजना	
a	यदि सिबिल अंक 760 और अधिक	बीपीएलआर-0.50%=12.00%
b	यदि सिबिल अंक 625 और अधिक परंतु 760 से कम या (-1) या (0)	बीपीएलआर+0.50%=13.00%
ii	प्रीमियम सुलभ ऋण योजना	
a	यदि सिबिल अंक 760 और अधिक	बीपीएलआर-1.50%=11.00%
b	यदि सिबिल अंक 625 और अधिक परंतु 760 से कम या (-1) या (0)	बीपीएलआर-0.50%=12.00%
14	टोप-अप ऋण	बीपीएलआर-2.00%=10.50%
15	भविष्य में प्राप्त होने वाले किराये के विरुद्ध ऋण	बीपीएलआर- =12.50%
16	डॉक्टर को ऋण	
a	यदि संपार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध हो	बीपीएलआर-1.50%=11.00%
b	यदि संपार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हो	बीपीएलआर-0.50%=12.00%
17	अचल सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	बीपीएलआर+1.00%=13.50%
18	एनएससी/केबीपी/एलआईसी के विरुद्ध ऋण	

i	जनता के लिए	बीपीएलआर-0.50%-12.00%
ii	स्टाफ के लिए	केबीपीएलआईसी
		एनएससी
		बीपीएलआर-1.50%-11.00%
		एनएससी पर देव ब्याज से 1% अधिक
19	बैंक जमाओं के विरुद्ध ऋण	
i	जनता के लिए (आवधिक ऋण / अधिविकर्ष)	देव ब्याज दर से 1% अतिरिक्त
ii	स्टाफ के लिए	देव ब्याज दर से 1% अतिरिक्त
		अ) ₹3.00 लाख तक
	ब) ₹3.00 लाख से अधिक	देव ब्याज दर से 1% अतिरिक्त
iii	तृतीय पक्ष की जमा के विरुद्ध	देव ब्याज दर से 2% अतिरिक्त
20	अस्थायी अधिविकर्ष	बीपीएलआर+2.50%=15.00%

अग्रिमों पर ब्याज दरें BPLR से लिंक है। वर्तमान में हमारा BPLR 12.5% है।

24. गैर निधिगत एवं शुल्क आधारित व्यवसाय

वर्ष के दौरान बैंक में निम्न गैर निधिगत व्यवसाय एवं शुल्क आधारित गतिविधियां परिचालित रही-

- बैंक का नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड एवं फ्यूचर जनरली इश्योरेंस कम्पनी के साथ सामान्य बीमा व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ करार है।
- बैंक का इण्डियाफास्ट लाईफ इश्योरेंस कम्पनी लि. के साथ जीवन बीमा व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हेतु भी करार है। जो बैंक की लाभप्रदता बढ़ाने में सहायक हुआ है।
- ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधा के रूप में, बैंक की 133 शाखाओं में लॉकर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिससे किराये के रूप में 121.35 लाख प्राप्त हुये हैं।
- बैंक, निष्पादन गारंटी जारी करने का व्यवसाय भी कर रहा है। जो बैंक की लाभप्रदता को 22.01 लाख की राजस्व वृद्धि बढ़ाने में सहायक हुआ है।
- बैंक द्वारा बीमा एवं अटल पेन्शन योजना से कमीशन के रूप में ₹ 214 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया है।

25. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन हमारी संस्था की महत्वपूर्ण पूंजीगत आस्ति है। अतः बैंक का ध्यान संस्था की दीर्घकालीन आवश्यकताओं और स्टाफ के व्यक्तिगत कैरियर लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण द्वारा कार्मिकों के विकास पर केन्द्रित है। बैंक स्टाफ द्वारा एच.आर.ओ.एम.एस. सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। जिस के माध्यम से स्टाफ को विस्तृत कार्मिक सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही, केन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत स्टाफ के खातों में प्रति माह वेतन जमा किया जाता है।

बैंक ने CRP RRB-VII के अंतर्गत आयोजित भर्ती में 14 अधिकारी

(स्केल-III), 118 अधिकारी (स्केल-II), 225 अधिकारी (स्केल-I) एवं 256 कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) के पदों हेतु नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न की है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2019 द्वारा दस्तावेजों के प्रमाणीकरण पर रोक लगा देने से योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गयी है।

स्टाफ के क्षमता निर्माण हेतु बैंक के अपने प्रशिक्षण केन्द्र, सीकर एवं चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बैंक द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र, सीकर में दिशामान, पुनःचर्या, नेतृत्व, सम्प्रेषण एवं टीम निर्माण, विकास सह प्रवेशण प्रशिक्षण कार्यक्रम, एम.एस.एम.ई. वित्तपोषण, ग्राहक सेवा एवं व्यवसाय विकास, प्रबन्धकीय विकास कार्यक्रम आयोजित किये गये। बैंक के नवपदोन्नत अधिकारियों के अतिरिक्त विभागीय जांच विषय पर अनुशासनिक प्राधिकारियों, जांच अधिकारियों एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों हेतु दिशामान कार्यक्रम आयोजित किये गये।

स्टाफ को बाह्य प्रशिक्षण संस्थान जैसे-बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, पुणे एवं स्टाफ ट्रेनिंग कालेज (बैंक ऑफ बड़ौदा) अहमदाबाद के लिए नामित किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों (स्केल-I एवं II), कार्यालय सहायकों एवं कार्यालय परिचारकों को पदोन्नति परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दिनांक 31.03.2019 को स्टाफ की श्रेणीवार स्थिति एवं वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	श्रेणी	कुल स्टाफ	कुल में से अनु.जा./ब.जा. संख्या	कुल में से अनु.जा./ब.जा. (%)	वर्ष के दौरान प्रशिक्षण संख्या	वर्ष के दौरान प्रशिक्षण (%)
1	अधिकारी	2140	545	25.47	1557	419 26.91
2	लिपिक वर्ग	1296	386	29.78	1412	452 32.01
3	अधीनस्थ स्टाफ	350	83	23.71	155	38 24.51
	योग	3786	1014	26.78	3124	909 29.10

बैंक, नियामकों यथा भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं प्रायोजक बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी वर्गों के स्टाफ की जीविका प्रगति हेतु उत्कट है।

बैंक एससी/एसटी कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियामकों द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों की पालना कर रहा है। बैंक ने सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की है और एससी/एसटी कर्मचारियों का अद्यतन रोस्टर तैयार किया गया है। नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एससी/एसटी कल्याण परिषद के साथ दो बैठक आयोजित की गई।

26. वित्तीय समावेशन

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लक्ष्यों के अनुरूप, बैंक सेवाओं से वंचित जन



साधारण को, वहन करने योग्य लागत पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाते हुए, बैंकिंग तन्त्र से जोड़ने हेतु बैंक सभी प्रयास कर रहा है।

बैंक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के सभी परिवारों (Households) को बैंकिंग सेवाएं सुलभ करवाते हुए कवरेज प्रदान किया गया है।

दिनांक 15.08.2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना लागू किये जाने के बाद से इस योजना के तहत 33.85 लाख खाते खोले गये हैं, जिनमें से 5.25 लाख खाते इस वर्ष खोले गये। बैंक में दिनांक 31.03.2019 को नोफ्रिल/एफ.आई. खातों की संख्या 50.08 लाख है।

बैंक को आवंटित समस्त 1942 उप सेवा क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है। हमारे द्वारा 442 उप सेवा क्षेत्रों (SSA) को शाखाओं द्वारा एवं शेष 1500 एसएसए को बैंक मित्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ई-मित्रों को अतिरिक्त बीसी के रूप में नियुक्त किया जाता है। आलोच्य अवधि के दौरान 584 नये बी.सी. को सम्मिलित करने के पश्चात सक्रिय बैंक मित्रों की संख्या 3985 हो गई है, जिनमें 122 "बैंक सखी" भी हैं, जिन्हें माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवाये गये हैं।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गये बचत खातों में बैंक द्वारा वर्षान्त पर 97.43 प्रतिशत खातों में आधार सीडिंग किया गया है एवं समग्र रूप से सभी खातों में 92.67 प्रतिशत आधार सीडिंग किया गया है।

बैंक शाखाओं द्वारा वर्ष के दौरान 10294 चौपालों का आयोजन कर भारतीय रिज़र्व द्वारा निर्धारित 'एक चैपाल प्रति ग्रामीण शाखा' के मानदण्ड की पालना की गई है। इस के अतिरिक्त वित्तीय साक्षरता सलाहकारों द्वारा 2608 चौपालों व 378 डिजिटल वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

3 एटीएम वाहन "मुद्रा रथ" द्वारा वित्तीय व डिजिटल साक्षरता के प्रचार-प्रसार हेतु गावों का भ्रमण किया गया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बैंक द्वारा निम्नानुसार प्रगति की गई है-

योजना	वर्ष 2018-19 के दौरान नामांकन	कुल नामांकन
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	127521	262267
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	294429	943433
अटल पेन्शन योजना	50400	139580

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक को पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 11 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

बीसी-नेटवर्क का सुदृढीकरण :-

बैंक 3985 बैंक मित्र (122 एसएचजी महिला बैंक सखी सहित) के माध्यम से अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंक-मित्र द्वारा 4.22 करोड़ राशि के लेन-देन किए गए एवं 5.18 लाख खाते खोले गए | प्रत्येक माह 3370 रु. प्रत्येक बीसी औसत कमीशन का भुगतान किया गया।

बीसी नेटवर्क को सुदृढ करने के लिए जिला-स्तर पर विशेष टाउनहॉल मीटिंग्स आयोजित की गयी एवं बैंक द्वारा बीसी के मार्गदर्शन के लिए "बैंक मित्र निर्देशिका" प्रकाशित की गयी।

बीसी केंद्र पर एसएचजी खातों को संचालित करने के लिए "Dual Authentication" सुविधा आरंभ की गयी।

Digitalization को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक की प्रत्येक शाखा में माइक्रो एटीएम की सुविधा शाखा के केशियर द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जा रही है।

27. सौर ऊर्जा परियोजना

हमारी 26 शाखाएं कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर से जुड़े उपकरण चलाने हेतु सौर ऊर्जा का उपयोग कर रही हैं।

28. राष्ट्रीय बैंक व आंतरिक निरीक्षण

बैंक के प्रधान कार्यालय का निरीक्षण विभाग, शाखाओं द्वारा बैंक की नीतियों, पद्धतियों एवं कार्य प्रणालियों की अनुपालना सुनिश्चित करता है। आंतरिक नियन्त्रण के संदर्भ में, नाबार्ड, भारत सरकार, प्रायोजक बैंक एवं निदेशक मण्डल की ऑडिट कमेटी से प्राप्त दिशानिर्देश, परिचालन इकाईयों को प्रसारित किये गये। निरीक्षण विभाग इन निर्देशों की अनुपालना हेतु निगरानी करता है।

वर्ष के दौरान 677 शाखाओं का निरीक्षण किया गया। शाखा निरीक्षण अनवरत आधार पर किया जाता है।

जोखिम श्रेणीकरण के अनुसार गत दो वर्षों के दौरान 'पेटिंग' निम्नानुसार है-

वर्ष	निम्न	मध्यम	उच्च
2017-18	545	143	3
2018-19	594	80	3

"परिचालनात्मक दक्षता संवर्धन" के लिए नाबार्ड के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मण्डल की ऑडिट कमेटी का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान कमेटी की 4 बैठकें आयोजित की गयी।

आन्तरिक लेखा/निरीक्षण की, प्रबन्धकीय साधन के रूप में, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर ऑडिट कमेटी का गठन किया गया। वर्ष के दौरान इस कमेटी की नियमित बैठकें आयोजित की गयी।

29. सतर्कता प्रकोष्ठ

प्रधान कार्यालय में सतर्कता प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है, जिसके प्रमुख बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारे बैंक में प्रतिनियुक्त मुख्य प्रबन्धक हैं।

सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा सभी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाहियों सतर्कता, गैर- सतर्कता (वित्तीय) व गैर- सतर्कता (गैर-वित्तीय), का आरम्भ से तार्किक अन्त तक संचालन किया जाता है।

बैंक गबन की घटनाओं को न्यूनतम करने हेतु निवारक सतर्कता कार्यप्रणाली को बढ़ावा देता है। बैंक ने शाखाओं का निवारक सतर्कता अंकेक्षण, पहले ही शुरू कर दिया है और यह बैंक के अंकेक्षण अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। स्टाफ में जागरूकता लाने एवं गबन, दुर्विनियोजन, व्यपहरण, डकैती, लूट, चोरी एवं सेंधमारी की घटनाओं को न्यूनतम रखने हेतु, निवारक सतर्कता विषय से सम्बन्धित परिपत्र समय-समय पर जारी किये जाते हैं।

निवारक सतर्कताएँ अन्वेषण तकनीक तथा विभागीय जाँच पर आधारित प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान स्टाफ को धोखाधड़ी रोकने की सचेतता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। सतर्कता प्रकोष्ठ सभी अधिकारियों की सम्पति एवं देयताओं की विवरणी प्राप्ति तथा जाँच सुनिश्चित करता है।

निवारक सतर्कता, नीतियों एवं कार्य प्रणालियों की अनुपालना एवं धोखाधड़ी की जाँच हेतु बैंक में "फ्राड रिस्क ग्रुप", "फ्राड इन्वेस्टिगेशन एवं मोनिटरिंग कमेटी", "आन्तरिक परामर्शदात्री समिति" एवं '20.00 लाख एवं अधिक के गबन मामलों की समीक्षा एवं अनुवर्तन हेतु बोर्ड की विशेष समिति' का प्रधान कार्यालय स्तर पर गठन किया गया है।

बैंक द्वारा गठित "सतर्कता समिति", निलम्बन के मामलों, प्राप्त शिकायतों के मामले में प्रगति व निरीक्षण प्रतिवेदनों से ज्ञात गम्भीर अनियमितताओं व स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा करती है।

सतर्कता प्रकोष्ठ गबन सम्बन्धी विवरणी (FMS) का नाबार्ड को "ऑनलाइन" प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करता है।

30. निवल मूल्य एवं पूंजी पर्याप्तता अनुपात

दिनांक 31.03.2019 को बैंक की नेटवर्थ ₹1132.22 करोड है, जबकि 31.03.2018 को नेटवर्थ ₹ 1023.82 करोड थी।

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2019 को 10.27% रहा, जबकि 31.03.2018 को 10.20% रहा था।

31. निदेशक मण्डल की बैठक

कैलेण्डर वर्ष 2018 के दौरान निदेशक मण्डल की छः बैठकों का आयोजन किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा बैंक की कार्यकुशलता एवं कार्य निष्पादन में सुधार हेतु कार्यप्रणाली एवं प्रगति की समीक्षा की गई।

निदेशक मण्डल में निम्न परिवर्तन हुए -

1. श्री ए.के.निगम, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, के स्थान पर श्री धर्मेन्द्र आजाद, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यग्रहण किया गया।
2. श्री एन.सी.उप्रेती, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा आंचलिक कार्यालय जयपुर, के स्थान पर श्री प्रकाश वीर राठी, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा आंचलिक कार्यालय जयपुर द्वारा कार्यग्रहण किया गया।
3. श्री एम.एस. महनोत, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थान पर श्री जी.बी. पाण्डा, महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा नई दिल्ली द्वारा कार्यग्रहण किया गया।
4. श्री बी.एस.जाट, संयुक्त सचिव, राजस्थान सरकार के स्थान पर श्री सुरेश चंद गुप्ता, संयुक्त सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा कार्यग्रहण किया गया।
5. भारत सरकार द्वारा नामित दो निदेशको, श्री भरत मारन व श्री जय प्रकाश सैनी का वर्ष 2016-17 के दौरान कार्यकाल पूर्ण हुआ। दोनों पद रिक्त हैं।

निदेशक मण्डल, सभी निदेशकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों के लिए प्रशंसा करता है, जिनके कारण बैंक विभिन्न मानदण्डों पर संतोषजनक प्रगति दर्ज करने में सफल हुआ।

अभिस्वीकृतियाँ

भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक, राज्य सरकार, विभिन्न जिला प्राधिकारियों और प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंक के विकास हेतु दिए गये बहुमूल्य मार्गदर्शन, निरन्तर सहयोग हेतु निदेशक मण्डल, आभार प्रकट करता है।

निदेशक मण्डल ग्राहकों एवं सभी शुभचिन्तकों को उनके निरन्तर संरक्षण एवं सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है। बैंक का निदेशक मण्डल, प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों को उनके अविचल मार्गदर्शन, असीमित समर्थन के लिए भी विशेष आभार व्यक्त करता है। साथ ही निदेशक मण्डल सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा बैंक के व्यवसाय वृद्धि हेतु प्रत्येक स्तर पर की गयी कड़ी मेहनत एवं समर्पित प्रयासों के लिए भी उनकी सराहना करता है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

आर.सी. गग्गड़

अध्यक्ष



Annual Report of the Board of Directors For 2018-19

The Board of Directors of Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Head Office, Ajmer, have pleasure in presenting the Seventh Annual Report, along with Audited Financial Statements and Auditors' Report on working results and activities, for the year ended 31st March, 2019, under section 20 of the Regional Rural Bank Act, 1976.

1. Background

Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Sponsored by Bank of Baroda) was established by Central Government in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 23A of the Regional Rural Bank Act, 1976 (21 of 1976) by issuing Gazette Notification No. FNo. 7/9/2011-RRB dated 01-01-2013, by amalgamating 3 Regional Rural Banks viz. Baroda Rajasthan Gramin Bank, Hadoti Kshetriya Gramin Bank and Rajasthan Gramin Bank, Sponsored by Bank of Baroda, Central Bank of India and Punjab National Bank respectively.

The Head Office of the Bank is at Ajmer and its 12 Regional Offices are at Alwar, Banswara, Baran, Bharatpur, Bhilwara, Chittorgarh, Churu, Jhunjhunu, Kota, Neem ka Thana, Sawaimadhopur and Sikar.

The operational area of the Bank is in 21 districts in Rajasthan viz. Ajmer, Alwar, Banswara, Baran, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittorgarh, Churu, Dausa, Dholpur, Dungarpur, Jhalawar, Jhunjhunu, Karauli, Kota, Pratapgarh, Sawaimadhopur, Sikar and Tonk.

Bank is having largest network of branches and area of operation amongst RRBs functioning in the State of Rajasthan and second highest among all banks in the state. It has largest number of rural branches in the State among all banks.

Region wise inclusion of Districts is as under:

Sr. No.	Name of Region	Districts
1.	Alwar	Alwar
2.	Banswara	Banswara, Dungarpur and Pratapgarh
3.	Baran	Baran and Jhalawar
4.	Bharatpur	Bharatpur, Dholpur and Karauli
5.	Bhilwara	Ajmer and Bhilwara
6.	Chittorgarh	Bundi and Chittorgarh
7.	Churu	Churu and Bikaner
8.	Jhunjhunu	Jhunjhunu
9.	Kota	Kota and Bundi
10.	Neem ka Thana	Jhunjhunu and Sikar
11.	Sawaimadhopur	Sawaimadhopur, Dausa, and Tonk
12.	Sikar	Sikar

2. Branch Network

The Bank has been extending its services through 845 branches, one extension counter and 3985 Bank Mitras (Business Correspondents) in 21 districts spread in the State of Rajasthan.

During the period under review, Bank has opened 15 new branches as under, out of which 2 branches have been opened in 'Unbanked' centers.

S. N.	Branch	District	Region	Date of opening
1.	Machari	Alwar	Alwar	24-04-2018
2.	Luharu Road, Pilani	Jhunjhunu	Jhunjhunu	06-06-2018
3.	Umraïn	Alwar	Alwar	25-07-2018
4.	Jhllad	Tonk	Sawaimadhopur	09-08-2018
5.	Bahadurpur Patti Meeran	Alwar	Alwar	01-09-2018
6.	Sarwari	sikar	sikar	19-09-2018
7.	Garinda	sikar	sikar	26-09-2018
8.	Nangama	Banswara	Banswara	13-12-2018
9.	Ishroda	Alwar	Alwar	15-12-2018
10.	Tatarpur	Alwar	Alwar	15-12-2018
11.	Basal Nawab	Dholpur	Bharatpur	24-12-2018
12.	Peepalda Kalan	Kota	Kota	20-02-2019
13.	Sanwariya Ji, Mandphlya	Chittorgarh	Chittorgarh	25-03-2019
14.	Srinagar	Ajmer	Bhilwara	25-03-2019
15.	Khetri Mod, Neem ka thana	Sikar	Neem Ka Thana	27-03-2019

Two branches of Banswara region Jagpura & Kuwaniya (opened in March 2013) are making loss since inception are merged into nearby Delwara Lokiya & Senawasa branches respectively as per RBI guidelines. We have established Full-fledged Banking outlet run by Bank Mitra on both centers for uninterrupted banking services.

Region wise position of existing Branches is as under:

Sr.No.	Region	No. of Districts served	No. of Branches	Branches located at Centres			
				Rural	Semi Urban	Urban	Metro
1	Alwar	1	81	60	16	5	-
2	Banswara	3	68	55	10	3	-
3	Baran	2	64	43	16	5	-
4	Bharatpur	3	77	50	19	8	-
5	Bhilwara	2	83	55	13	15	-
6	Chittorgarh*	2	64	50	9	5	-
7	Churu	2	82	61	17	4	-
8	Jhunjhunu	1	73	54	17	2	-
9	Kota*	2	60	38	9	-	13
10	Neem ka Thana*	2	64	48	16	-	-
11	Sawaimadhopur	3	68	49	13	6	-
12	Sikar	1	61	51	7	3	-
	Total	21	845	614	162	56	13

* Some Districts run under one or more regional offices.

3. Share Capital

As per the provisions of sub-section (2) of section 1 of the Regional Rural Banks (Amendment) Act, 2015 (14 of 2015), we have been authorized to increase our



authorized share capital to the extent of ₹2000 Cr. comprising of ₹200 Cr. shares of ₹10.00 each.

Issued and Paid up capital of the Bank is ₹309.34 Cr. divided into 30,93,37,980 shares of ₹10 each.

The Bank's share capital is jointly owned by Govt. of India, Bank of Baroda and Govt. of Rajasthan, in proportion of 50:35:15 respectively. Thereby share of GoI is ₹154.67 Cr., share of the Sponsor Bank is ₹108.27 Cr. and that of GoR is ₹46.40 Cr.

4. Profit

During the fiscal 2018-19, Bank has posted a Gross Profit of ₹ 213.23 Cr. and Net Profit of ₹ 106.07 Cr. Bank's Net Profit was ₹ 102.77 Cr. during the fiscal 2017-18. Which is increased by 3.21% during current Financial year.

5. Business Levels

The total business of the bank as on 31.03.2019 has reached to the level of ₹27170.62 Cr. with absolute growth of ₹3658.51Cr, which shows an increase of 15.56% over the previous year.

Parameters	As on 31.03.19	As on 31.03.18
Deposits	1513438	1322840
Advances	1203624	1028367
Total Business	2717062	2351207

6. Deposits

Category wise position of deposits is as under: (₹ in Lac)

Sr. No.	Category	As on 31-03-19			As on 31-03-18		
		Account	Amount	Deposit Mix%	Account	Amount	Deposit Mix%
1	Current Deposits	37670	28546	1.89	48087	27564	2.08
2	Savings Deposits	8165023	777803	51.39	7269797	691821	52.30
3	Term Deposits	497379	707089	46.72	464495	603455	45.62
4	Total	8700072	1513438	100	7782379	1322840	100

7. Borrowings/ Refinance

Bank, with a view to augment liquidity & recycling of funds, has obtained sanction of Short-term (SAO) refinance of ₹804.90 Cr. and Short-term (OSAO) refinance of ₹175.00 Cr. and Medium term refinance of ₹10.33 Cr. from NABARD during the year.

The increased liquidity has been judiciously deployed for credit disbursements. The rate of interest on refinance is 4.50 to 10.25%. The cost of borrowings works out to

5.50%.

Bank has also met its obligations towards repayment of refinance to NABARD and there has been no occasion of default.

Scheme-wise position of refinance is as under:

(₹ in lacs)					
Sr. No.	Institution/ Scheme	Limit sanctioned during the year	Withdrawals during the year	Repayment during the year	O/S as on 31.03.19
A					
NABARD					
1	Short Term (SAO)	80490	80490	72967	80490
2	Short Term (OSAO)	17500	17500	22500	17500
3	Medium Term (Schematic)	1033	1033	19669	45957
4	Medium Term (Non Schematic)	-	-	-	-
5	Liquidity Support	-	-	-	-
6	Others	0	0	0	0
Total A		99023	99023	115136	143947
B					
Sponsor Bank					
1	Short Term (SAO)	-	-	-	-
2	Line of Credit	-	-	-	-
3	Short Term (OSAO)	-	-	-	-
4	Medium Term (Schematic)	-	-	-	-
5	Medium Term (Non Schematic)	-	-	-	-
6	Others	-	-	-	-
Total B		-	-	-	-
Grand Total A + B		99023	99023	115136	143947

8. Cash and Balances with Banks

Position of average cash balance is as under:

(₹ in lac)				
Sr. No.	Year	Average Cash Balance	Average Deposits	Average Cash as % to average deposits
1	2017-18	6805	1224181	0.56
2	2018-19	5739	1383067	0.41

Position of balance in current account with Reserve Bank of India, Sponsor Bank and other banks and interest earned thereon, is as under:

(₹ in Lac)					
Sr. No.	Institution	2018-19		2017-18	
		Balance at the end of the year	Interest earned 01.04.18-31.03.19	Balance at the end of the year	Interest earned 01.04.17-31.03.18
1	Reserve Bank of India	58972	-	50864	-
2	Sponsor Bank	9933	19	9559	77
3	Other Banks	1578	-	1323	-
Total		70483	19	61746	77

The Cash and Bank balance in current accounts have been closely monitored at all levels and the resources are deployed judiciously. The Bank is ensuring that cash balance is kept at the optimal level.



9. Investment

The Investment Policy of the Bank, approved by the Board, is implemented through Investment Committee formed at Head Office level, which is responsible for approving the Investment proposals in line with regulations set by Regulators and as per the advice of Treasury branch of Sponsor Bank.

Bank has made its required SLR investments in Govt. and other approved securities, as per RBI guidelines.

The average yield on investment for the current fiscal stood at 7.60 % against 7.62% of 2017-18.

Details of SLR and Non-SLR investments are as under:

(₹ in Lac)			
Sr. No.	Particulars	As on 31-03-19	As on 31-03-18
1	SLR Funds		
	Approved Securities	-	-
	(a) Govt. Securities	311775	281801
	Total (1)	311775	281801
2	Non SLR Funds		
	(a) Bonds and Debentures	1166	10266
	Total (2)	1166	10266
Grand Total (1 + 2)		312941	292067

There was no default in maintenance of SLR.

10. Funds With Banks

Details of Balances with Banks & Money at call and short notice are as under:

(₹ in Lac)			
Sr. No.	Particulars	As on 31-03-19	As on 31-03-18
1.	Deposits in current account with Banks	11511	10882
	Total (A)	11511	10882
	Time Deposits		
	i. With Sponsor Bank	96173	122225
	ii. With Other Banks	101340	81344
	Total (B)	197513	203569
Grand Total (A + B)		209024	214451

11. Outstanding Loans & Advances

The outstanding loans & advances have increased to ₹ 12036.24 Cr. as on 31.03.2019 from ₹10283.67 Cr. as on 31.03.2018, registering a growth of 17.04 %.

(a) Sector wise position of outstanding loans & advances is as under:

(₹ in Lac)							
Sr No	Sector	Outstanding as on 31.03.2019			Outstanding as on 31.03.2018		
		A/C	Amt.	% to total advances	A/C	Amt.	% to total advances
1.	Agri. & Allied Agri. Activities*	521419	973587	80.89	495601	852241	82.87
2.	Non Farm Sector	145340	230037	19.11	96407	176126	17.13
Total		666759	1203624	100.00	592008	1028367	100.00

Out of total outstanding we participated in PSLC (SF/MF) for Rs.2910 Cr.

(b) Special category wise loans, out of total outstanding loans & advances are as under:

(₹ in Lac)							
S. N.	Category	Outstanding as on 31.03.2019			Outstanding as on 31.03.2018		
		A/C	Amt.	% to total advances	A/C	Amt.	% to total advances
1	Priority Sector*	597637	1066691	88.62	557097	929098	90.35
2	Non Priority Sector	69122	136933	11.38	34911	99269	9.65
3	Loans to SC/ST	135980	207363	17.23	154089	199984	19.45
4	Loans to Minorities	30654	49628	4.12	28839	40973	3.98
5	Loans to SF/MF/AL	332421	524985	43.82	310858	462743	45.00

According to RBI circular no. FIDD.CO.Plan.BC.No. 14/04.09.01/ 2015-16 dt. 03.12.2015 for RRB's priority sector loan outstanding will be more than 75% of previous year total outstanding loan i.e. 31.03.2018 was ₹1028467 lac, 75% of which comes to ₹775013 lac. As such against that level, our achievement is ₹1066691 lac i.e. 88.62%. Hence we have complied norms of 75% (Priority Sector) as prescribed by the RBI.

12. Loan Disbursement

Bank has the Loan Policy approved by the Board which encompasses the objectives of overall growth of rural areas by providing credit and also outlines the prudent lending norms to minimize the credit risks and ensuring qualitative credit growth.

Bank has disbursed loans of ₹10286 Cr., during the FY 2018-19.

Sector wise and Purpose wise classification of loans disbursed is as under:



Sr. No.	Purpose / Sector	Disbursement during 2018-19		Disbursement during 2017-18	
		A/C	Amt.	A/C	Amt.
1	Agri. & Allied Agri. Activities	468227	862162	399894	760440
2	Non Farm Sector	61049	166449	45554	116703
	Total Disbursement	529276	1028611	445448	877143
3	Out of total disbursement				
	i) To Priority Sector	507545	940747	430783	812856
	ii) To Non Priority Sector	21731	87865	14665	64287
	iii) To SC / ST	152375	173577	96793	142652
	iv) To Minorities	18697	23435	13455	17211
	v) To Women	52686	71517	40328	65441
	vi) To SF / MF/AL	286695	455901	231197	417491

Bank in its pursuit for development of rural economy in its area of operation has made a disbursement of ₹10286 Cr. against the target of ₹12561 Cr. under Annual Credit Plan thereby registering achievement of 81.89%.

The district wise progress is as under:

Sr. No.	Region	Target Amount	Achievement	
			Amount	%
1	AJMER	30412	43183	142
2	ALWAR	145392	134946	93
3	BANSWARA	20504	17966	88
4	BARAN	36682	34301	94
5	BHARATPUR	50308	58515	116
6	BHILWARA	49117	54822	112
7	BIKANER	17545	14398	82
8	BUNDI	95189	39744	42
9	CHITTORGARH	39028	34511	88
10	CHURU	126052	98442	78
11	DAUSA	3581	2335	65
12	DHOLPUR	14040	11863	84
13	DUNGARPUR	15208	17762	117
14	JHALAWAR	62459	39139	63
15	JHUNJHUNU	123440	122708	99
16	KARALI	13421	16059	120
17	KOTA	68740	51997	76
18	PRATAPGARH	19812	16024	81
19	S.MADHOPUR	30443	33342	110
20	SIKAR	220620	131042	59
21	TONK	74107	55516	75
	Total	1256100	1028611	81.89

Govt. Sponsored Schemes

➤ NRLM

Bank is committed to serve the poor/deprived section of rural area and has always endeavored for effective implementation of NRLM. During the fiscal 14192 Self Help Groups were sanctioned/renewed with disbursement Amt. of Rs. 70.98 Cr.

In this connection, appreciation letter is also received from Additional Chief Secretary, RGAVP GoR for outstanding performance in SHG credit linkage during the FY 2018-19.

During the FY 2018-19: State-level awards for 'SHG Credit Linkage' and 'Loan portfolio diversification' from NABARD (Jaipur) was

received on 07.03.2019.

Award from Secretary MoRD is received on 11.05.2018 for our Bank's highest number in SHG credit linkage in northern Zone for FY 2017-18.

➤ Schemes of SC/ST Development Corporation

Bank has been providing credit facility to the downtrodden segment of the society under various schemes of SC/ST Development Corporation. During the fiscal, 1313 applications amounting to ₹ 502.22 Lac were sanctioned by the branches

13. Income Recognition, Assets Classification and Provisioning

(A) Assets Classification & Provisioning

Bank has followed the Income Recognition and Assets Classification norms, as per Reserve Bank of India guidelines.

Non Performing Assets have been provided for, as per classification and provisioning norms. Bank has also made required provisions against standard assets (Agriculture, Small & Medium Enterprises @ 0.25%, for others @ 0.40% and Real Estate @ 1%).

Category wise Assets classification and provision made is as under:

Sr. No.	Category	(₹ in Lac)			
		Outstanding Advances as on 31.03.2019	Provision Amount as on 31.03.2019	Outstanding Advances as on 31.03.2018	Provision Amount as on 31.03.2018
1	Standard Assets	1147795	3120	976546	2655
2	Sub Standard Assets	10884	1374	11538	1471
3	Doubtful Assets	41842	31612	38107	28143
4	Loss Assets	3104	3104	2176	2176
	Total	1203624	39210	1028367	34445

(B) NPA Management

Bank has Recovery Policy approved by the Board which aims at maximization of recovery of dues (Interest and Loan Instalment) through effective monitoring of credit portfolio and timely action for prevention of slippages. This also ensures recycling of funds available for lending.

Bank's Gross NPA has decreased to 4.64% as on 31.03.2019 from 5.04% on 31.03.2018 and Net NPA level decreased to 1.69% from 2.01% as on 31.03.2018 respectively.



The category wise classification of Non-Performing Assets of Bank is as under:

(₹ in Lac)			
Sr.No.	Category	As on 31.03.19	As on 31.03.18
1	Sub Standard Assets	10684	11538
2	Doubtful Assets	41842	38107
3	Loss Assets	3104	2176
4	Total Gross NPA	55830	51821
5	Gross NPA as % to Gross Advances	4.64	5.04
6	Net NPA Outstanding at the end of the year	19740	20031
7	Net NPA % to Net Advances	1.69	2.01

Movement of Non Performing Assets is as under:

(₹ in Lac)			
Sr.No.	Particulars	As on 31.03.19	As on 31.03.18
1	NPA at the beginning of the year	51821	41629
2	NPA reduction during the year	14653	8335
3	Additions to NPA during the year	18662	18527
4	NPA at the end of the year	55830	51821

14. Recovery

Concerted efforts were made during the year July 17 to June 18 which resulted into substantial recovery as on 30.06.2018. Recovery percentage achieved was 85.59 %.

(₹ in Lac)								
Sr.No.	Category	Demand	Recovery	Balance	Age wise overdue position			
					Less than 1 year	1 - 3 Years	3 - 5 years	More than 5 years
1	Agri. Sector	940779	805986	134793	94971	10368	10109	19345
2	Non Agri. Sector	57280	48287	8993	7249	516	289	939
	Total	998059	854273	143786	102220	10884	10398	20284

15. PMFBY

Branches have covered Rabi and Kharif crops of Borrower and Non Borrower farmers as per Govt. notification under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). The premium received from branches has been regularly sent to respective Insurance Companies as per notification.

16. Income

The details of income earned from various sources are as under:

(₹ in Lac)					
Sr. No.	Source of Income	2018-19		2017-18	
		Income earned	% to Total Income	Income earned	% to Total Income
1	Interest on Advances	104348	65.29	90212	65.53
2	Interest on Investments	39993	25.02	35983	26.14
3	Misc. Income	15475	9.68	11452	8.32
	Total Income	159816	100.00	137647	100.00

17. Expenditure

The details of interest expenses on different liabilities, other expenditure and provisions made are as under:

Sr. No	Particulars of Expenditure and Provisions	2018-19		2017-18	
		Expenditure & Provisions	% to total expenditure	Expenditure & Provisions	% to total expenditure
1	Interest on Deposits	71123	47.67	66822	52.46
2	Interest on Borrowings / Refinance	9275	6.21	8725	6.85
3	Operating Expenses	58096	38.93	37118	29.14
4	Provision made during the year	10716	7.19	14705	11.55
	Total Expenditure	149210	100.00	127370	100.00

18. Financial Ratios

Important ratios of the Bank are as under:

Sr.	Particulars	2018-19	2017-18
1	Average working funds (in lacs)	1712782	1546884
2	Financial Return (%)	8.43	8.25
3	Financial Cost (%)	4.69	4.94
4	Financial Margin (%)	3.73	3.31
5	Operating Cost (%)	3.39	2.43
6	Misc. Income (%)	0.90	0.75
7	Operating Profit ((4+6)-5)	1.24	1.63
8	Risk Cost (%)	0.25	0.36
9	Net Margin (7 - 8) (%)	0.99	1.27

19. Transfer Price Mechanism

The Bank has adopted the Transfer Pricing Mechanism for arriving at the position of operational cost and profitability of the branches. Consequently Head Office charges interest @ 7.75% on the funds lent to branches and pays interest @7.25% on funds borrowed from branches.

20. Technological Initiatives

Bank has been awarded, "Technology Bank of the Year" by IBA, consecutively for 4th year in the category of RRBs and Co-op. banks.

Bank have 52 ATMs, out of which, three are Mobile ATM vans named as "Mudra Rath". This year, Bank has deployed 845 Micro ATMs, for branches.

Miss Call functionality calling over toll free Number-888 009 4411 to get the account Balance, SMS Alerts, ECS- DR/CR, Aadhaar Enabled Payment (AEPS off us) and E-KYC are the facilities bank is rendering successfully. Bank has introduced card blocking facility through SMS on 842 586 5323

Following is the Volume Handled by our ADCs during the year-



Channel	Count
New ATM Cards issued	5.16 lac
ATM Transactions in last one year	55.64 lac
Transactions over POS	9.42 lac
Mobile Banking Transactions- total	43.19 lac
Mobile Banking Transactions- Financial	16.30 lac
Aadhaar Enabled Transactions(AEPS)	402.00 lac
e-KYC based a/cs opened	5.20 lac
IMPS	6.81 lac
UPI Transactions	57.19 lac
SMS Pushed for transactions	2.37 Cr.
Bulk SMS pushed (Marketing/ Customer awareness)	50.00 lac.

NEFT facility has been extended to customers in all the branches. IMPS 'Inward' as well as 'Outward' are functional in the Bank. Our 21 CTS clearing Centers are functional.

RuPay Debit Cards, RuPay Kisan Cards and Transactions through POS are well established as part of alternate delivery channels. Internet Banking is also being used by customers comfortably. Expanding further, RuPay E-commerce is implemented in current financial year.

Bank has established 85 Aadhaar centers at Branches. Daily per Branch average of these centers is 21. UIDAI awarded our sujargarh branch at national level for maximum enrollments.

Biometric Authentication solution (BAS) has been implemented for accessing CBS. Bandwidth upgrade of 420 branches has been done to enhance the infrastructure capabilities of the branches. Now all lease line branches are having minimum bandwidth of 512 kbps.

UPI/BHIM, Green PINS have been implemented. Micro ATMs at each branch has been deployed. KCC loan processing has been automated through in house developed software. Installation of Cash Recyclers and Self Service Pass Book Printers as part of eLobby are under process.

Bank has deployed a portal for complaint management, available on our website for all customers and general public for their valuable feedbacks and grievances. Complaints are being monitored by branches and offices with escalation mechanism.

21. Achievements under MOU

Achievements vis-à-vis Targets under MOU signed with Sponsor Bank are as under:

Major Parameter	Mar'18	MOU 2018-19	Achievement 31.03.19
Total Deposits	13228.40	15610	15134.38
Current Dep	275.64	325	285.46
Savings Dep	6918.21	8165	7778.03
Time Dep	6034.55	7120	7070.89
CASA	7193.85	8490	8063.49
CASA %	54.38	54.39	53.28
Total Advances	10283.67	12340	12036.24
Priority Sector	9290.98	11150	10866.91
Agri Adv	8522.41	10230	9735.87
Total Business	23512.07	27950	27170.62
C:D ratio	77.73	79.05	79.53
Gross NPA	518.21	415	558.30
NPA %	5.04	3.38	4.64
Net NPA	200.31	175	197.40
Net NPA %	2.01	1.41	1.69
Profit	102.77	150	106.00
Profit per employee (in lac)	2.97	3.85	2.80
Total Branches	832	865	845
No. of loss making branches (> 2 year old)	48	20	36
Income from TPP	1.68	6	2.14

Achievements under MOU for Average growth are as follows-

Major Parameter	Mar'18	MOU 2018-19	Achievement 31.03.19
Total Deposits	12242	14025	13737
Current Dep	203	225	224
Savings Dep	6382	7325	7152
Time Dep	5657	6475	6362
CASA	6585	7550	7376
CASA %	53.79	53.83	53.69
Total Advances	9443	11255	10706
Total Business	21685	25280	24443

22. Other Initiatives

A. Self Help Group Finance

Bank in its endeavor to promote Micro Finance, has formed 7047 SHGs during the fiscal. Further Bank has also Credit Linked 4204 fresh Self Help Groups.

Region wise progress under SHG Formation & Credit Linkage is as under:

Sr.No	Region	(₹ in Lac)		
		Fresh SHG Formed	Fresh SHG Credit Linkage	
		Account	Account	Loan Amount
1	Alwar	384	231	284
2	Banswara	1742	664	1797
3	Baran	743	556	556
4	Bharatpur	534	234	36
5	Bhilwara	703	318	331
6	Chittorgarh	467	738	729
7	Churu	413	193	155
8	Jhunjhunu	355	178	146
9	Kota	635	750	748
10	Neem ka Thana	285	153	155
11	Sawaimadhopur	360	174	171
12	Sikar	426	15	10
	Total	7047	4204	5117

B. Farmers' Club

Bank has total 1587 Farmers' Clubs and has already achieved one Farmer's Club per branch as envisaged by



the Hon'ble Finance Minister. The ratio of coverage of Farmer Clubs per branch is 1.90.

Region wise position of Farmers' Clubs is as under:-

Sr.No.	Region	Total No. as on 31.03.2019
1	Alwar	106
2	Banswara	214
3	Baran	198
4	Bharatpur	87
5	Bhilwara	139
6	Chittorgarh	158
7	Churu	208
8	Jhunjhunu	58
9	Kota	176
10	Neem ka Thana	52
11	Sawaimadhopur	139
12	Sikar	52
	Total	1587

C. Kisan Credit Card Scheme

Bank has issued 43996 fresh Kisan Credit Cards to the farmers in area of operation.

Region wise progress is as under: -

S.NO.	Region	No. of KCC Issued
1	Alwar	4439
2	Banswara	2237
3	Baran	3358
4	Bharatpur	2649
5	Bhilwara	3658
6	Chittorgarh	2296
7	Churu	6650
8	Jhunjhunu	5916
9	Kota	2135
10	Neem ka Thana	2933
11	Sawaimadhopur	3987
12	Sikar	3738
	Total	43996

Farmers making regular repayment have been given 3% interest subvention as incentive and the same is claimed from the Government of India. Personal Accident Insurance coverage up to ₹50000/- is being provided to KCC holders and the full cost of insurance premium is borne by the Bank.

D. SME/RLF

To cater the need of SME sector and in order to deliver better quality credit, quick repose to customer's needs, uniform system of credit delivery and to shrink the knowledge gap for credit creation, 12 Retail/SME loan factories were established, one each at every regional office during FY 2016-17.

Further, looking into the scope of financing in Ajmer district, 13th Retail/SME loan factory of the Bank was opened on 03.11.2018 at Aadarsh Nagar Ajmer branch.

During the year, training of Retail/SME is given to 652 Bank officers at district headquarters in Bank's Service Area.

During FY 2018-19, Our loan factories sanctioned Rs. 578.34 Cr against the level of Rs. 355.94 Cr as on Mar.18. Out of which Rs. 545.07 was disbursed.

E. PMEGP

The Bank sanctioned ₹880.34 lac under this scheme for 160 proposals during the year.

F. MUDRA

Against the target of Rs. 300 Crore for FY 2018-19, Bank disbursed Rs. 264.31 Crore under the scheme, thereby achieving the targets by 88.10%.

23. Interest Rates

Interest Rates on Deposits and Advances have been rationalized as per the market scenario and to be in line with our competitors in the area as also to maintain the Net Interest Margin. The rate of interest as on 31.03.2019 in the Bank are as under: -

(i) Interest rates on Deposits: -

(a) Interest Rate on Saving Bank Deposit wef 01.02.18 :-

Up to Balance Rs.2.00 Lac @ 3.50% p.a.

Above Balance Rs.2.00 Lac @ 4.00% p.a.

(b) Interest Rates on Term Deposits wef 29.03.19: -

Period (Domestic and NRO Deposits)	Rate of Interest w.e.f. 29.03.2019 Below ₹1.00 Cr.	Rate of Interest w.e.f. 29.03.2019 ₹1.00 Cr. & above up to 10.00 Cr	Rate of Interest w.e.f. 29.03.2019 ₹10.00 Cr. & above
From 7 days to 14 days	4.50%	4.00%	4.00%
From 15 days to 45 days	5.80%	6.25%	6.25%
From 46 days to 90 days	6.40%	6.60%	6.95%
From 91 days to 180 days	6.50%	7.10%	7.10%
From 181 days to less than 1 year	6.50%	7.10%	7.10%
1 year fixed	6.85%	7.25%	7.47%
above 1 years up to 399 days	6.85%	6.60%	6.60%
Exact 400 days (Below Rs.10.00 lac)	6.85%	6.60%	6.60%
New Deposit Scheme for Exact 400 days (Above Rs.10.00 lac & below Rs1.00 Crore)	7.00%	6.60%	6.60%
Above 401 days but below 2 years	6.85%	6.60%	6.60%
Above 2 years bur below 3 years	6.85%	6.60%	6.60%



Exact 3 years	6.85%	6.60%	6.60%
3 years above but less than 5 years	6.50%	5.00%	5.00%
5 years and above but less than 8 years	6.50%	5.00%	5.00%
8 years and above but maximum upto 10 years	6.50%	5.00%	5.00%
Tax Saving Scheme			
5 years and above but up to 10 years		6.50%	
NRE Deposits			
Period (NRE Deposits)	Rate of Interest w.e.f. 29.03.2019		
1 year fixed		6.85%	
above 1 year but up to 15 months		6.85%	
above 15 months but below 2 year		6.85%	
2 years & above but less than 3 years		6.85%	
3 years fixed		6.85%	
3 years above but Maximum 5 years		6.50%	

Additional Interest of 0.55 % is being given to Senior Citizens.

(ii) Interest Rates on advances :-

Sr. No.	Type of Loans	Rate of Interest w.e.f. 01.10.2018
1	Agriculture Sector	
a	Short Term (KCC etc.)	
i	Upto ₹ 50000	BPLR-1.50%= 11.00%
ii	Above ₹ 50000 but Upto ₹ 2.00 lacs	BPLR-0.50%= 12.00%
iii	Above ₹ 2.00 lacs upto ₹ 3.00 lac	BPLR = 12.50%
iv	Above ₹ 3.00 lacs upto ₹ 5.00 lac	BPLR = 12.50%
v	Above ₹ 5.00 lacs upto ₹ 10.00 lac	BPLR = 12.50%
vi	Above ₹ 10.00 lacs upto ₹ 25.00 lac	BPLR = 12.50%
vii	Above ₹ 25.00 lacs	BPLR = 12.50%
b	Medium / Long Term Loan (including allied activities and Indirect Agri. Loans.)	
i	Upto ₹ 50000	BPLR-1.50%= 11.00%
ii	Above ₹ 50000 but Upto ₹ 2.00 lacs	BPLR-1.50%= 11.00%
iii	Above ₹ 2.00 lacs upto ₹ 3.00 lac	BPLR-0.50% = 12.00%
iv	Above ₹ 3.00 lacs upto ₹ 5.00 lac	BPLR-0.50% = 12.00%
v	Above ₹ 5.00 lacs upto ₹ 10.00 lac	BPLR-0.50% = 12.00%
vi	Above ₹ 10.00 lacs upto ₹ 25.00 lac	BPLR-1.00% = 11.50%
vii	Above ₹ 25.00 lacs	BPLR-1.00% = 11.50%
c	Farm Mechanisation (Tractor & other Agricultural Implements)	As per 1 b above
d	Krishak Vahan (Two – wheeler)	As per 1 b above
i	Krishak Vahan (Four – wheeler /Jeep/ Multi utility Vehicle)	BPLR-2.50%= 10.00%
e	Krishak Mitra Yojana (Debt Swap Scheme)	BPLR-0.50% = 12.00%
f	Saral Krishi – Term Loan	BPLR-1.50%= 11.00%
i	Saral Krishi – Over Draft	BPLR-0.50%= 12.00%
2	Non Farm Sector	
i	Upto ₹ 50,000	BPLR-1.50%= 11.00%
ii	Above ₹ 50,000 and upto ₹ 2.00 lacs	BPLR-1.00%= 11.50%
iii	Above ₹ 2.00 lacs and upto ₹ 5.00 lacs	BPLR-1.00%= 11.50%
iv	Above ₹ 5.00 lacs and upto ₹ 25.00 lacs	BPLR-1.00%= 11.50%
v	Above ₹ 25.00 lacs	BPLR-1.50%= 11.00%
3	Saral Vyapar	
i	Upto ₹ 50,000	BPLR-1.50%= 11.00%
ii	Above ₹ 50,000 and upto ₹ 2.00 lacs	BPLR-1.00%= 11.50%
iii	Above ₹ 2.00 lacs and upto ₹ 5.00 lacs	BPLR-1.00%= 11.50%
iv	Above ₹ 5.00 lacs to Rs.25.00 lac	BPLR-1.50%= 11.00%
v	Above 25.00 lac	BPLR-1.50%= 11.00%
4	premium saral vyapar	BPLR-2.00%= 10.50%
5	Loan against warehouse receipts* *Intl. Rate excluding Collateral Management Agency (CMA) charge	BPLR-3.00%= 9.50%
6	SHGs	
i	Upto ₹ 50,000	BPLR = 12.50%

ii	Above ₹ 50,000 and upto ₹ 2.00 lacs	BPLR = 12.50%
iii	Above ₹ 2.00 lacs	BPLR = 12.50%
7	General Credit Card	BPLR+0.50%= 13.00%
8	Vehicle Loan (Public)	
i	Four Wheeler	
a	If CIBIL score 760 and above	BPLR-3.25%= 9.25%
b	If CIBIL score 725 and above but less than 760	BPLR-2.75%= 9.75%
c	If CIBIL score 675 and above but less than 725	BPLR-1.75%= 10.75%
d	If CIBIL score (-1) or (0) gross monthly income Rs. 40000 and above	BPLR-3.25%= 9.25%
	If CIBIL score (-1) or (0) gross monthly income less than Rs. 40000	BPLR-2.75%= 9.75%
ii	Four Wheeler (Old)	BPLR-1.75%= 10.75%
iii	Two Wheeler	BPLR+0.50%= 13.00%
9	Housing Loan (Public)	
a	If CIBIL score 760 and above	BPLR-3.75%= 8.75%
b	If CIBIL score 725 and above but less than 760	BPLR-3.25%= 9.25%
c	If CIBIL score 675 and above but less than 725	BPLR-3.00%= 9.50%
d	If CIBIL score (-1) or (0) gross monthly income Rs. 40000 and above	BPLR-3.75%= 8.75%
	If CIBIL score (-1) or (0) gross monthly income less than Rs. 40000	BPLR-3.25%= 9.25%
10	Housing Repairing/Renovation (Public)	
i	Repayment period up to 5 years	BPLR-2.50%= 10.00%
ii	Repayment period > 5 years, up to 10 years	BPLR-2.50%= 10.00%
iii	Repayment period > 10 years	BPLR-2.50%= 10.00%
11	Educational Loan	
i	Upto ₹ 2.00 lacs	BPLR+0.25%= 12.75%
ii	Above ₹ 2.00 lacs and upto ₹ 4.00 lacs	BPLR+0.25%= 12.75%
iii	Above ₹ 4.00 lacs and upto ₹ 7.50 lacs	BPLR+0.25%= 12.75%
iv	Above ₹ 7.50 lacs	BPLR-1.75%= 10.75%
12	Advance against Property (Term Loan/ Overdraft)	
i	Sampatti Rin Yojana	
a	If CIBIL score 760 and above	BPLR-0.50%= 12.00%
b	If CIBIL score 625 and above but less than 760 or -(1) or (0)	BPLR+0.50%= 13.00%
ii	Premium Sampatti Rin Yojana	
a	If CIBIL score 760 and above	BPLR-1.50%= 11.00%
b	If CIBIL score 625 and above but less than 760 or -(1) or (0)	BPLR-0.50%= 12.00%
13	Personal/Consumer Loan	
i	Sulbh Rin Yojana	
a	If CIBIL score 760 and above	BPLR-0.50%= 12.00%
b	If CIBIL score 625 and above but less than 760 or -(1) or (0)	BPLR+0.50%= 13.00%
ii	Premium Sulbh Rin Yojana	
a	If CIBIL score 760 and above	BPLR-1.50%= 11.00%
b	If CIBIL score 625 and above but less than 760 or -(1) or (0)	BPLR-0.50%= 12.00%
14	Top-up loan	BPLR-2.00%= 10.50%
15	Loan against future rent receivables	BPLR = 12.50%
16	Loan to Doctors	
(i)	If collateral security available	BPLR-1.50%=11.00%
(ii)	If collateral security not available	BPLR-0.50%=12.00%
17	Loan to Real Estate	BPLR+1.00%=13.50%
18	Loan against NSC/KVP/LIC	
i	For Public	BPLR-0.50%= 12.00%
ii	(a) Bank Staff – KVP / LIC	BPLR-1.50%= 11.00%
	(b) Bank Staff – NSC	1% additional over the NSC Intt. rate
19	Against Bank's own Deposits	
i	For Public (Term Loan /Overdraft)	1.00% additional over Deposit Rate
ii	For Staff	
	(a) Upto ₹ 3.00 lacs	1.00% additional over Deposit Rate
	(b) Above ₹ 3.00 lacs	1.00% additional over Deposit Rate
iii	Against third party deposit	2.00% additional over Deposit Rate
20	Temporary Overdraft	BPLR+2.50%=15%

Rate of Interest on advances is linked with BPLR. Our present BPLR is 12.50%.



24. Non-Fund & Fee Based Business

Bank undertakes following Non-Fund business & Fee Based activities:

- Bank is having Tie up with National Insurance Co. Ltd. And Future Generally Insurance Co. for General Insurance Business and for PMSBY Tie up with National Insurance Co. Ltd. , which has helped in generating revenue.
- Bank is having Tie up with India First Life Insurance Co. Ltd. for Life Insurance business including PMJJBY, which has helped in augmenting Bank's profitability.
- Bank has provided Locker facility in 133 branches, as a measure of additional service to our clients, which has resulted in rentals of ₹121.35 lac.
- Bank is also undertaking the business of issuance of Bank Guarantee which has helped in augmenting Bank's profitability by raising the revenue of ₹22.01 lacs.

Bank has earned total ₹214 lac commission from Insurance business including APY.

25. Human Resources Development

Human Resource is the most important capital asset of our organization. Thus focus is on development of competencies through training to take care of organization's long term needs and the individuals' career goals.

Bank has introduced HROMS software. This HR package is developed in-house which lets the staff access, on-line, to a large array of information. Salary payment to staff has been centralized with help of this software.

Bank has conducted Recruitment process under CRP RRB- VII for the vacancies of 14 officers in Scale-III, 118 officers in Scale-II, 225 Officers in Junior Management Scale I and 256 Office Assistant (Multipurpose). However document verification procedure is pending due to W.P. 104/2019 in Hon'ble Supreme Court regarding non exhaustion of reserve list under CRP- VI as order of status-quo was passed by Hon'ble Supreme Court on 30.01.2019.

For capacity building of staff, Bank has its own training center at Sikar and Chittorgarh.

Bank has also organized Orientation Programs,

Refresher Programs, Development Programme, Programme on Leadership, Communication and Team building, Development-cum-Induction Programme, MSME Financing, Customer Service and Business Development, Locational training programme on retail lending & NFS, Data quality and cleaning in Finacle, House keeping, New business avenues and profitability, Effective Recovery. Bank has also organized Orientation training programme for newly promoted officers, training for Enquiry Officers and Presenting Officers on Departmental enquiries.

The staff is nominated to External Training Institutions like BIRD, Lucknow, CAB (RBI), Pune and Staff Training College, Ahmedabad.

Pre promotion training was given to Office Attendants, Office Assistants and officers of Scale-I and II from SC/ST.

The category wise staff position as on 31.03.2019 and Trainings provided during the year are as under: -

Sr. No.	Category	Total Staff	Out of total SC/ST		Trainings during the year	Out of which SC/ST	
			No.	%		No.	%
1	Officer	2140	545	25.47	1557	419	26.91
2	Clerks	1296	386	29.78	1412	452	32.01
3	Subordinate Staff	350	83	23.71	155	38	24.51
	Total	3786	1014	26.78	3124	909	29.10

Bank is keen to develop all sections of Staff in their career progression by observing various guidelines issued by the regulators viz. Govt. of India, RBI, NABARD and Sponsor Bank.

Bank is implementing all guidelines issued by Regulators in respect of SC/ST Employees. Bank has appointed Liaison Officer and maintained updated rosters for SC/ST employees. Two Meetings with SC/ST Welfare Association, in terms of the guidelines issued by regulators, were held.

26. Financial Inclusion/ PMJDY

Bank has covered all households in its area of operation into the banking network by providing financial services at affordable prices in tune with the objectives of PMJDY.

We opened 5.25lac accounts under PMJDY this year, thereby 33.85 lac accounts have been opened since the launch of PMJDY on 15.08.2014 and the outstanding BSBDA and FI accounts as on 31.03.2019 are 50.08 lac.

Bank has provided banking facilities in all 1942 Sub



Service Area (SSA) villages allotted to our Bank. We have covered 442 SSAs through branches and remaining 1500 through BC outlets. E-Mitras are being appointed as additional BCs.

By engaging 584 BC this year, Bank has 3985 BCs functional, out of which 122 are 'Bank Sakhis' (SHGs of women working as BCs).

Bank has achieved 97.43% seeding of accounts opened under PMJDY and 92.67% of all accounts with AADHAAR number.

Bank has organised 10294 "Chaupals" (village level public meets) during the year meeting RBI's prescription of 'One Chaupal per month per rural branch', including 2608 Chaupals and 378 DFLAPs (Digital Financial Literacy Awareness Programmes) organized by 19 FLCs (financial literacy centers).

3 Mobile ATM Van (supported by NABARD), named 'Mudra Rath' covered villages during the year spreading Financial awareness as well as Digital Literacy. Each 'Mudra Rath' is occupied with ATM which also helps to demonstrate working of ATM in rural area.

Bank's achievements under Social Security Schemes-

Scheme	Enrollment during FY 2018-19	Aggregate Enrollment
PMJJBY	127521	262267
PMSBY	294429	943433
APY	50400	139580

Bank is felicitated with 11 awards by PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) for Atal Pension Yojana (APY) campaigns during 2018-19.

Strengthening of BC Network:-

Bank has 3985 active BC's working in its service area including 122 SHG Women Bank Sakhi. To operate SHG account at BC point we have launched "Dual Authentication" facility during FY 2018-19.

Special BC Townhall meetings organized to strengthen BC network at district level. During FY 2018-19, Average BC commission Paid is Rs.3370 per BC per month.

During FY 2018-19 around 4.22 Cr transactions initiated and about 5.18 lac accounts opened by BCS.

Our Bank has published "Bank Mitra Nirdeshika" guidebook for BCs.

To promote Digitization each branch of bank is equipped with Micro ATM. Our cashiers are using Micro ATM to cater digital services to customers.

27. Solar Energy Project

Our 26 Branches are equipped with Solar Power to run Computers and Peripherals.

28. NABARD & Internal Inspection

The Inspection Department Head Office ensures adherence to Systems, Policies and Procedures of the Bank. The guidelines received on various issues on internal control from NABARD, Govt. of India, Sponsor Bank, Board and Audit Committee of the Board are percolated to the operational units and the Department oversees the compliance.

During the year, 677 branches were audited by our Internal Auditors and branch audit was carried out on the "Ongoing" basis.

Ratings of branches according to Risk Categorization for two years is as follows –

Year	LOW	MEDIUM	HIGH
2017-18	545	143	3
2018-19	594	80	3

As per the directives of NABARD, Bank has formed Audit Committee of the Board to improve the operational efficiency, four meetings of Audit Committee of Bank were held during the year.

Bank has formed H.O. Level Audit Committee, in order to ensure and enhance the quality and effectiveness of Internal Audit/Inspection as a management tool. Regular meetings of the Committee were held during the year.

29. Vigilance Cell

The Vigilance Cell has been working at the Head office headed by a Chief Manager (Vigilance) from Bank of Baroda, as Vigilance In charge of the Bank. All type of disciplinary cases i.e. Vigilance, Non-Vigilance (Financial), Non-Vigilance (Non-Financial) are handled by the Vigilance Cell from initial stage to logical end of the case.

Bank encourages Preventive Vigilance practices to minimize the occurrence of frauds. Preventive Vigilance Audit of the branches is being carried out every year for the select branches by Vigilance department by senior officials posted at Regional Offices/Head Office of the Bank. Circulars have been



issued from time to time on preventive vigilance for staff awareness and to minimize occurrence of incidents of frauds, misappropriation, embezzlement, decoities, robberies, thefts and burglaries.

Training and workshops are conducted on preventive vigilance, Investigation Techniques & Departmental Inquiries. During vigilance awareness week, various activities are done to sensitize the staff to prevent frauds and malpractices. Vigilance Cell ensures receipt and scrutiny of Assets and Liabilities Return of all officers.

Bank has formed 'Internal Advisory Committee' for classification of the disciplinary cases and 'Fraud Investigation & Fraud Monitoring Committee', and 'Special Committee of the Board for monitoring and review of fraud cases of ₹20 lacs and above' at Head Office for compliance of systems and procedures, investigation of frauds cases, prevention and review of fraud cases. Bank has formed "Vigilance Committee" to review the suspension cases, progress & status of vigilance overtone complaints & Inspection reports where serious irregularities reported & requires staff side action. Vigilance Cell ensures online submission of Fraud Returns (FMS) to NABARD & IBA in time.

30. Net Worth and Capital Adequacy Ratio

The Net Worth of the Bank is ₹1132.22Cr. as on 31.03.2019 whereas, it was ₹1023.82 Cr. as on 31.03.2018.

The Capital Adequacy Ratio of the Bank is 10.27% as on 31.03.2019 which was 10.20% as on 31.03.2018.

31. Meetings of the Board of Directors

During the calendar year 2018, six Board meetings were held and the Board reviewed the working and the progress to further improve the efficiency and performance of the Bank.

The following changes took place in the Board:

1. Shri Dharmendra Azad, A.G.M., Reserve Bank of India, Jaipur appointed as board of director in place of Shri A.K.Nigam, A.G.M., Reserve Bank of India as RBI nominee.
2. Shri Prakash Vir Rathi, G.M., Zonal office BOB Jaipur appointed as board of director in place of Shri N.C.Upreti, G.M. Zonal office BOB Jaipur as Bank of Baroda nominee.
3. Shri G.B. Panda, G.M., Bank of Baroda New Delhi

Appointed as director of the board in place of shri M.S. Mehnot. DGM, Bank of Baroda.

4. Shri Suresh Chand Gupta, Joint Secretary Govt. of Rajasthan appointed as board of director in place of Shri B.S.Jat, Joint Secretary Govt. of Rajasthan as Govt. of Rajasthan nominee.
5. Two Non-Official Directors, Both the posts are lying vacant.

The Board places on record, its deep sense of appreciation for the valuable contribution and suggestions received from all the Directors under whose directions Bank could register satisfying performance under various parameters.

32. Acknowledgements

The Board of Directors place on record deep sense of gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India, NABARD, State Government, various District Authorities and Sponsor Bank, Bank of Baroda for their valuable directions, continued co-operation and support for the development of the Bank.

The Board of Directors feels pleasure in expressing sincere thanks to its customers and all well-wishers for their continued patronage and co-operation.

The Bank's Board also expresses special gratitude to Chairman, Managing Director & CEO, and other senior functionaries of Bank of Baroda for their unflinching guidance and unstinted support. Further Board also records its appreciation for the hard work and dedicated efforts put-in by all the staff members at every level for business development of the Bank.


For and on behalf of Board of Directors,

R C Gaggar
CHAIRMAN



मुख्य वित्तीय सूचक


Key Financial Indicators...






NPA – Gross and Net

In terms of Amount (Rs in Crores)




In terms of %age to total Advances



Deposits, Advances, Total Business

Accounts in Lacs




Amount in Lacs






Productivity

Business per Branch
(Amount in Crore Rupees)




Business per Employee
(Amount in Crore Rupees)




Profitability & Worth

Net Profit
(Amount in Crore Rupees)



Net Worth
(Amount in Crore Rupees)





BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Key Financial Indicators as on 31.03.2019

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक 31.03.2019

(राशि ₹ लाखों में)

	विवरण/Particulars	2018-19	2017-18
A	मुख्य सूचक Key Indicators		
1	कार्यक्षेत्र जिले No. of districts covered	21	21
2	शाखाओं की संख्या No. Of branches	845	832
	(अ) ग्रामीण Rural	614	603
	(ब) अर्द्ध – शहरी Semi-Urban	162	160
	(स) शहरी Urban	56	56
	(द) महानगरीय Metropolitan	13	13
3	कुल स्टाफ (प्रायोजक बैंक स्टाफ के अतिरिक्त) Total Staff (excluding Sponsor Bank Staff)	3786	3463
	इनमें से अधिकारी Of which, Officers	2140	1952
4	जमायें Deposits	1513438	1322840
	वृद्धि प्रतिशत Growth %	14.41	8.30
5	बकाया उधार (पुनर्वित्त) Borrowings Outstanding	143973	164752
	वृद्धि प्रतिशत Growth %	-12.61	4.65
6	सकल ऋण एवं अग्रिम (बकाया) Gross Loans & Advances (Outstanding)	1203624	1028367
	वृद्धि प्रतिशत Growth %	17.04	14.38
	उक्त 6 में से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण Of 6 above, loans to Priority Sector	1066691	929098
	उक्त 6 में से, अनु.जा./अनु.ज.जा. को ऋण Of 6 above, loans to SC/ST	207363	199984
	उक्त 6 में से, लघु कृषक/सीमान्त कृषक/खेतिहर मजदूर को ऋण Of 6 above, loans to SF/MF/AL	524985	462743
	उक्त 6 में से, अल्पसंख्यकों को ऋण Of 6 above, loans to Minorities	49628	40973
7	अग्रिम जमा अनुपात Credit Deposit Ratio	79.53	77.74
8	बकाया निवेश Investment Outstanding	312941	292067
	वृद्धि प्रतिशत Growth %	7.15	-0.85
	बकाया एस.एल.आर. निवेश SLR Investment Outstanding	311775	281801



(राशि ₹ लाखों में)

	विवरण/Particulars	2018-19	2017-18
	बकाया नॉन एस.एल.आर. निवेश Non SLR Investment Outstanding	1166	10266
B	औसत Averages		
9	औसत जमायें Average Deposits	1383067	1224181
	वृद्धि प्रतिशत Growth %	12.98	8.91
10	औसत पुनर्वित्त Average Borrowings	168604	154634
	वृद्धि प्रतिशत Growth %	9.03	19.57
11	औसत कुल ऋण व अग्रिम Average Total Loans and Advances	1082409	944322
	वृद्धि प्रतिशत Growth %	14.62	12.48
12	औसत निवेश Average Investments	526305	472279
	वृद्धि प्रतिशत Growth %	11.44	8.82
	औसत एसएलआर निवेश का औसत जमाओं के विरुद्ध प्रतिशत Average SLR Investment as % to average Deposit	22.89	23.66
	औसत नॉन एसएलआर निवेश का औसत जमाओं के विरुद्ध प्रतिशत Average Non SLR Investment as % to average Deposit	0.23	0.40
13	औसत कार्यशील निधि Average Working Funds	1712782	1546884
C	वर्ष के दौरान ऋण वितरण Loan issued during the year*		
14	वर्ष के दौरान ऋण वितरण Loans issued during the year	1028611	877143
	वृद्धि प्रतिशत Growth %	17.27	-8.83
	उक्त 14 में से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण Of 14 above, loans to Priority Sector	940747	812856
	उक्त 14 में से, अनु.जा./अनु.ज.जा. को ऋण Of 14 above, loans to SC/ST	173577	142652
	उक्त 14 में से, लघु कृषक/सीमान्त कृषक/खेतिहर मजदूर को ऋण Of 14 above, loans to SF/MF/AL	455901	417491
	उक्त 14 में से, अल्पसंख्यकों को ऋण Of 14 above, loans to Minorities	23435	17211
D	उत्पादकता Productivity		



(राशि ₹ लाखों में)

	विवरण/Particulars	2018-19	2017-18
15	प्रति शाखा Per Branch	3215	2826
	प्रति स्टाफ Per staff	717	679
E	वसूली प्रगति (Recovery Performance) As on 30.06.18		
16	कुल Total		
	मांग Demand	998059	955997
	वसूली Recovery	854273	843738
	अतिदेय Overdues	143786	112259
	वसूली प्रतिशत (जून की स्थिति) Recovery % (June position)	85.59	82.26
17	कृषि क्षेत्र (Farm Sector)		
	मांग Demand	940779	889359
	वसूली Recovery	805986	788306
	अतिदेय Overdues	134793	101053
	वसूली प्रतिशत (जून की स्थिति) Recovery % (June, position)	85.67	88.64
18	अकृषि क्षेत्र Non Farm Sector		
	मांग Demand	57280	66638
	वसूली Recovery	48287	55432
	अतिदेय Overdues	8993	11206
	वसूली प्रतिशत (जून की स्थिति) Recovery % (June, position)	84.30	83.18
F	सकल आस्तियों का वर्गीकरण Classification of Assets		
19	(अ) मानक Standard	1147795	976547
	(ब) उप-मानक Sub standard	10884	11538
	(स) संदिग्ध Doubtful	41841	38107
	(द) हासित Loss	3104	2176
	योग Total	1203624	1028368
20	मानक आस्तियों का बकाया सकल ऋण व अग्रिमों के विरुद्ध प्रतिशत Std. Assets as % to Gross Loans & Advances Outstanding	95.36	94.96
G	लामप्रदता विश्लेषण Profitability Analysis		



(राशि ₹ लाखों में)

	विवरण/Particulars	2018-19	2017-18
21	ब्याज भुगतान Interest Paid		
	(अ) जमाओं पर On Deposits	71123	66822
	(ब) उधारों पर On Borrowings	9275	8725
22	वेतन Salary	46379	26758
23	अन्य परिचालनगत व्यय Other Operating Expenses	11717	10360
24	समीक्षाधीन अवधि के दौरान किया गया प्रावधान Provision made during the period		
	(अ) गैर मानक आस्तियों के विरुद्ध Against NPA	4300	5646
	(ब) मानक आस्तियों के विरुद्ध Against Std. Assets	466	3
25	ब्याज प्राप्त Interest received		
	(अ) ऋण एवं अग्रिमों पर On loans and Advances	104348	90212
	(ब) प्रायोजक बैंक / अन्य बैंक के साथ चालू खाते पर On Current A/c with Sponsor Bank/Other Banks	19	77
	(स) एसएलआर निवेश / सूचना पर जमा / बैंकों के साथ आवधिक जमाएँ एवं अनुमोदित प्रतिभूतियों पर On SLR Investments/Money at call/TDR with Sponsor Bank & Approved Securities	39975	35906
	(द) नॉन एसएलआर निवेश पर On Non SLR Investment		
	(य) भा.रि.बैंक के साथ चालू खाते पर On Current Account with RBI	-	-
26	विविध आय Miscellaneous Income	15475	11452
27	लाभ Profit	10607	10277
H	अन्य सूचनाएँ Other informations		
28	अंश जमा पूँजी खाते में बकाया राशि Share Capital Deposit	-	-
29	डी आई सी जी सी DICGC		
	(अ) निस्तारित दावे – संचयी Claims setteled cumulative	-	-
	(ब) दावे प्राप्त परन्तु समायोजन हेतु बकाया Claims received but pending for adjustment	-	-
	(स) निगम के पास लम्बित दावे Claims pending with the corporation	-	-




(राशि ₹ लाखों में)

	विवरण/Particulars	2018-19	2017-18
30	संचयी प्रावधान Cumulative Provision		
	(अ) गैर मानक व मानक आस्तियों के विरुद्ध Against NPAs & Standard Assets	39210	34445
	(ब) अमूर्त आस्तियों, धोखाधड़ी के विरुद्ध Against intangible Assets, Frauds, etc.	0	0
31	ब्याज प्रत्यावर्तन Interest Derecognised		
	(अ) वर्ष के दौरान During the year	-	-
	(ब) संचयी Cumulative	0	0
32	समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपलिखित ऋण Loans written off during the period		
	(अ) खाता संख्या No. of Accounts		
	(ब) राशि Amounts	447	91
33	संचयी हानि Accumulated Loss	0	0
34	वैधानिक आरक्षितियाँ Statutory Reserve	20073	17521



हमारी उपस्थिति

Our Presence



भौगोलिक परिदृश्य

Geographical Spread



Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

HEAD OFFICE : AJMER

Geographical spread of Bank in Rajasthan



Name of District	No. of Branches
Ajmer	30
Alwar	81
Banswara	27
Baran	33
Bharatpur	39
Bhilwara	53
Bikaner	12
Bundi	34
Chittorgarh	39
Churu	70

Name of District	No. of Branches
Dausa	3
Dholpur	15
Dungarpur	28
Jhalawar	31
Jhunjhunu	94
Karauli	23
Kota	51
Pratapgarh	13
Sawaimadhampur	26
Sikar	104
Tonk	39

Total Branches 845



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

प्रधान कार्यालय

वैशाली नगर
अजमेर (राज.) 305004

Head Office

Vaishali Nagar
Ajmer (Raj.) 305004



क्षेत्रीय कार्यालय

Regional Office

13, लाजपत नगर, स्कीम नम्बर 2
अलवर (राजस्थान) 301 001

प्रथम तल, खादी फ्लेक्स भवन,
हारुसिंग बोर्ड तिराहा, उदयपुर रोड़
बाँसवाड़ा (राजस्थान) 327 001

कोटा रोड़,
बारां (राजस्थान) 325 205

1. कृष्णा नगर
भरतपुर (राजस्थान) 321 001

लोकपीड़ा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 8
आर.सी. व्यास कॉलोनी,
मीलवाड़ा (राजस्थान) 311 001

द्वितीय तल, मीरा मार्केट, राजीव कॉलोनी,
चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 312 001

खेमका भवन, स्टेशन रोड़
चूरु (राजस्थान) 331 001

पीरू सिंह चौराहा के पास
स्टेशन रोड़, झुन्झुनू (राजस्थान) 333 001

9, A-B, झालावाड़ रोड़, छावनी चौराहा,
कोटा (राजस्थान) 324 007

प्लॉट नं. 130, वार्ड नं. 15, गौशाला के पास
खेतड़ी रोड़, नीम का थाना
जिला सीकर (राजस्थान) 332 713

2. बाल मंदिर कॉलोनी, टोंक रोड़
सवाईमाधोपुर (राजस्थान) 322 001

खटीकों की प्याऊ के पास, फतेहपुर रोड़
सीकर (राजस्थान) 332 001

13, Lajpat Nagar, Scheme No. 2
ALWAR (Rajasthan) 301 001

First Floor, Khadi Flex Bhawan,
Housing Board Tiraha, Udaipur Road
BANSWARA (Rajasthan) 327 001

Kota Road,
BARAN (Rajasthan) 325 205

1, Krishna Nagar
BHARATPUR (Rajasthan) 321 001

Lok Pida Complex, Sector-8,
R.C. Vyas Colony
BHILWARA (Rajasthan) 311 001

IIInd Floor, Mira Market, Rajiv Colony
CHITTORGARH (Rajasthan) 312 001

Khemka Bhawan, Station Road
CHURU (Rajasthan) 331 001

Near Peeru Singh Circle, Station Road
JHUNJHUNU (Rajasthan) 333 001

9, A-B, Near Chhavani Circle, Jhalawar Road
KOTA (Rajasthan) 324 007

Plot No. 130, Ward No. 15, Near Gaushala,
Khetari Road, NEEM KA THANA
Distt. SIKAR (Rajasthan) 332 713

2, Bal Mandir Colony, Tonk Road,
SAWAI MADHOPUR (Rajasthan) 322 001

Near Khatikon Pyau, Fatehpur Road
SIKAR (Rajasthan) 332 001



वित्तीय विवरण...

Financials...





प्रारूप-ए / Form "A"
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

31 मार्च 2019 का तुलन पत्र
Balance Sheet as on 31st March 2019

(000's अनंकित Omitted)

	अनुसूची Schedule	31.03.2019 को As on 31.03.2019	31.03.2018 को As on 31.03.2018
पूंजी और दायित्व	CAPITAL & LIABILITIES		
पूंजी	Capital	1 3093380	3093380
आरक्षितियां और अधिशेष	Reserve & Surplus	2 8228848	7144855
जमा राशियां	Deposits	3 151343786	132283991
उधार	Borrowings	4 14397299	16475222
अन्य देनदारियां तथा प्राक्धान	Other Liabilities & Provisions	5 3241369	1542486
शेयर केपीटल डिपोजिट	Share Capital Deposit	0	0
योग	TOTAL	180304682	160539934
आस्तियां	ASSETS		
भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी एवं अतिशेष	Cash & balances with Reserve Bank of India	6 6529856	5665011
बैंको में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	Balances with Banks & money at call and short notice	7 20902445	21445086
विनिधान	Investments	8 31294069	29206741
अग्रिम	Advances	9 116753376	99657717
स्थिर आस्तियां	Fixed Assets	10 302654	238498
अन्य आस्तियां	Other Assets	11 4522282	4326881
योग	TOTAL	180304682	160539934
समाश्रित दायित्व	Contingent Liabilities	12 939935	685577
संग्रहण के लिये बिल	Bills for Collection	567873	428995
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting policies	17	
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18	

उपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन -पत्र का ही एक भाग है

वास्ते एस. आर. गोयल एण्ड क.
सनदी लेखाकार
FRN 001537C

धर्मेन्द्र आजाद प्रकाश वीर राठी के. आर. कनौजिया आर.सी. गग्गड़
निदेशक निदेशक निदेशक अध्यक्ष

ऐ. के. अटोलिया
साझेदार
मेम्बरशिप नं. 077201

अशोक कुमार मिश्र राज किशोर मीणा सुरेश चन्द गुप्ता प्रमोद कुमार
महाप्रबन्धक निदेशक निदेशक निदेशक

स्थान : अजमेर
दिनांक : 20.05.2019

दिव्या गौड़ मोहन लाल कुलदीप आर. एल. चेचाणी योगेश माथुर
प्रबन्धक वरिष्ठ प्रबन्धक मुख्य प्रबन्धक महाप्रबन्धक
(लेखा व निवेश) (लेखा व निवेश)



प्रारूप-बी / Form "B"
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

31.03.2019 को समाप्त अवधि का लाभ हानि खाता

Profit & Loss Account for the period ending 31.03.2019

(000's अनअंकित Omitted)

		अनुसूची क्र.	31.03.2019 को	31.03.2018 को
		Schedule No.	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
आय	INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	14434140	12619523
अन्य आय	Other Income	14	1547504	1145206
योग	TOTAL		15981644	13764729
व्यय	EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज	Interest Expended	15	8039726	7554787
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	5809631	3711824
अन्य उपबन्ध और आकस्मिक व्यय	Other Provisions & Contingencies		486276	783492
आयकर प्रावधान	Provisions for Income Tax		585345	686950
योग	TOTAL		14920978	12737053
लाभ/हानि	PROFIT/LOSS			
वर्ष का शुद्ध लाभ	Net Profit for the year		1060666	1027676
अग्रणीत लाभ	Profit brought forward		4926628	4155871
योग	TOTAL		5987294	5183547
विनियोग	APPROPRIATIONS			
अन्तरण -	Transfer to -			
कानूनी आरक्षितियों को	Statutory Reserves		255166	256919
अन्य आरक्षितियों को	Other Reserves			
सरकार/प्रस्तावित लामांशों को	Govt./Proposed Dividend			
अतिशेष जो आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया	Balance Carried over to Balance Sheet		5732128	4926628
योग	TOTAL		5987294	5183547
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account

For S. R. Goyal & Co.
Chartered Accountants
FRN 001537C

Dharmendra Azad
Director

Prakash Veer Rathi
Director

K. R. Kanojia
Director

R.C.Gaggar
Chairman

A. K. ATOLIA
Partner
Membership No. 077201

A. K. Mishra
General Manager

Raj Kishore Meena
Director

S. C. Gupta
Director

Pramod Kumar
Director

Divya Gaur
Manager
(Acc.&Inv.)

Mohan Lal Kuldeep
Sr. Manager
(Acc.&Inv.)

R.L.Chechani
Chief Manager

Yogesh Mathur
General Manager

Date : 20.05.2019



अनुसूची-1 पूंजी/ SCHEDULE-1 - CAPITAL

		(000's अनअंकित Omitted)		
		31.03.19 को	31.03.18 को	
		As on 31.03.19	As on 31.03.18	
I	राष्ट्रीय बैंकों के लिये पूंजी(केन्द्रीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)	FOR NATIONALISED BANK Capital (Fully owned by Central Government)	--	--
II	भारत के बाहर निगमित बैंको के लिए	FOR BANKS INCORPORATED OUTSIDE INDIA	--	--
	योग	TOTAL	--	--
III	अन्य बैंकों के लिये	FOR OTHER BANKS		
	प्राधिकृत पूंजी (10/- रु. प्रति शेयर वाले 30,93,37,980 शेयर)	Authorised Capital (30,93,37,980 Shares of Rs.10/-each)	3093380	3093380
	पुरोघृत पूंजी (10/- रु. प्रति शेयर वाले 30,93,37,980 शेयर)	Issued Capital (30,93,37,980 Shares of Rs.10/-each)	3093380	3093380
	प्रतिश्रुत पूंजी (10/- रु. प्रति शेयर वाले 30,93,37,980 शेयर)	Subscribed Capital (30,93,37,980 Shares of Rs.10/-each)	3093380	3093380
	आहूत पूंजी (10/- रु. प्रति शेयर वाले 30,93,37,980 शेयर)	Called-up Capital (30,93,37,980 Shares of Rs.10/-each)	3093380	3093380
	घटाईये : आहूत असमादत राशियां	LESS : Calls unpaid	--	--
	जोड़िये : समग्रहत शेयर	Add : Forfeited Shares	--	--

अनुसूची-2 आरक्षितियां और अधिशेष/ SCHEDULE-2 RESERVES & SURPLUS

		(000's अनअंकित Omitted)		
		31.03.19 को	31.03.18 को	
		As on 31.03.19	As on 31.03.18	
I	कानूनी आरक्षितियां	Statutory Reserves	2007279	1752113
II	पूंजी आरक्षितियां	Capital Reserves		
III	शेयर प्रीमियम	Share Premium		
IV	राजस्व और अन्य आरक्षितियां	Revenue & Other Reserves	489441	466114
V	लाभ-हानि का अतिशेष	Balance in Profit and Loss A/c	5732128	4926628
	योग	TOTAL	8228848	7144855



अनुसूची- 3 निक्षेप/ **SCHEDULE- 3 - DEPOSITS**

(000's अनअंकित Omitted)

		31.03.19 को As on 31.03.19	31.03.18 को As on 31.03.18
I	मांग निक्षेप		
	Demand Deposits		
	क. बैंको से	66585	58383
	ख. अन्य से	2787944	2698007
II	बचत बैंक निक्षेप	77780317	69182102
	Savings Bank Deposits		
III	कालिक निक्षेप		
	Term Deposits		
	क. बैंको से	533411	312318
	ख. अन्य से	70175529	60033181
	योग	TOTAL	
		151343786	132283991

अनुसूची- 4-उधार/ **SCHEDULE- 4 - BORROWINGS**

(000's अनअंकित Omitted)

		31.03.19 को As on 31.03.19	31.03.18 को As on 31.03.18
I	भारत में उधार		
	Borrowings in India		
i	भारतीय रिजर्व बैंक	--	--
	Reserve Bank of India		
ii	अन्य बैंक	2561	468026
	Other Banks		
iii	अन्य संस्थान और अभिकरण	14394738	16007196
	Other Institutions and agencies		
II	भारत के बाहर से उधार	--	--
	Borrowings outside India		
	योग (I+II)	TOTAL	
		14397299	16475222
	उपर I और II में सम्मिलित		
	प्रतिभूत उधार	14397299	16475222
	Secured borrowings included in I & II above		

अनुसूची-5 अन्य दायित्व और उपबन्ध/ **SCHEDULE- 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**

(000's अनअंकित Omitted)

		31.03.19 को As on 31.03.19	31.03.18 को As on 31.03.18
I	सदेय बिल	171931	150362
	Bills Payable		
II	प्रोदभूत ब्याज	127182	371909
	Interest accrued		
III	अन्य (प्रावधानों सहित)	2942256	1020215
	Others (Including provisions)		
	योग	TOTAL	
		3241369	1542486



अनुसूची-6 भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और अतिशेष

SCHEDULE-6- CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000's अनअंकित Omitted)

		31.03.19 को As on 31.03.19	31.03.18 को As on 31.03.18
I	हाथ नगदी Cash in Hand	632627	578652
II	भारतीय रिजर्व बैंक में चालू खातों में अतिशेष Balances with Reserve Bank of India in Current Account	5897229	5086359
	योग TOTAL	6529856	5665011

अनुसूची-7 बैंक में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

SCHEDULE-7- BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(000's अनअंकित Omitted)

		31.03.19 को As on 31.03.19	31.03.18 को As on 31.03.18
I	भारत में IN INDIA		
i	बैंको में अतिशेष Balances with Banks		
	(क) चालू खातों में In Current Accounts	1151103	1088212
	(ख) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	19751342	20356874
ii	मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
	(क) बैंको के पास With Banks	--	--
	(ख) अन्य संस्थाओं में With Other Institutions	--	--
	योग TOTAL	20902445	21445086
II	भारत के बाहर OUTSIDE INDIA		

अनुसूची- 8 विनिधान / **SCHEDULE- 8 INVESTMENTS**

(000's अनअंकित Omitted)

		31.03.19 को As on 31.03.19	31.03.18 को As on 31.03.18
I	भारत में विनिधान Investments in India in		
i	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	31177458	28180130
ii	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities	--	--
iii	शेयर Shares	472	472
iv	डिबेन्चर और बंधपत्र Debentures & Bonds	115139	115139
v	समनुषंगी और/अथवा सह उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	--	--
vi	अन्य (म्यूचुअल फण्ड) Others (Mutual Fund)	1000	911000
	योग TOTAL	31294069	29206741
II	भारत के बाहर विनिधान Investment outside India	--	--



अनुसूची-9 अग्रिम / SCHEDULE-9- ADVANCES

(000's अनअंकित Omitted)

		31.03.19 को As on 31.03.19	31.03.18 को As on 31.03.18
A i) कृय किये गये, मिती काटे पर भुगतान किये गये विनिमय पत्र	Bills purchased and discounted	2321	
ii) रोकड उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रति संदेय उधार	Cash - Credits, Overdrafts and loans repayable on demand	103880919	88460659
iii) आवधि उधार	Term Loans	12870136	11197058
	योग	TOTAL	99657717
B i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	Secured by tangible assets	111121375	93894315
ii) बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	Covered by Bank/Govt. Guarantees		
iii) अप्रतिभूत	Unsecured	5632001	5763402
	योग	TOTAL	99657717
C I भारत में अग्रिम	Advances in India		
i) पूर्विकता सेक्टर	Priority Sectors	103372837	87845041
ii) पब्लिक सेक्टर	Public Sector		
iii) बैंक	Banks		
iv) अन्य	Others	13380539	11812676
II भारत के बाहर अग्रिम	Advances outside India		
	योग	TOTAL	99657717

अनुसूची-10 स्थिर आस्तियों / SCHEDULE-10 FIXED ASSETS

(000's अनअंकित Omitted)

		31.03.19 को As on 31.03.19	31.03.18 को As on 31.03.18
I परिसर	Premises	51026	50093
II अन्य स्थिर आस्तियाँ (फर्निचर और फिक्चर सहित)	Other Fixed Assets (Including furniture and fixtures)		
1 अप्रैल की लागत पर	At cost as on 1st April of the current year	898758	838554
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	211923	105710
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	75866	45506
अद्यतन अवक्षयण	Depreciation to date	783187	710353
योग	TOTAL	302654	238498



अनुसूची-11 अन्य आस्तियां / SCHEDULE-11 OTHER ASSETS

		(000's अनअंकित Omitted)	
		31.03.19 को	31.03.18 को
		As on 31.03.19	As on 31.03.18
I	अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	Inter-Office adjustment (Net)	--
II	प्रोदभूत ब्याज	Interest accrued	1440260
III	अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर	Tax paid in advance / Tax deducted at source	0
IV	लेखन सामग्री और स्टाम्प	Stationery & stamps	14575
V	दावों की सन्तुष्टि में प्राप्त की गयी गैर बैंककारी आस्तियां	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	--
VI	अन्य	Others	3067447
	योग	TOTAL	4522282
			2812421
			4326881

अनुसूची-12 समाश्रित दायित्व / SCHEDULE-12 CONTINGENT LIABILITIES

		(000's अनअंकित Omitted)	
		31.03.19 को	31.03.18 को
		As on 31.03.19	As on 31.03.18
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	Claims against the bank not acknowledged as debts	--
II	भागतः संदत्त विनिधानों के लिये दायित्व	Liability for partly paid investments	--
III	विद्यमान अग्रिम विनिमय संविदाओं बाबत दायित्व	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	--
IV	संघटकों की ओर से दी गयी प्रतिभूतियां	Guarantee given on behalf of constituents	--
	भारत में	In India	--
	भारत के बाहर	Outside India	--
V	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	Acceptances, endorsement and other obligations	434678
VI	अन्य मदें, जिनके लिये बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है	Other items for which the bank is contingently liable	76857
VII	जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि	DEAF	428400
	योग	TOTAL	939935
			346868
			71033
			267676
			685577



अनुसूची-13. अर्जित ब्याज / SCHEDULE-13 INTEREST EARNED

(000's अनअंकित Omitted)

		31.03.19 को	31.03.18 को	
		As on 31.03.19	As on 31.03.18	
I	अग्रिमों/विनिमय पत्रों पर ब्याज/मिती काटा	Interest / Discount advances/bills	10434819	9021240
II	विनिधानों पर आय	Income on Investments	2511815	2316316
III	अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	Interest on Inter bank funds	1487506	1281967
IV	अन्य	Others		
	योग	TOTAL	14434140	12619523

अनुसूची-14. अन्य आय / SCHEDULE-14 OTHER INCOME

(000's अनअंकित Omitted)

		31.03.19 को	31.03.18 को	
		As on 31.03.19	As on 31.03.18	
I	कमीशन, विनिमय और दलाली	Commission, Exchange and Brokerage	389972	266321
II	विनिधानों के विक्रय पर लाभ	Profit on Sale of Investments	122561	4380
	घटाइये:विनिधानों के विक्रय पर हानि	Less: Loss on Sale of Investments	--	--
III	विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	Profit on revaluation of Investments	--	--
	घटाइये : विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	Less : Loss on revaluation of investments	--	--
IV	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	Profit on sale of land buildings and others assets	1473	2344
	घटाइये : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि	Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	257	139
V	विनिमय संब्यवहारों पर लाभ	Profit on exchange transactions	--	--
	घटाइये :विनिमय संब्यवहारों पर हानि	Less: Loss on exchange transactions	--	--
VI	विदेश/भारत में स्थापित समनुषंगियों/ कम्पनियों और/अथवा सह उद्यमों से लामांशों आदि के रूप में अर्जित आय	Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and /or joint ventures abroad / in India	--	--
VII	प्रकीर्ण आय	Miscellaneous Income	1033755	872300
	योग	TOTAL	1547504	1145206



अनुसूची-15. व्यय किया गया ब्याज / SCHEDULE-15 INTEREST EXPENDED

(000's अनअंकित Omitted)

		31.03.19 को As on 31.03.19	31.03.18 को As on 31.03.18
I	निक्षेपों पर ब्याज Interest on Deposits	7112264	6682268
II	अन्तर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on inter bank borrowings	927462	872519
III	अन्य Others	--	--
	योग TOTAL	<u>8039726</u>	<u>7554787</u>

अनुसूची-16. परिचालन व्यय / SCHEDULE-16 OPERATING EXPENSES

(000's अनअंकित Omitted)

		31.03.19 को As on 31.03.19	31.03.18 को As on 31.03.18
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था Payments to and provisions for employees	4637855	2675816
II	भाटक, कर और रोशनी Rent, taxes and Lighting	163239	132208
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and Stationary	31623	21761
IV	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	648	848
V	बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षयण Depreciation on Bank's property	72839	85236
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's fees, allowances and expenses	0	0
VII	अंकेक्षको की फीस और व्यय Auditor's fees and expenses	18168	13696
VIII	विधि प्रभार Law charges	4567	4144
IX	डाक महसूल, तार और टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones etc.	18352	17693
X	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	69000	50213
XI	बीमा Insurance	154574	129358
XII	अन्य व्यय Other Expenditure	638766	580851
	योग TOTAL	<u>5809631</u>	<u>3711824</u>



अनुसूची-17

Schedule - 17

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मुख्य लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार

संलग्न वित्तीय विवरण लागत मूल्य के आधार पर तैयार किये गए हैं, एवं देश में प्रचलित सामान्यतया स्वीकार्य लेखा प्रक्रियाओं एवं वैधानिक प्रावधानों की पुष्टि करते हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

आवश्यक अनुमान एवं मान्यता के आधार पर आस्तियों व देयताओं (समाश्रित देयता सहित) की राशि एवं आय-व्यय का वित्तीय विवरण बनाना होता है। प्रबंधन को विश्वास है कि इन वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रयोग में लाये गए अनुमान विवेक सम्मत एवं समुचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता प्राप्त है, जब तक भी अन्यथा नहीं लिया गया हो।

3. विनियोग

i. समस्त विनियोग भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं प्रायोजक बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किये गए हैं। विनियोग को तीन श्रेणियों यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय के लिए उपलब्ध व लेनदेन हेतु धारित में वर्गीकृत किया गया है एवं खातों में छः वर्गों में प्रकट किया गया है -

- परिपक्वता तक धारित - निवेश जो परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किये गये हैं।
- लेनदेन हेतु धारित - निवेश जो लेन-देन के उद्देश्य से प्राप्त किये गये हैं।
- विक्रय के लिए उपलब्ध - ऐसे निवेश जो उपरोक्त 'अ' व 'ब' के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा जो न तो लेनदेन प्रयोजनार्थ एवं न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किये गये हैं।

ii. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार प्रतिभूतियों में निवेशों को तुलन पत्र की तिथि में पूंजीकरण राशि को घटाते हुए दर्शाया गया है।

iii. विनियोगों पर आय की गणना/प्रावधान लागू ब्याज दरों पर वास्तविक प्राप्त ब्याज/अर्जित ब्याज के अनुसार की गई है।

iv. नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार प्रतिभूतियों में विनियोगों पर प्रीमियम राशि को अवशिष्ट परिपक्वता अवधि में पूंजीकृत किया गया है।

v. परिपक्वता तक धारित श्रेणी की एसएलआर प्रतिभूतियों को बाजार दर पर मूल्यांकित नहीं किया गया है एवं इन्हें जब तक अंकित मूल्य से अधिक नहीं हैं, अधिग्रहण मूल्य पर दर्शाया गया है एवं अंकित मूल्य से अधिक होने पर प्रीमियम को अवशिष्ट परिपक्वता अवधि में पूंजीकृत किया गया है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES for the year ended March 2019

1. Basis of Preparation :

The accompanying financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis and conform to the statutory provisions and generally accepted accounting Principles prevailing in the country, save as otherwise stated.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3. Investments:

(i) Investments have been made as per the guidelines issued by RBI, NABARD & Sponsor Bank. Investments are classified in three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale & Held for Trading and are disclosed in the Balance Sheet in six classifications.

- "Held to Maturity"** comprising investments acquired with the intention to hold them till maturity.
 - "Held for Trading"** comprising investments acquired with the intention to trade.
 - "Available for Sale"** comprising investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.
- Investments in securities are shown net of amortization of Premium as on date of Balance Sheet as per RBI guidelines.
 - The income on investments has been computed / provided for on the basis of actual interest earned/ accrued at the applicable rate of interest.
 - As per NABARD and RBI guidelines premium on investments have been amortised, over the period remaining to maturity.



“परिपक्वता तक धारित” विनियोग निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपक्वता पर धारित श्रेणी की एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा शुद्ध मांग एवं आवधिक देयताओं के 19.50 प्रतिशत से क्रमिक रूप से 19.25 प्रतिशत तक घटायी है।

- vi. निवेश जो कि “विक्रय के लिए उपलब्ध” श्रेणी में वर्गीकृत है उसे बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है। मूल्यह्रास या मूल्य संवर्धन को समेकित कर यदि मूल्यह्रास है तो इसका प्रावधान किया गया है किन्तु शुद्ध मूल्य संवर्धन को छोड़ दिया गया है।
- vii. AFS/HFT विनियोगों के विक्रय से प्राप्त लाभ व हानि को लाभ-हानि खाता में दर्शाया गया है।
- viii. परिपक्वता तक धारित श्रेणी की एसएलआर प्रतिभूतियों के अतिरिक्त सभी नॉन एसएलआर प्रतिभूतियों को स्क्रिपवार बाजार दर पर मूल्यांकित किया गया है। निवेश की सभी छः श्रेणियों के लिए प्रत्येक श्रेणी का मूल्य, मूल्यह्रास या मूल्य संवर्धन को समेकित किया है, यदि किसी श्रेणी में मूल्यह्रास राशि है तो इसका प्रावधान किया गया है किन्तु शुद्ध मूल्य संवर्धन को छोड़ दिया गया है।
- ix. बैंक द्वारा विनियोगों के लेखांकन के लिए सेटलमेंट तिथि को लेखांकन पद्धति की प्रक्रिया अपनाई गई है।

4. अग्रिम

अ) अग्रिमों को उत्पादक, अनुत्पादक, संदिग्ध एवं ह्यासित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इन आस्तियों पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नवीनतम परिपत्र क्रमांक RPCD.CO.RRB.NO.BC. 105/03.05. 34/ 2004-05 दिनांक 17.06.2005 में निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

I. उत्पादक आस्तियां

I. कृषि एवं एस.एम.ई.	- 0.25%
II. व्यवसायिक स्थावर सम्पदा	- 1.00%
III. अन्य	- 0.40%

II. अनुत्पादक आस्तियां

IV. कृषि एवं एस.एम.ई.	- रक्षित भाग का 10%	- अरक्षित भाग का 20%
-----------------------	---------------------	----------------------

III.

I. डी-1	- रक्षित भाग का 20%	- अरक्षित भाग का 100%
I. डी-2	- रक्षित भाग का 30%	- अरक्षित भाग का 100%
I. डी-3	- रक्षित व अरक्षित भाग का 100%	
II. हानिगत आस्तियां	- 100.00%	

- (v) Investments classified under Held to Maturity category in SLR category is not marked to market basis and is carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised over the period remaining to maturity. The investments included under 'Held to Maturity' does not exceed the prescribed limit. RBI has reduced the ceiling on SLR securities under the HTM category from 19.50 per cent on NDTL to 19.25 per cent in a graduated manner.
- (vi) Investments classified under AFS category are marked mark to market. Depreciation /appreciation are aggregated, net depreciation, if any is provided for, but net appreciation is ignored.
- (vii) Profit and loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in Profit and Loss account.
- (viii) Other than SLR Securities in HTM category, all Non SLR investments are marked to Market scrip wise. Depreciation /appreciation for each of six classifications are aggregated, net depreciation, if any, for each classification is provided for, but net appreciation is ignored.
- (ix) The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.

4. Advances :

(A) Advances are classified as Standard, Sub standard, Doubtful and Loss assets and Provisions for losses are made on these assets, as per the Prudential Norms fixed by NABARD norms as under latest circular No. RPCD.CO.RRB.No.BC.105/03.05.34/2004-05 dated 17th June 2005.

(i) Standard Assets: -

(i) Agriculture & SME	-	0.25%
(ii) Commercial Real Estate	-	1.00%
(iii) Others	-	0.40%

- (ii) Sub Standard Assets:- 10.00% (On secured portion)
- 20.00% (On unsecured portion)

(iii) Doubtful Assets:-

(i) D - I	-	20% of secured portion	-	100% of unsecured portion
(ii) D - II	-	30% of secured portion	-	100% of unsecured portion.

- (iii) D - III - 100% of secured & unsecured portion

- (iv) Loss Assets - 100%



क्र.सं.	अग्रिमों की श्रेणी	आधार
1	उत्पादक आस्तियां	खाते जो गैर निष्पादक आस्तियां नहीं हैं।
2	अनुत्पादक आस्तियां	01.04.2018 से 31.03.2019 के बीच की गैर निष्पादक आस्तियां
3	संदिग्ध 1	01.04.2017 से 31.03.2018 के बीच की गैर निष्पादक आस्तियां
4	संदिग्ध 2	01.04.2015 से 31.03.2017 के बीच की गैर निष्पादक आस्तियां
5	संदिग्ध 3	31.03.2015 या उससे पहले की गैर निष्पादक आस्तियां
6	हानिगत आस्तियां	आस्तियां जो हानिगत श्रेणी में वर्गीकृत हैं एवं जिनमें ऋण आस्तियों का मूल्य बकाया ऋण की तुलना में शून्य या 10 प्रतिशत से कम है।

ब) अग्रिमों को ऋणों पर वांछित हानि का प्रावधान ब्याज उचंत्, Suitfiled विविध जमा में प्राप्त राशियों को घटाकर शुद्ध दर्शाया गया है।

स) उत्पादक ऋणों पर बनाया गया प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 'अन्य दायित्व और प्रावधान' मद में दर्शाया गया है।

द) बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋण एवं अग्रिमों के विरुद्ध प्रतिभूतियों की उपलब्धता एवं मूल्यांकन का सत्यापन, प्रबन्धन द्वारा किया गया है, जिसे अंकेक्षकों द्वारा विश्वसनीय पाया गया है।

य) अवमानक खातों के मामलों में वसूल नहीं की गई ब्याज राशि को आय नहीं माना गया है. यदि वास्तविक वसूल नहीं हुई है, तो इसे आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदण्डों के अनुसार संबंधित ऋण खाते में जमा करते हुए विपरीत प्रविष्टि पारित की गई है।

र) नाबार्ड के निर्देशानुसार कृषकों को वित्त वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान रु. 3 लाख तक के फसली ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर दिए गए हैं। 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि नाबार्ड से सबवेंशन के रूप में दावा योग्य है। इसके आलावा समय पर केसीसी ऋण का भुगतान करने वाले कृषकों को 3 प्रतिशत ब्याज राहत प्रदान की गई है, एवं यह राशि भारत सरकार से प्राप्य ब्याज सहायता के रूप में दर्शायी गई है, जो नाबार्ड से दावा योग्य है। नाबार्ड से प्राप्य सबवेंशन. किसानों को उत्पादन व पोस्ट हारवेस्ट (फसल उपरान्त) प्रयोजनार्थ खातों के बकाया पर नाबार्ड परिपत्र संख्या CIR. No. NB. DOR-Policy/2965/IS-I/2018-19/Dt. 15/02/2019 के अनुसार देय है।

5. व्युत्पन्न

रिजर्व बैंक और नाबार्ड के दिशानिर्देशानुसार बैंक किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं करता।

6. स्थायी सम्पत्तियों एवं मूल्यह्रास

स्थायी सम्पत्तियों (कम्प्यूटर और एटीएम के अतिरिक्त) पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप घटती हुई पद्धति से लगाया गया है। कम्प्यूटर एवं एटीएम पर क्रमशः 33.33% और 20.00% सरल रेखीय पद्धति से मूल्यह्रास की गणना की गई है।

7. आय निर्धारण

अ. निम्न मदों, जिनमें आय निर्धारण, नकद आधार पर किया गया है, को छोड़कर सामान्यतया, आय व्यय का लेखा उपचय आधार पर किया गया है:-

i. गैर निष्पादक आस्तियों पर आय

Sr.No.	Category of Advances	Basis
1.	Standard Assets	Accounts which is not NPA
2.	Sub-Standard Assets	NPA during 01.04.2018 to 31.03.2019
3.	D I	NPA during 01.04.2017 to 31.03.2018
4.	D II	NPA during 01.04.2015 to 31.03.2017
5.	D III	NPA as on 31.03.2015 or before
6.	Loss Assets	Classified as loss assets and in which assets value of loan is nil or less than 10% of outstanding loan amount.

(B) Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit filed Sundry Deposits and Claim Received.

(C) Provision made for standard assets is shown under the head "OTHERS (including provisions)" in Schedule -5 "OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS" of the Balance Sheet.

(D) Verification of existence and valuation of securities against the loans and advances made to borrowers has been done by the Management and relied upon by Auditors.

(E) In case of Sub-standard accounts, unrecovered interest is not treated as income, if not recovered actually and the same is reversed by crediting in the respective loan accounts as per Income Recognition and Assets Classification Norms.

(F) In accordance with instructions of NABARD crop loans up to ₹ 3 Lakh provided to farmers in financial year 2017-18 and 2018-19 @ 7% P.A, interest subvention @ 2% is claimable by bank from NABARD. Further 3% relief amount provided to the farmers who have timely repaid their KCC loans and the same is shown in balance sheet as subvention receivable from G.O.I. Subvention is payable on outstanding amount of KCC account as per NABARD Cir. No. NB.DOR-Policy/2965/IS-I/2018-19 dated 15/02/2019

5. Derivatives:

As per RBI/NABARD guidelines, Bank does not enter into any derivatives contract.

6. Fixed Assets & Depreciation:

Depreciation on Fixed Assets (except Computers and ATM) has been provided for on WDV method at the rates prescribed under the companies Act 2013. In case of Computer and ATM, depreciation is provided for on Straight-Line Method at the rate of 33.33% and 20% respectively.

7. Revenue Recognition:

a) Income & Expenditure is generally accounted for on accrual basis except in the following cases which are being accounted for, on cash basis. :-



- ii. लॉकर किराया
 - iii. गारन्टियों पर कमीशन
 - iv. आयकर रिफण्ड पर ब्याज
 - v. बट्टाकृत एवं खरीदे गये बिलों पर ब्याज
 - vi. बीमा प्रीमियम एवं दावे
 - vii. कमीशन (बीमा कमीशन सहित) एवं विनिमय
 - viii. वार्षिक रखरखाव अनुबन्ध प्रभार
 - ix. म्युचुअल फंड एवं शेयर्स पर डिविडेन्ड से प्राप्त आय
- ब. अपलिखित ऋण खातों/विनियोगों में वसूली को लाभ-हानि खाता विवरण में आय के रूप में लेखांकित किया गया है।
- स. वाद दायर खातों के मामलों में, कानूनी व्यय लाभ-हानि खाता विवरण से प्रभारित किये गये हैं।

8. स्टाफ हित

8.1 भविष्य निधि

कर्मचारी भविष्य निधि योजना-1952 (संशोधन-2014) के अनुसार भविष्य निधि बैंक के लिए वैधानिक दायित्व है। इसे लाभ के योजना के रूप में परिभाषित किया गया है। इस योजना में बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित दरों पर एक निश्चित दर से भुगतान किया जाता है। उपरोक्त भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से नामे कर किया जाता है।

8.2 ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 2018 (संशोधन) के प्रावधानों के अनुरूप ग्रेच्युटी दायित्व का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किया गया है, जो दिनांक 29.03.2018 से प्रभावी है। ग्रेच्युटी दायित्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है और बीआरकेजीबी (कर्मचारी) समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। बैंक द्वारा ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा निगम, फ्यूचर जनराली इण्डिया लाइफ इन्श्योरेंस कं. लि. एवं इंडिया फर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कं. लि. से ली गई है।

8.3 पेंशन

8.3.1. पेंशन देयता, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 2018 के तहत एक परिभाषित लाभ दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो दिनांक 31.03.2010 तक बैंक में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए है या जिन्हें पेंशन के लिए चुना गया है।

8.3.2. 01.04.2010 या उसके बाद बैंक सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए लागू नई पेंशन योजना एक परिभाषित योगदान योजना है, बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित योगदान देता है और बैंक का दायित्व इस तरह के निश्चित योगदान तक सीमित होता है। योगदान लाभ-हानि खाते से नामे कर लिया जाता है।

8.4 बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपार्जित अवकाश के नकदीकरण और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए देयता प्रदान की जाती है। उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के देयता के लिए बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम, फ्यूचर जनराली इण्डिया लाइफ इन्श्योरेंस कं. लि. एवं इंडिया फर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कं. लि. से समूह अवकाश नकदीकरण पॉलिसी ले रखी है।

- i. Income on Non-Performing Assets
 - ii. Lockers Rent
 - iii. Commission on Letter of Guarantee
 - iv. Interest on Income Tax refund
 - v. Interest on Bills Purchased and Discounted
 - vi. Insurance Premium and Claims
 - vii. Commission (including insurance commission) & exchange
 - viii. AMC Charges
 - ix. Dividend Income on Mutual Fund and shares
- b) Recoveries in written off advances/investments are being accounted for as income in Statement of Profit and Loss Account
- c) In case of suit filed accounts, legal expenses are charged to Statement of Profit and Loss Account.

8. Employee Benefits:

8.1 Provident Fund

Provident fund is a statutory obligation as per Employees provident Funds Scheme 1952 amended in 2014. It is a defined benefit plans. The Bank pays fixed contribution at the pre-determined rates. The obligation of Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and loss account.

8.2 Gratuity

Gratuity Liability is a statutory obligation as per Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank Employee Group Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for as per provisions of Payment of Gratuity (Amendment) Act 2018 w.e.f 29.03.2018, on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year. The Gratuity liability is funded by the Bank and is managed by BRKGB (Employees) Group Gratuity Trust. For Gratuity liability, the Bank has taken Group Gratuity Policy from LIC of India, India First Life Insurance Co. Ltd. and Future Generali India Insurance Co. Ltd.

8.3 Pension

8.3.1 Pension liability is a defined benefit obligation under Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Employee's) Pension Regulation, 2018 and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who joined Bank up to 31.03.2010 and opted for Pension. The pension liability is funded by Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Employee's) Pension Fund Trust.

8.3.2 New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and loss account.

8.4 Other Employee Benefits

Liability for Encashment of accumulated Privilege Leaves and retirement benefits are provided on the basis of actuarial valuation. For Leave Encashment liability, Bank



9. संपत्तियों की क्षति (AS-28).

स्थायी संपत्तियों (पुनरीक्षित संपत्ति सहित) के मूल्यों में कमी (यदि कोई हो) की पहचान ICAI के द्वारा जारी लेखांकन मानक -28 के अनुसार होता है, और यदि ऐसा होता है, तो लाभ-हानि खाते को नामे किया जाता है।

10. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव

बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में शामिल नहीं है।

11. आय पर कर

इसमें ICAI द्वारा जारी AS-22 (आय पर कर) के अनुसार निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभाव या क्रेडिट (लेखांकन आय और अवधि के लिए कर योग्य आय के बीच अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं। आस्थगित कर को आय और व्यय की वस्तुओं के संबंध में विचार के अधीन माना जाता है जो एक समय में उत्पन्न होती है और एक या एक से अधिक बाद की अवधि में रिवर्स की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों पर वर्षों में कर योग्य आय पर लागू होने वाली कर व दरों का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें समय के अंतर के साथ रिवर्स होने की संभावना होती है। आस्थगित कर, परिसंपत्तियों और देनदारियों पर कर व दर में परिवर्तन का प्रभाव परिवर्तन के अधिनियमित अवधि में आय विवरण में मान्यता प्राप्त है। प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आस्थगित कर, परिसंपत्तियों और देनदारियों की पहचान की जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनका पुनः मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उनकी प्राप्ति यथोचित / लगभग निश्चित है।

12. प्रति शेयर अर्जन

लेखांकन मानक -20 के अनुसार, बेसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिये बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गई है।

13. समाश्रित दायित्व एवं संदिग्ध आस्तियां- प्रावधान आस्तियां

सनदी लेखाकार संस्थान के इस सम्बन्ध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण में हिसाब में नहीं लिया जाता है क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रूप में निकल सकता है, जिसकी कभी वसूली संभव न हो।

14. शुद्ध लाभ/हानि

लाभ निम्नलिखित समायोजन के पश्चात् दर्शाया गया है -

- I. अनुत्पादक आस्तियों पर प्रावधान
- II. मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधान
- III. अपलिखित खातों में प्राप्त वसूली
- IV. अन्य सामान्य एवं आवश्यक प्रावधान

has taken Group Leave Encashment Policy from LIC of India, Future Generali India Insurance Co. Ltd., and India First Life Insurance Co. Ltd.

9. Impairment of Assets (AS-28)

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and loss Account, if any occurs.

10. Effect of changes in Foreign Exchange rate

The Bank does not enter in foreign exchange market.

11. Taxes on Income

This comprise of provision for income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS-22(Accounting of Taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of change. Deferred tax assets and liabilities are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably/virtually certain.

12. Earnings Per Share

As per AS 20, Basic earnings per equity share have been computed by dividing net income by the number of equity shares outstanding for the period.

13. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued in this regard by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

14. Net Profit/Loss:

The net Profit has been arrived at after:

- i. Provision on non-performing assets.
- ii. General provision for standard assets.
- iii. Recovery made in the written off accounts.
- iv. Other usual and necessary provisions.



अनुसूची-18

Schedule - 18

लेखों पर टिप्पणियां

1. कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ :-

- 1.1 भविष्य निधि कोष में बैंक का अंशदान लाभ –हानि खाता विवरण को नामे कर किया गया है।
- 1.2 समूह उपदान कोष व समूह उपार्जित अवकाश नकदीकरण कोष में अंशदान लाभ बीमांकिक गणना के आधार पर लाभ हानि खाते को नामे करते हुए किया गया है, जैसा कि बिन्दु संख्या 1.3 में दर्शाया गया है।
- 1.3 वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ हानि उपदान कोष हेतु प्रावधान खाते से 194.90 लाख का भुगतान अभिज्ञात समूह उपदान कोष में व राशि 246.35 लाख का भुगतान समूह अवकाश नकदीकरण कोष में महाबही अवकाश नकदीकरण प्रावधान खाते से किया है।
- 1.4 माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25.04.2018 को आर. आर.बी कर्मचारी को देय पेंशन पर भारत सरकार द्वारा दायर वाद संख्या SLP(C) 39288/2012को खारिज कर सरकार को निर्देश दिया कि पूर्व में जारी माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2011 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.08.2012 को लागू किया जाए।

आर.आर.बी कर्मचारी को देय पेंशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और पेंशन विनियम 2018 पर भारत सरकार के नोटिफिकेशन के संदर्भ में, विवेकपूर्ण विनियामक उपचार(आरआरबी कर्मचारियों के लिए पहली बार पेंशन विकल्प का प्रारंभ) उपरांत – 31.03.2010 तक बैंक में शामिल होने वाले सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों के लिए, वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर बैंक की पेंशन देयता चालू वर्ष में ही उत्पन्न हुई है।

लेखांकन मानक -15 : कर्मचारी लाभ के अनुसार राशि 827.77 करोड़ की पूरी पेंशन देयता राशि (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार) को लाभ हानि खाते में लगाया जाना आवश्यक है। "बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 2018" के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि के लिए बैंक और कर्मचारी के योगदान का संचित शेष और उसमें अर्जित ब्याज पेंशन निधि का हिस्सा होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपरोक्त वर्णित निधि में राशि रु. 100.52 करोड़ शेष है। तदनुसार पेंशन के लिए अवशिष्ट देयता राशि रु. 727.25 करोड़ बनता है।

आर.आर.बी के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों के अभाव में, बैंक प्रबंधन ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी किए गए आरबीआई के परिपत्र क्रमांक DBOD.No.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेंशन देयता को पांच साल की अवधि में बढ़ाने का निर्णय लिया है, एवं उसी के अनुमोदन के लिए नाबार्ड से औपचारिक अनुरोध किया गया है।

तदनुसार, बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लाभ-हानि खाते में राशि

Notes on Accounts

1. Retirement Benefits to Employees :-

- 1.1 Bank's Contribution to Provident Fund is charged to Statement of Profit & Loss Account.
- 1.2 Contribution to recognised Group Gratuity Fund, Group Leave Encashment Policy Fund are made on the basis of actuarial valuation and charged to Statement of Profit & Loss Account as explained in point No. 1.3 below.
- 1.3 During the year Bank has paid ₹194.90 lac from "P/L Provision for Gratuity a/c" to recognized Group Gratuity Fund and ₹ 246.35 lac for Group Leave Encashment Policy from "G/L Provision for Leave Encashment account.
- 1.4 Hon'ble Supreme Court of India on 25.04.2018 has dismissed case no. SLP(C) 39288/2012 filed by GOI on pension payable to RRB staff and directed to the Government of India to implement Karnataka High court Judgement dated 22.03.2011 and Hon'ble Rajasthan High Court Judgement dated 23.08.2012 about payment of Pension to RRB employees.

In reference to the Honorable Supreme Court decision on the Pension to RRB employee's and GOI notifications on Pension Regulations 2018, prudential regulatory treatment (first time opening of pension option to employees of the RRB's) – The pension liability for Bank has arisen in current year itself on line of commercial banks, to the retired and existing employees who have joined the Bank up to 31.03.2010.

In terms of AS 15- Employee Benefits, the entire pension liability amount of ₹ 827.77 Crores (as per actuarial valuation) is required to be charged to the Profit and Loss Account. Further as per the "Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Employees) Pension Regulation 2018 the accumulated balance of the contribution of the Bank and employees towards pension/provident fund under the Employee's Pension Scheme 1995 and interest accrued thereon will part of the pension fund. AS per the information available the accumulated balance as described above is ₹ 100.52 crores. Accordingly the residual liability for the pension has been arrived at ₹ 727.25 Crores.

In the absence of specific guidelines for RRB's, the management of Bank has taken a decision to amortise the pension liability over a period of five years in line with the RBI guidelines issued for commercial banks vide circular no. DBOD.No.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 and a formal request has been made to NABARD for approval of the same.

Accordingly, the Bank has charged ₹ 145.45 Crores



रु 145.45 करोड़ (राशि रु. 727.25 करोड़ के पांचवे भाग) नामे किया और रु. 581.80 करोड़ की गैर-मान्यता प्राप्त शेष पेंशन देयता राशि का लेखांकन और परिशोधन अगले चार वर्षों की शेष अवधि में किया जायेगा।

1.5 नई पेंशन योजना :- विवेकपूर्ण नियामक उपचार के तहत, वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने नई पेंशन योजना के परिभाषित योगदान प्रयोजन के लिए रु 3.68 करोड़ का प्रावधान किया है।

2. लेखांकन नीति – 18 रिलेटेड पार्टी प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रयोजक बैंक (बैंक ऑफ बड़ौदा) से प्रतिनियुक्त स्टाफ के वेतन एवं अन्य भत्तों के लिए राशि रु. 171.03 लाख का भुगतान किया गया, जिसमें से राशि रु. 22.09 लाख का भुगतान बैंक अध्यक्ष को किया गया है। इसके अलावा बैंक ने कोई रिलेटेड पार्टी लेन देन नहीं किया है।

3. लेखांकन नीति –6 मूल्यह्रास लेखांकन

बैंक की स्थायी सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास बैंक के परिपत्र क्रमांक प्रका/लेखा-11/03/243 दिनांक 09.12.2015 के अनुसार किया गया है।

4. "अन्य दायित्व व प्रावधान" में राशि रु. 3120.64 लाख का प्रावधान शामिल है, जो मानक आस्तियों पर प्रावधान है।

5. 'विनियोग पर आय' को सरकारी प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए ब्याज को घटाकर दिखाया गया है।

6. वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने राशि रु. 447.15 लाख के ऋण खाते लाभ हानि खाता विवरण को नामे कर अपलिखित किये है।

7. वित्त वर्ष के दौरान बैंक को अपलिखित ऋण खातों में राशि रु. 64.52 लाख की वसूली प्राप्त हुई, जिसे लाभ-हानि खाता विवरण में जमा किया गया है।

8. लेखांकन नीति –11 विदेशी विनिमय दर:

विदेशी मुद्रा का लेनदेन रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया जाता है, विदेशी मुद्रा राशि को लेनदेन की तारीख पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच लागू विनिमय दर पर किया जाता है। एक निश्चित परिसंपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर पूंजीकृत कर किया जाता है। अन्य विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक अनुवाद अंतर खाते' में जमा किये जाते हैं। अन्य सभी लेनदेन के अंतर को अवधि के आय के रूप में या व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिससे वे उत्पन्न होते हैं।

बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में लेनदेन का काम नहीं करता है।

9. वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त उधार क्षेत्र में लक्ष्य के अतिरिक्त राशि 2910.00 करोड़ का "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र" (एसएफ/एमएफ) में निवेश किया है। जिससे बैंक को राशि 29.35 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ।

10. लेखांकन नीति –19

आपरेटिंग लीज को लीज की शर्तों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जिसके अंतर्गत पट्टादाता के सभी जोखिम और लाभ को प्रभावी ढंग से बरकरार रखता है जिसके लिए लाभ/हानि खाते में पट्टे पर एसएलएम आधार पर भुगतान के रूप में भुगतान को मान्यता दी

(representing one-fifth of ₹ 727.25 Crores) to the current year Profit and loss account and the unrecognized balance pension liability amount of ₹581.80 Crores shall be accounted for and charged off over balance period of four years of amortisation.

1.5 New Pension Scheme: Prudential regulatory treatment, during the year Bank has made provision of ₹3.68 Crores for New Pension Scheme defined contribution plan.

2. **AS-18 "Related Party Disclosures"** : During the period Bank has paid ₹ 171.03 lac as salary and other allowances to staff deputed by Sponsor Bank (Bank of Baroda) of which ₹ 22.09 lac were paid to Chairman. Except that, there are no transactions with related party.

3. **AS-6 "Depreciation Accounting"**: Depreciation on Fixed Assets has been provided as per Bank's Circular No. प्रका/लेखा-11/03/243 दिनांक 09.12.2015.

4. **"Other Liabilities and Provisions"** includes provision of ₹ 3120.64 lac, being the provision on standard assets.

5. Income on investments is shown as net of interest paid for broken period on Govt. securities.

6. During the financial year Bank has written off advances, amounting to ₹ 447.15 lac by debiting Statement of Profit & Loss Account.

7 Recovery of ₹ 64.52 lac received in written off Loan accounts during the period and it was credited to the Statement of Profit & Loss Account.

8. **AS-11, Foreign Exchange Rates:**

Foreign Currency transaction are recorded in the reporting currency, by applying to the Foreign Currency amount the exchange rate between the reporting currency and the Foreign Currency at the date of the transaction. Foreign Currency monetary items related to acquisition of a fixed asset are capitalized and depreciated over the remaining useful life of the assets. The exchange differences on other foreign currency monetary items are accumulated in "Foreign Currency monetary items translation difference account". All other Exchange differences are recognized as income or as expenses in the period in which they arise.

The Bank does not operate in Foreign Exchange Market.

9. During the financial year Bank participated in PSLC (SF/MF) for ₹ 2910.00 crores out of excess achievement of priority sector lending targets. Bank has earned commission of ₹ 29.35 crores from the said transaction.

10. **AS- 19 Leases :-** Operating lease is classified as



जाती है। लीज के तहत अधिगृहीत संपत्ति के रूप में वित्त पट्टे, जहाँ सभी महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ काफी हद तक कंपनी को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं जिसके लिए उचित मूल्य के निचले हिस्से में पट्टे के प्रारंभ में भुगतान किया जाता है या न्यूनतम पट्टा भुगतान और देनदारियों के वर्तमान मूल्य या समकक्ष राशि के लिए भुगतान किया जाता है।

वर्ष के दौरान बैंक में परिचालन पट्टे और वित्त पट्टे का कोई उदाहरण नहीं रहा है।

11. बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन नाबार्ड (KCC Master Circular NB. No. 231/ DOR 55 /2017 Dated 25.09.2017) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (FIDD.CD.FSD.BC.No 07/05.05.010/2017-18 dated 03.07.2017) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में है।

12. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम राशि को प्रतिभूति की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि में पूंजीकृत करने हेतु लाभ हानि खाता विवरण में विनियोगों पर अर्जित ब्याज से राशि 322.11 लाख नामे कर किये गये।

13. कर निर्धारण अधिकारी, अजमेर द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए उठाई गई मांग के लिए बैंक द्वारा राशि ₹30.21 लाख का आयकर भुगतान किया गया है। बैंक ने सीआईटी (अपील) के पास उक्त आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी है।

14. बैंक द्वारा वर्ष के दौरान लाभ हानि खाता नामे करते हुए आयकर हेतु राशि 5853.45 लाख का प्रावधान किया गया।

15. वित्तीय वर्ष के दौरान सभी शाखाओं में सीबीएस लागू करने के लिए बैंक ने राजस्व व्यय के रूप में राशि 490.30 लाख के प्रयोजक बैंक के व्यय की प्रतिपूर्ति की।

इसके अलावा, चालू वर्ष में पूंजीगत सीबीएस खर्च के लिए राशि 29.30 लाख लाभ हानि सीबीएस व्यय (परिशोधन) खाते में नामे किये गये हैं।

16. लेखांकन नीति- 21: "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखांकन नीति -23 "समेकित वित्तीय विवरणों में अनुषंगी में निवेश के लिए लेखांकन" और लेखांकन नीति -27 "संयुक्त उद्यमों में लाभ का वित्तीय विवरण"।

चूंकि बैंक का कोई सहायक और संयुक्त उद्यम नहीं है, इसलिए लेखांकन नीति- 21, लेखांकन नीति -23 एवं लेखांकन नीति -27 की आवश्यकता नहीं है।

17. लेखांकन नीति-22 : लेखांकन नीति-22 के अनुसार अवधि के दौरान आस्थगित कर राशि 374.82 लाख का आकलन किया गया और अवधि के दौरान राशि 81.36 लाख को बैंक के लाभ हानि खाते के अन्य आय के तहत दिखाया गया है।

18 लेखांकन नीति- 28 : संपत्तियों पर हानि प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर संपत्तियों में जाने वाली रकम की समीक्षा की जाती है। यदि आंतरिक या बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत है तो जहाँ भी संपत्ति में ली जाने वाली राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो वहाँ हानि की पहचान

asset taken under lease under which the lessor effectively retains all the risk and rewards of ownership for which payments are recognized as expense in the P/L account on a SLM basis over the lease term. Finance lease as classified as asset acquired under lease where all the significant risk and rewards are substantially transferred to company for which payment is capitalized at the inception of the lease at the lower of fair value or the present value of minimum lease payment and liabilities created for an equivalent amount.

During the year there has been no instance of operating lease and finance lease in the Bank.

11. KCC Scheme operative in our Bank is in compliance with guidelines issued by NABARD (KCC Master Circular NB. No. 231/ DOR 55 /2017 Dated 25.09.2017) and RBI (FIDD.CD.FSD.BC.No 07/05.05.010/2017-18 dated 03.07.2017).

12. As per RBI Guidelines the premium on investments in Govt. Securities has been amortized over the remaining period of maturity by debiting ₹322.11 lac in Statement of Profit & Loss Account Interest earned a/c on Govt. Securities during the year.

13. Income Tax payment of Rs.30.21 lacs pertains to demand raised by the AO, Ajmer for the A.Y. 2012-13 which has been paid by the bank. The bank has preferred an appeal against the said order with CIT(Appeals).

14. Provision of ₹ 5853.45 lac for Income Tax has been made by the Bank during the year by debiting Profit and Loss A/c

15. During the financial year, for implementing CBS in all the branches, Bank has reimbursed to Sponsored Bank expenditure of ₹ 490.30 lac as revenue expenditure.

Further, capitalized CBS expenses are being amortised in the current year ₹ 29.30 lac has been debited in Statement of Profit & Loss Account CBS Expenses (Amortised).

16. AS-21 "Consolidated Financial Statement" & AS-23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" & AS-27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Since the Bank does not have any subsidiary and joint venture, the requirement of AS-21, AS-23 and AS-27 are not applicable.

17. Deferred Tax Assets amounting to ₹ 374.82 lac arising for the period is calculated as per AS -22 and recognized ₹ 81.36 lac in the other income head of the books of account during the year.

18. AS-28, Impairment of Assets:

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date. If there is any indication of



की जाती है।

बैंक प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की कोई हानि नहीं हुई है।

19. लेखांकन नीति –29 प्रावधान , आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्ति।

बैंक ICAI द्वारा जारी लेखांकन नीति – 29 के अनुपालन में प्रावधानों, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक संपत्तियों की पहचान करता है व बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति में इसका उल्लेख करता है।

लेखांकन नीति –29 : लेखांकन नीति-29 के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के अवधि में राशि रु. 7.68 करोड़ के संभावित आयकर अपीलीय दावों के दायित्व की पहचान की गई। उपरोक्त को इस तुलनपत्र की अनुसूची-12 “आकस्मिक दायित्व” के रूप में दर्शाया गया है।

20. लेखांकन नीति –4: तुलन पत्र दिनांक 31.03.2019 के बाद होने वाली घटनाएं

तुलन पत्र दिनांक के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसके लिए लेखांकन नीति – 4 के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

21 आंकड़े निकटतम हजार रूपयों में दर्शाये गये हैं एवं जहां आवश्यक समझा गया, वहां पुनः समूहन किया गया है।

*

impairment based on Internal/External factors, an impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an assets exceed its recoverable amount.

In the opinion of Banks Management there is no impairment of assets during the year.

19. AS-29 Provision, Contingent Liability and Contingent Assets:

The Bank recognizes provisions, contingent liability and contingent assets in compliance to AS-29 issued by ICAI, and in terms of the accounting policy adopted and disclosed by the Bank.

Contingent Liability of ₹ 7.68 Crores has been identified during the Financial Year 2018-19 on account of Income Tax Appeal cases as per AS -29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”. The same has been disclosed in Schedule-12 “Contingent Liabilities” in Balance sheet.

20. AS-4 Events occurring after Balance Sheet date 31.03.2019:

There is no such event occurring after Balance Sheet date which requires disclosure as per AS-4.

21. Figures have been rounded off to nearest thousand rupee and regrouped wherever considered necessary.

*



1. नाबार्ड परिपत्र संख्या 104/DOS : 18/2008 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण दिनांक 31.03.2019 Additional Disclosure as per NABARD Circular NO. 104/ DOS.18/2008 Dt.30.06.2008 are as under:- AS ON 31.03.2019

A. पूंजी Capital

क्र.सं. Sr.No.	विवरण Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i)	सीआरएआर CRAR (%)	10.27%	10.20%
ii)	सीआरएआर- टीयरI पूंजी (%) CRAR – Tier I Capital (%)	9.94%	9.90%
iii)	सीआरएआर- टीयरII पूंजी (%) CRAR – Tier II Capital (%)	0.33%	0.30%
iv)	अंशधारिता का प्रतिशत Percentage of Shareholding of the		
A	भारत सरकार Government of India	50%	50%
B	राज्य सरकार State Government	15%	15%
C	प्रायोजक बैंक Sponsor Bank	35%	35%

B. विनियोग Investments

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lacs)

क्र.सं. Sr.	विवरण Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1.	विनियोग का मूल्य Value of Investments		
i)	विनियोग का समग्र मूल्य Gross Value of Investments	312940.69	292067.41
ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान Provision for Depreciation	684.92	451.65
iii)	विनियोग का शुद्ध मूल्य Net Value of Investments	312255.77	291615.76



2	विनियोग पर मूल्यहास हेतु रखे प्रावधान का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on Investments.	31.03.2019	31.03.2018
i)	प्रारम्भिक शेष Opening Balance	451.65	451.65
ii)	जोड़ें—वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान Add. Provisions made during the year	233.27	NIL
iii)	घटाएं— वर्ष के दौरान अपलिखित / पुर्नलिखित किये गये प्रावधान आधिक्य Less : Write off/write back of excess provisions during the year	NIL	NIL
iv)	अंतिम शेष Closing Balance	684.92	451.65

C. रेपो लेनदेन Repo Transactions

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lac)

मद Item	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2019 को As on 31 March 2019
रेपो के अन्तर्गत प्रतिभूति विक्रय Securities sold under Repos	NIL	NIL	NIL	NIL
रिवर्स रेपो के अन्तर्गत प्रतिभूति क्रय Securities purchased under reverse Repos	NIL	NIL	NIL	NIL



D. गैर-एसएलआर विनियोग Non SLR Investment Portfolio

(i) गैर एसएलआर विनियोग का जारीकर्ता मिश्रण Issuer composition of Non SLR Investments

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lac)

क्र.सं. S. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	प्राइवेट प्लेसमेंट की निवेश श्रेणी की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of Private Placement	पहले ही निवेश किये गए निवेश श्रेणी से नीचे की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of below investment grade securities	अनरेटेड प्रतिभूतियों की सीमा Extent of unrated securities	गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा Extent of unlisted securities
1	2	3	4	5	6	7
1	सरकारी क्षेत्र उपक्रम P.S.U.s	1151.39	1151.39	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं F.I.s	0.00	0.00	-	-	-
3	बैंक Banks	0.00	0.00	-	-	-
4	निजी संस्थान Private Corporates	0.00	0.00	-	-	-
5	अन्य Others	10.00	10.00	-	-	-
6	मूल्यहास के लिए प्रावधान Provision held towards depreciation	-	-	-	-	-
	कुल गैर-एसएलआर विनियोग Total Non SLR Investments	1161.39	1161.39	-	-	-

(ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर विनियोग Non performing Non-SLR investment

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lac)

विवरण Particulars	राशि Amount
01-04-2018 को प्रारम्भिक शेष Opening balance as on 01.04.2018	NIL
जोड़ा - वर्ष के (01.04.18 से 31.03.2019) दौरान बढ़ोतरी Add: Additions during the year since (01.04.18 to 31.03.2019)	NIL
घटाया - वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the above period	NIL
31.03.2019 को शेष Balance as at 31.03.2019	NIL
कुल प्रावधान Total Provisions held	NIL



2. आस्तियों की गुणवत्ता Assets quality

2.1 गैर-निष्पादक आस्तियाँ Non Performing Assets

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lac)

	विवरण Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i	शुद्ध अग्रिमों से शुद्ध गैर-निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत Net NPAs to Net Advances (%)	1.69%	2.01%
ii	गैर निष्पादक आस्तियों में संचलन Movement of NPAs (Gross)		
(a)	प्रारम्भिक शेष Opening balance	51820.70	41629.18
(b)	जोड़ें – वर्ष के दौरान बढ़ोतरी Additions during the year	18660.65	18526.33
(c)	घटाएं – वर्ष के दौरान कमी Reductions during the year	14651.54	8334.81
(d)	अंतिम शेष Closing Balance	55829.81	51820.70
iii	गैर निष्पादक आस्तियों में संचलन Movement of net NPAs		
(a)	प्रारम्भिक शेष Opening balance	20030.80	15485.61
(b)	जोड़े वर्ष के दौरान बढ़ोतरी Additions during the year	13244.48	16673.70
(c)	घटाएं – वर्ष के दौरान कमी Reductions during the year	13535.19	12128.51
(d)	अंतिम शेष Closing Balance	19740.09	20030.80
iv	गैर निष्पादक आस्तियों पर प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर किये गये प्रावधान के अतिरिक्त) Movement of Provisions for NPAs, (excluding provisions on Standard Assets)		
(a)	प्रारम्भिक शेष Opening balance	31789.90	26143.57
(b)	वर्ष के दौरान Provisions made during the year	4299.82	5646.33
(c)	अपलिखित / पुर्नलिखित किये प्रावधान आधिक्य Write-off/Write-back of excess provisions	-	-
(d)	अंतिम शेष Closing Balance	36089.72	31789.90



2.2 पुनर्गठन के अधीन ऋण आस्तियों का विवरण Details of Loan Assets subject to restructuring

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lac)

	विवरण Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i	पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनर्समझौता के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि Total amount of loan Assets subject to restructuring, rescheduling, renegotiation,	0.00	0.00
ii	पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनर्समझौता के अधीन मानक आस्तियों की राशि The amount of Standard Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation,	0.00	0.00
iii	पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनर्समझौता के अधीन अवमानक आस्तियों की राशि The amount of Sub-Standard Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation,	0.00	0.00
iv	पुनर्गठन, पुनर्निर्धारण, पुनर्समझौता के अधीन संदिग्ध आस्तियों की राशि The amount of Doubtful Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation,	0.00	0.00
	नोट Note {(i) = (ii) + (iii) + (iv)}	0.00	0.00

2.3 आस्तियों के पुनर्निर्माण के लिये प्रतिभूति/पुनर्निर्माण कम्पनी को विक्रय की गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

Details of financial assets sold to Securities (SC)/Reconstruction Company (RC) for Assets Reconstruction

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lacs)

क्र.सं. Sr. No.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i	खातों की संख्या No. of accounts	NIL	NIL
ii.	एससी/आरसी को विक्रय खातों का समग्र मूल्य (शुद्ध प्रावधान) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	NIL	NIL
iii.	समग्र प्रतिफल Aggregate consideration	NIL	NIL
iv.	पूर्व वर्षों में अन्तर्गत खातों के सम्बन्ध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
v	शुद्ध पुस्तक मूल्य पर समग्र लाभ/हानि Aggregate gain/loss over net book value	NIL	NIL



2.4. क्रय / विक्रय की गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण
Details of non-performing financial assets purchased / sold

A. क्रय की गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण
Details of non-performing financial assets purchased:

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lacs)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1(a)	वर्ष के दौरान क्रय खातों की संख्या No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
(b)	समग्र बकाया Aggregate outstanding	NIL	NIL
2(a)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते Of these, number of account restructured during the year	NIL	NIL
(b)	समग्र बकाया Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. विक्रय की गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण
Details of non-performing financial assets sold:

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lacs)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1	विक्रय किये गये खातों की संख्या No. of accounts sold	NIL	NIL
2	समग्र बकाया Aggregate outstanding	NIL	NIL
3	प्राप्त समग्र प्रतिफल Aggregate consideration received	NIL	NIL

2.5 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions on Standard Asset

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lacs)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions towards Standard Assets	3120.64	2654.80



3. व्यवसाय अनुपात Business Ratio

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lac)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i	वर्किंग फण्ड से ब्याज आय का प्रतिफल Interest income as a percentage to working funds	8.43	8.25
ii	वर्किंग फण्ड से गैर ब्याज आय का प्रतिशत Non - Interest income as a percentage to working funds	0.90	0.75
iii	वर्किंग फण्ड से परिचालन लाभ का प्रतिशत Operating profit as percentage to working funds	1.24	1.63
iv	आस्तियों पर आय Returns on Assets *	0.62	0.67
v	प्रति कार्मिक व्यवसाय (जमा+अग्रिम) Business (Deposits + Advances) per employee	717.66	678.95
vi	प्रति कार्मिक लाभ Profit per employee	2.80	2.97

* दोनो वर्षों के लिए शुद्ध लाभ का प्रतिशत As percentage to Net Profit.

4. सम्पत्तियां एवं दायित्व प्रबन्धन-सम्पत्तियों एवं दायित्वों की निश्चित मदों की परिपक्वता पैटर्न

Asset Liability Management - Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lac)

विवरण Particulars	1 से 14 दिवस तक 1-14 days	15 - 28 दिवस तक 15-to 28 days	29 दिन से 3 माह तक 29 days to 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months to 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months to One year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over one year to 3 year	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	योग Total
जमाएं Deposits	112446.85	25679.34	129516.51	164512.05	284566.06	775374.46	14273.98	7068.61	1513437.86
सकल अग्रिम Gross Advances	224052.02	38.42	1340.15	734.62	2027.64	868079.40	32944.34	74406.89	1203823.48
विनियोग व बैंक जमाएं Investments & Deposits with Bank	11521.03	6000.00	20106.23	67185.72	110384.23	43727.21	55022.23	208018.49	521965.14
उधार Borrowings	25.61	0.00	0.00	68298.99	47588.09	12372.59	13956.57	1731.14	143972.99
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign currency assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा दायित्व Foreign currency liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-



5. निवेश - स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश

Exposures - Exposures to Real Estate Sector

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lac)

क्र.सं. Sr.No.	श्रेणी Category	31.03.2019	31.03.2018
a	प्रत्यक्ष निवेश Direct Exposure	27145.39	24034.64
(i)	आवासीय बन्धक ऋणी द्वारा किराये पर अथवा रहने के लिए आवासीय सम्पत्ति पर बन्धक से प्रतिभूति ऋण (रु. 20.00 लाख तक के व्यक्तिगत आवास ऋण अलग से दर्शाये)। Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented (individual housing loan upto Rs .20.00 lac may be shown separately)	24553.31	21533.75
(ii)	व्यावसायिक स्थावर संपदा व्यावसायिक सम्पत्ति पर बन्धक से प्रत्याभूत ऋण (कार्यालय भवन, खुदरा जगह, बहुउद्देशीय व्यावसायिक भवन, बहुपरिवार के आवासीय भवन, बहु किरायेदार वाले व्यावसायिक भवन, औद्योगिक अथवा गोदाम, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास व निर्माण, आदि) निवेश में गैर निधि आधारित सीमा भी शामिल करें। Commercial Real Estate Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure would also include non - fund based (NFB) limits.	2363.02	2500.89
(iii)	बन्धक आधारित प्रतिभूति और अन्य प्रतिभूति में निवेश Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securities exposures	-	-
	a. आवासीय Residential	-	-
	b. व्यावसायिक स्थावर संपदा Commercial Real Estate	-	-
b)	अप्रत्यक्ष निवेश Indirect Exposure		
	हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी एवं नेशनल हाउसिंग बैंक को निधि आधारित गैर निधि आधारित निवेश Fund-based and non -fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	-	-



6. बैंक द्वारा एकल ऋण, समूह ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण

Details of Single Borrowers (SGL) (Limit 15 % of capital funds) , Group Borrower Limit (GBL) (Limit 40 % of capital funds) exceeded by the Bank.

- Nil -

7. विविध-वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधान की राशि

Miscellaneous - Amount of provisions made for Income-tax during the year

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lacs)

विवरण Particulars	31.03.2019	31.03.2018
आयकर प्रावधान Provision for Income Tax	5853.45	6869.50

8. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित दण्ड का प्रकटीकरण

Disclosure of Penalties imposed by RBI

- NIL -

9. लेखांकन मानक 17-अनुभाग रिपोर्टिंग-अनुभागवार आय का व्यय निम्नानुसार है-

Accounting Standard 17 - Segment Reporting - Segment-wise Income and Expenditure are as under:

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lac)

क्र.सं. Sr.No.	विवरण Particulars	31.03.2019	31.03.2018
I	आय Income		
	अग्रिमों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	104348.19	90212.40
	विनियोगों पर आय Income on Investments	25118.15	23163.16
	अन्तः बैंक निधियों पर ब्याज आय Interest Income on Inter Bank Funds	14875.06	12819.67
	अन्य आय Other Income	15475.04	11452.06
	कुल आय Total Income	159816.44	137647.29
II	व्यय Expenditure		
	ब्याज व्यय Interest Expenditure	80397.26	75547.87
	स्थापना लागत Establishment Cost	46378.55	26758.16
	अन्य व्यय Other Expenditure	11717.76	10360.08
	प्रावधान व आकस्मिकतायें Provision and Contingencies	10716.21	14704.42
	कुल व्यय Total Expenditure	149209.78	127370.53



10.1 प्रावधान व आकस्मिकतायें Provisions and Contingencies

(राशि ₹ लाखों में) (₹ in lac)

क्र.सं. Sr.No.	विवरण Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1	चल प्रावधान खाते का प्रारम्भिक शेष Opening Balance in the floating provisions accounts	Nil	Nil
2	लेखांकन में बनाये गये चल प्रावधान की मात्रा The quantum of floating provisions made in the accounting	Nil	Nil
3	लेखांकन में बनाये गये चल प्रावधान की मात्रा Amount of draw down made during the accounting year	Nil	Nil
4	चल प्रावधान खाते में अन्तिम शेष Closing balance in the floating provisions account	Nil	Nil

10.2 आरक्षित निधि से आहरण Draw Down from Reserves

- Nil -

10.3 शिकायतों का प्रकटन Disclosure of complaints

A. ग्राहक शिकायतें Customer Complaints

क्र.सं. Sr.No.	विवरण Particulars	Details
a	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	4
b	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	469
c	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	468
d	वर्ष के अन्त में लम्बित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	5



B. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश Award passed by the Banking Ombudsman

क्र.सं. Sr.No.	विवरण Particulars	Details
a	वर्ष के प्रारम्भ में अक्रियान्वित अवार्ड की संख्या No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	Nil
b	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	Nil
c	वर्ष के दौरान क्रियान्वित अवार्ड की संख्या No. of Awards implemented during the year	Nil
d	वर्ष के अन्त में अक्रियान्वित अवार्ड की संख्या No. of unimplemented Awards at the end of the year	Nil

C. एटीएम शिकायत ATM Complaints

क्र.सं. Sr.No.	विवरण Particulars	Details
a	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	29
b	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	3680
c	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	3489
d	वर्ष के अन्त में लम्बित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	220



D. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश (एटीएम शिकायत)

Award passed by the Banking Ombudsman (ATM Complaints)

क्र.सं. Sr.No.	विवरण Particulars	Details
a	वर्ष के प्रारम्भ में अक्रियान्वित अवार्ड की संख्या No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	Nil
b	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	Nil
c	वर्ष के दौरान क्रियान्वित अवार्ड की संख्या No. of Awards implemented during the year	Nil
d	वर्ष के अन्त में अक्रियान्वित अवार्ड की संख्या No. of unimplemented Awards at the end of the year	Nil

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि को अंतरित राशि Amount Transferred to DEAF

(राशि ₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2019	31.03.2018
जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि को अंतरित राशि का प्रारम्भिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	26.76	14.29
जोड़ें : वर्ष के दौरान जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि को अंतरित राशि Add: Amounts transferred to DEAF during the year	17.29	13.15
घटाएं : जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि के द्वारा प्राप्त राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	1.21	0.68
जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि को अंतरित राशि का अंतिम शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	42.84	26.76

1. जमाओं, अग्रिमों, ऋण जोखिम एवं एनपीए का संकेंद्रण

Annexure

Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

जमाओं का संकेंद्रण Concentration of Deposit	
(राशि ₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं Total Deposit of Twenty largest Depositors	595.57
बैंक की कुल जमाओं में 20 बड़े जमाकर्ताओं का प्रतिशत Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	3.94%



अग्रिमों का संकेंद्रण Concentration of Advances	
(राशि ₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
20 बड़े ऋणियों को प्रदत्त अग्रिम Total Advances to twenty largest Borrowers	171.43
बैंक की कुल अग्रिमों में बीस बड़े ऋणियों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to total Advances of the bank	1.43%
Advances should be computed as prescribed in our Circular on Strengthening of Prudential Norms – Provisioning Assets classification and Exposure Limit RPCD. BC. 97/03.05.34/2000-01 dated June 11, 2001 as per circular RPCD.RRB. BC. 97/03.05.34/2000-01 dated June 11, 2001	

आरक्षितता/ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of Exposures	
(राशि ₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
बीस बड़े ग्राहकों को प्रदत्त आरक्षितता/ऋण जोखिम का योग Total Exposures to twenty largest borrowers/customers	171.43
बैंक की कुल ऋण जोखिम/आरक्षितता में बीस बड़े ऋण जोखिम/आरक्षितता का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest Borrowers/Customers to total Exposures of the bank on borrowers/Customers	1.43%
Exposures should be computed based on credit and investment exposure as prescribed in our Circular on Strengthening of Prudential Norms Provisioning Assets Classification and exposures limit RPCD.RRB. BC. 97/03.05.34/2000-01 dated June 11, 2001..	

एनपीए का संकेंद्रण Concentration of NPAs	
(राशि ₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
चार बड़े एनपीए खातों में ऋण जोखिम Total Exposures to top four NPA Accounts	2.29



II. क्षेत्रवार एनपीए Sector Wise NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	क्षेत्र Sector	31.03.2019			31.03.2018		
		कुल बकाया अग्रिम Out standing Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	सकल एनपीए का कुल अग्रिम Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that Sectors	कुल बकाया अग्रिम Out standing Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	सकल एनपीए का कुल अग्रिम से क्षेत्रवार प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that Sectors
A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector						
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां Agriculture and Allied activities	9735.87	477.67	4.91	8395.94	436.93	5.20
2	औद्योगिक क्षेत्र जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत पात्र हों Advances to industries Sector eligible as priority sector landing	110.34	1.02	0.92	115.14	2.25	1.96
3	सेवाएं Services	505.80	30.00	5.93	336.50	30.89	9.18
4	व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	314.90	25.07	7.96	223.35	7.47	3.34
	उप-योग (अ) Sub Total (A)	10666.91	533.76	5.00	9070.93	477.54	5.26
B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non- Priority Sector						
1	कृषि एवं उससे सम्बद्ध गतिविधियां Agriculture and allied activities						
2	उद्योग Industry						
3	अन्य Others	946.97	23.69	2.50	850.49	39.67	4.66
4	व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	422.36	0.84	0.20	362.25	1.00	0.28
	उप-योग (ब) Sub- Total(B)	1369.33	24.53	1.79	1212.74	40.67	3.35
	योग (अ+ब) Total (A+B)	12036.24	558.30	4.64	10283.67	518.21	5.04



III. एनपीए की गतिविधि / झुकाव Movement of NPAs

विवरण Particulars	(राशि ₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
01 अप्रैल 2018 को सकल एनपीए Gross NPAs as on 1 st April 2018	518.21
जोड़े – लेखांकन वर्ष में नये एनपीए Additions (Fresh NPAs) during the year	186.61
उप-योग (अ) Sub Total (A)	704.82
घटाएं Less:	
(i) (सुधार/उन्नयन) Upgradations	84.58
(ii) वसूली Recoveries (excluding recoveries made from upgrade accounts)	57.47
(iii) अपलिखित Write-offs	4.47
उप-योग (ब) Sub Total (B)	146.52
31 मार्च 2019 को सकल एनपीए (अ-ब) Gross NPAs as on 31 st March 2019 (A-B)	558.30

*



एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

"एसआरजी हाऊस" प्लॉट नं. 2, एम.आई. रोड, गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर-302001

फोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365 फैक्स : (91-141)2362487

ई-मेल : info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com वेबसाइट : www.srgoyal.com

सेवामें,

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंशधारक
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सापेक्ष राय

- हमने बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय अजमेर के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2019 के तुलन पत्र, और इसी दिनांक को समाप्त हो रहे लाभ-हानि लेखों का विवरण, वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है, जिसमें हमारे द्वारा अंकेक्षित 25 (पच्चीस) शाखाओं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अंकेक्षित 592 (पांच सौ बरानबे) शाखाओं के विवरणों का समावेश है। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अंकेक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया है। इसके अलावा इस तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखों के विवरण, और नकदी प्रवाह विवरण में 228 (दो सौ अठाईस) अन अंकेक्षित शाखाओं के विवरण भी शामिल है। इन अन अंकेक्षित शाखाओं के अग्रिम 16.27 प्रतिशत, जमा 13.71 प्रतिशत, ब्याज आय 17.75 प्रतिशत और ब्याज व्यय 14.87 प्रतिशत है।
- हमारी राय में, जैसा कि बैंक की लेखा पुस्तकों द्वारा दिखाया गया और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के क्वालिफाइड राय को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा बैंक के लिए आवश्यक जानकारी देते हैं और 31 मार्च 2019 तक बैंक के लाभ, वर्ष के लिए नकदी प्रवाह और बैंक के मामलों में भारत में आमतौर पर स्वीकार किये गए लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करते हैं।

योग्य राय के लिए आधार

- अनुसूची-18 के बिन्दु संख्या 1 का 1.4- वित्तीय विवरणों में, जो रूपये की सीमा तक बैंक की पेंशन देयता के परिशोधन/स्थगन का वर्णन है। ₹ 581.80 करोड़ 31 मार्च, 2019 तक लाभ और हानि खाते में समान चार्ज करने के बजाय, जो कि भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक-15(संशोधित) "कर्मचारी लाभ" के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। वर्ष के लिए लाभ और आरक्षित अधिशेष उतने रूपये से अधिक हो गए हैं। ₹ 581.80 करोड़ और वर्तमान देनदारियों को उस सीमा तक समझा गया है। साथ ही इसका प्रभाव पूंजी पर्याप्तता पर पता लगाने योग्य नहीं है। हमने अपना अंकेक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुसार किया है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के हमारी जिम्मेदारियों को अंकेक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारत के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखा संस्थान द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है, इन

S R GOYAL & CO CHARTERED ACCOUNTANTS

"SRG HOUSE" Plot No. 2, M.I.Road, Opp. Ganpati Plaza, JAIPUR - 302 001

Phone: 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365 Fax: (91-141)2362487

e-mail: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com * website: www.srgoyal.com

Independent Auditor's Report

To, The Shareholders, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Qualified Opinion

- We have audited the standalone financial statements of Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2019, the Statement of Profit and Loss and the Statement of cash flows for the year then ended and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, which are included returns for the year ended on that date of 25 (Twenty Five) branches audited by us and 592 (Five Hundred and Ninety Two) branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India, Ministry of Finance, Government of India and NABARD. Also included the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of cash flows are the returns from 228 (Two Hundred and Twenty Eight) branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account form 16.27% of advances, 13.71% of deposits, 17.75% of interest income and 14.87% of interest expenses.
- In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us, **except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report**, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019, profit and its cash flow for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

- Note No. 1-1.4 of Schedule-18 to the financial statements, which describes amortization/deferment of pension liability of the Bank to the extent of Rs. 581.80 Crores as at 31st March, 2019, instead of charging the same in the Profit and Loss Account, which is not in accordance with the provisions of Accounting Standard 15 (Revised) "Employee Benefits" issued by Institute of Chartered Accountants of India. The profit for the year and reserve and surplus have been overstated by Rs. 581.80 Crore and current liabilities have been understated to that extent. Also the impact of the same on Capital Adequacy is not ascertainable.**

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics



आवश्यकताओं और आचार संहिताओं में हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं। वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

एम्फेसिस ऑफ़ मेटर

4. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में अनुसूची 18 में नोट 11- कुछ मामलों में, केसीसी खातों का रोलओवर उसी दिन किया जा रहा है जिस दिन किसान राशि चुकाता है, अप्रमाणित साक्ष्य के अभाव में हम ऐसे रोलओवर की वास्तविकता को सत्यापित करने में असमर्थ हैं। विशेष रूप से उन मामलों जहां किसान नकद में राशि जमा करता है और बढ़ी हुई सीमा बैंक द्वारा कम समय के अंतराल में उसी दिन नकद में वितरित कर दी जाती है। इस मामले में हमारी राय संशोधित नहीं है।

स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक प्रबंधन और प्रशासन का उत्तरदायित्व

5. बैंक का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देशों की पालना के लिए उत्तरदायी है, जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और बैंक के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। उक्त जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और घोखाघड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव व उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन, निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हो एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हो, एवं वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हो और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हो, चाहे घोखाघड़ी या त्रुटि ही कारण क्यों न हो। वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में, प्रबंधन बैंक की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तरदायित्व है जो उन्नतिशील प्रतिष्ठान के साथ-साथ लागू होता है, जैसा कि लागू हो रहा है, उन्नतिशील प्रतिष्ठान से संबंधित मामले और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक बंद करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता संचालन के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

अंकेंशकों का उत्तरदायित्व

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुरुव्यवहार से मुक्त हैं, चाहे घोखाघड़ी या त्रुटि ही कारण क्यों न हो, और एक अंकेंशक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि लेखांकन मानक के अनुसार किया गया अंकेंशक किसी गलत सामग्री के मौजूद होने का हमेशा पता लगाएगा। गलतियां घोखाघड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित प्रभावित कर सकता था।

लेखांकन मानक के पैराग्राफ 40 (बी) बताते हैं कि नीचे छायांकित सामग्री ऑडिटर की रिपोर्ट में परिशिष्ट में स्थित हो सकती है।

issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters

4. Note 11 in Schedule 18 regarding KCC scheme, in some of the cases, rollover of KCC accounts being done on the same day on which the farmer repays the amount, in absence of corroborated evidences we are unable to verify the genuineness of such rollover and credits in the account, particularly in cases where the farmer deposits the amount in cash and enhanced limit is also disbursed in cash immediately on the same day in short span of time.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') and NABARD from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibility

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



अनुच्छेद 40 (सी) बताता है कि जब कानून, विनियमन या राष्ट्रीय लेखा मानक स्पष्ट रूप से अनुमति देते हैं तो संदर्भ को एक उपयुक्त प्राधिकरण की वेबसाइट पर बनाया जा सकता है, जिसमें अंकेक्षक की रिपोर्ट में इस सामग्री को शामिल करने के बजाय ऑडिटर की जिम्मेदारियों का विवरण शामिल है, बशर्ते कि वेबसाइट के पते पर विवरण और नीचे दिए गए अंकेक्षक की जिम्मेदारियों से साथ असंगत नहीं है।

लेखा परीक्षा के मानक के अनुसार एवं लेखा परिक्षक के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं, और पूरे अंकेक्षण में पेशेवर संदेह को बनाए रखें। हम मी :-

- धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण चाहे वे जोखिमों के लिए उत्तरदायी हों, अंकेक्षक प्रक्रिया को डिजाइन करना और निष्पादित करना और उन अंकेक्षक साक्ष्यों को प्राप्त कर जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली मद के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
 - उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
 - लेखांकन में चल रहे वर्तमान चिंता के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या कोई घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षक साक्ष्य पर आधारित हैं हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या नीतियों से कंपनी में चिंता का विषय बना रह सकता है।
 - खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन कर, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में गलतफहमी का परिणाम जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं, व (2) वित्तीय वक्तव्यों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।
- हम अन्य मामलों में, अंकेक्षण योजना की गुंजाईश बनाई और समय के साथ साथ महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हम अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानते हैं, के साथ प्रबंधन करने वालों के साथ संवाद करते हैं। हम उन लोगों को भी एक वक्तव्य के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक व नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

Paragraph 40(b) of this SA explains that the shaded material below can be located in an Appendix to the auditor's report. Paragraph 40(c) explains that when law, regulation or national auditing standards expressly permit, reference can be made to a website of an appropriate authority that contains the description of the auditor's responsibilities, rather than including this material in the auditor's report, provided that the description on the website addresses, and is not inconsistent with, the description of the auditor's responsibilities below.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



अन्य मामले

7. हमने बैंक के स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 592 (पांच सौ बरानवे) शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-जोखा नहीं किया है। उपयुक्त शाखाओं के 31 मार्च 2019 तक की कुल अग्रिम राशि 8962.10 करोड़ रुपये और कुल जमा राशि 11493.33 करोड़ रुपये थे जैसा कि स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और अब तक की हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से शाखा लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः 'ए' और 'बी' फार्म में तुलन पत्र व लाभ और हानि खाता तैयार किया गया है।

9. उपर दिए गए पैराग्राफ 1 से 5 तक में संकेतिक अंकेक्षण की आवश्यक प्रकटीकरण सीमाओं के अधीन है, हम और रिपोर्ट करते हैं :

(अ) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे अच्छा व हमारे अंकेक्षण के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे उन्हें संतोषजनक पाया है।

(ब) बैंक के लेन-देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर है।

(स) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाया गया है।

10. हम और रिपोर्ट करते हैं कि :

अ. हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक खातों की उचित पुस्तकें बैंक द्वारा अब तक रखी गई हैं क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होती है। हमारे अंकेक्षण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रिटर्न हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त किया गया है।

ब. इस तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण व नकदी प्रवाह विवरण में उन शाखाओं से प्राप्त खाते की पुस्तकों व रिटर्न का समावेश है, जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया है।

स. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे साथ ठीक से व्यवहार किया गया है, और

द. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं है।

वास्ते :- एस. आर.गोयल एण्ड क.
सनदी लेखाकार

स्थान- अजमेर
दिनांक-20.05.2019

ए.के.अटोलिया
साझेदार

Other Matters

7. We did not audit the financial statements / information of 592 (Five Hundred and Ninety Two) branches included in the stand-alone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total advances of Rs. 8,962.10 crores as at 31st March 2019 and the total deposits of Rs. 11,493.33 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. We further report that;

a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books [and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For S R Goyal & Co.
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 001537C

(A.K. Atolia)
Partner
M. No. 077201

Place: Ajmer
Date: 20th May 2019



बैंक के मुदरस्य का माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार एवं मुख्य महाप्रबंधक नाबाई द्वारा लोकार्पण



माननीय निदेशक मण्डल 31.3.2019 हेतु बैंक के तुलन पत्र का अवलोकन एवं हस्ताक्षर करते हुए



माननीय निदेशक मण्डल द्वारा 'बैंक मित्र निर्देशिका' का विमोचन



पुलवामा शहीदों की सहायताार्थ बैंक स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री सुरक्षा कोष में प्रेषित की गई रूपये 43.25 लाख की राशि के बैंक के साथ महाप्रबंधक श्री योगेश माधुर



सतर्कता सप्ताह के अन्तर्गत प्रधान कार्यालय में ईमानदारी एवं भ्रष्टाचार के रोकथाम की शपथ दिलाते हुए अध्यक्ष महोदय



बैंक स्थापना दिवस के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों की शृंखला में अजमेर स्थित जे.एल.एन. अस्पताल में अधीक्षक के साथ रोगियों को फल वितरण करते हुए



बैंक स्थापना दिवस के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों की शृंखला में आयोजित सद्भावना रैली को मुख्य अतिथि हरी झण्डी दिखाकर रवाना करते हुए



शाखा मानटाउन सवाई माधोपुर में आयोजित चौपाल को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आर.सी. बशर



बैंक की स्थापना दिवस के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में अजमेर स्थित बजरंगगढ़ चौराहें पर की गई सजावट



असंगठित महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को रुपये 1.48 करोड़ का चेक सौंपते हुए CEO जिला परिषद कोटा के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक कोटा श्री आर.के. शर्मा



भीलवाड़ा में दिनांक 21.04.2019 को आयोजित 'जीतो जंग N.P.A. से एक बार फिर' के अन्तर्गत समारोह में पुरस्कार वितरण करते हुए माननीय अतिथिगण



'जीतो जंग N.P.A. से' अभियान के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर रहे झुन्दरू क्षेत्र को ट्रॉफी प्रदान करते हुए



सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 28.10.2018 से 03.11.2018 के अन्तर्गत बैंक मित्रों को शपथ ग्रहण कराते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक अलवर श्री राजेन्द्र सिंघल



बांसवाड़ा में आयोजित टाऊन हॉल मिटिंग में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार प्रदान करते हुए अध्यक्ष महादय



शाखा रेयाणा क्षेत्रीय कार्यालय बांसवाड़ा में सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत आयोजित गोष्ठी



बैंक की स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में भरतपुर में आयोजित सद्भावना रैली



शाखा लाम्बाखोह (कोटा क्षेत्र) में वित्तीय समावेशन कैंप में क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री आर.के. शर्मा संबोधित करते हुए



ग्राम बेरी जिला सीकर में आयोजित वित्तीय साक्षरता चौपाल को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एस.सी. गर्ग



ग्राम बमोरी जिला बारों में मुद्रा रच में स्थित एटीएम के माध्यम से ग्रामीणों को धन की निकासी के बारे में जानकारी देते हुए बैंक टीम



क्षेत्रीय कार्यालय चित्तौड़गढ़ में स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ग्राहक संगोष्ठी बैठक को संबोधित करते हुए, क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री आलोक जैन



स्थापना दिवस के अवसर पर ओपन शेल्टर होम चित्तौड़गढ़ में आयोजित कार्यक्रम में युक्षारोपण करते हुए, क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री आलोक जैन व अन्य



क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जी.एल. मीणा ग्राम भालेरी जिला चूरु में ग्राहक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए



क्षेत्रीय प्रबंधक श्री के.पी. गुप्ता ग्राम बुडाना में आयोजित ग्राहक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए



ग्राम कांठ में ग्राहक संगोष्ठी एवं चौपाल में उपस्थित जन समूह एवं क्षेत्रीय प्रबंधक श्री एम.पी. शर्मा



भारतीय बैंक संघ द्वारा 20.02.2019 को मुम्बई में आयोजित कार्यक्रम में लगातार चौथी बार 'Technology Bank of the Year' का पुरस्कार ग्रहण करते हुए बैंक टीम



दिनांक 11.06.2019 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में स्वयं सहायता समूह को वित्त पोषण करने के लिए, लगातार तीसरे वर्ष, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए अध्यक्ष महोदय



दिनांक 07.03.2019 को नाबाई द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में व्यवसाय विविधीकरण के संबंध में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार ग्रहण करते हुए अध्यक्ष महोदय

**Technology
award of the Year**
(Consecutively fourth year)

**MoRD Award for highest
DAY-NRLM SHG Credit
Linkage**

State level Award
(SHG Credit linkage & loan
Portfolio Diversification)



**PFRDA Award for
Social Security Schemes**

**Awarded by
NABARD**
(Excellent performance in
Rural Development &
Financial inclusion)

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक